

EDITORIAL NOTE

The present edition of the Uttaraḍhyāyana Sūtra has been printed from the text which Professor Jacobi had prepared when making an English translation of that work for the Sacred Books of the East, vol XLV. It was originally intended to give a substantially correct text without the various readings. Therefore the present edition does not claim to be a critical one in the true sense of the word but it would be unfair to call it an uncritical one; for every reading received into the text has been carefully selected from those found in the Calcutta edition of 1879 and in the Mss. mentioned in the Introduction to the Translation in the Sacred Books of the East. If a second edition should be wanted it will be a comparatively easy task to supply the various readings from the commentaries and some old and really good [Mss] and to correct the text where necessary.

The printing was begun some years ago, and it was carried on by starts and fits when the press was not engaged otherwise. One proof only could be revised by Professor Jacobi, hence misprints may be more frequent than could be desired. On the whole however, it will be admitted that the Printer has accomplished his task well, considering the circumstances under which the work had to be carried through the press.

JIVBAJ GHELLABHAI DOSHI

L. M. & S

New Gate—AHMEDABAD

प्रस्तावना.

आ प्रस्ताव ग्रन्थं मूळ मागर्षी भाषायां र्हा इत्यन मेको साद्वेचना हाये सवेक मूळ पाठ उरर्षी तमे साद्वेच पामे सुप रायी उपावेक छे आ उर्षीग अजगनेनो सुनपाठ गइ ये मटे जुदी मन उपायी प्रगट करी छे सुमपूज सुगर्गने माग एयी पांचक वर्ग मत्ये गाम शिक्षाणा छे

डाक्टर जीवराज घेलाभाइ टोशी

L M & S.

नये दरवाजे—अमदावाद्

आ पुस्तक अमदावादमां मळवानां ठेकाणां

श्रीभोवनदास रुग्नापदास आकाशेठ कुबानी पोळ.

श्री बालाभाइ छगनलाल कीकामटनी पोळ

श्री पोपटलाल मोतीलाल सारंगपुर सळीपानी पोळ.

शुद्धिपत्रं.



अध्ययन श्लोक.	अशुद्ध	शुद्ध
१ अ	१ संजोग	सजोगा
२ "	२३ लघु	लद्धुं
८ "	८ मु खेज्ज	मुखेज्ज
१० "	१६ किं तु	किं नु
१४ "	५ सुचिण्ण	सुचिण्ण
" "	३६ हस	हसा
१९ "	४५ भा	मी
२० "	७ दूरमणा	दूरमणा
२० "	२० अभी या	अधीया
२१ "	१० दसियं	देसियं
२२ "	४६ घम्मे	घम्मे
२५ "	२६ भुम	भूम
२५ "	२७ नोबलिप्पइ	नोबलिप्पइ
२६ "	५० पठिकमित्तु	पठिकमित्तु
२९ "	७२ *सेसाए	*सेसाए
३१ "	१४ य समाहिए	असप्राहिए
३१ "	१६ अ	य
३१ "	१६ स	से
३२ "	१११ —	चि बेमि
" "	" पमायदानं	पमायदानं
३४ "	१५ ककररसो	सकररसो (टीकाकार)
" "	३९ हि	ठि

अध्याय	श्लोक	अर्थ	शब्द.
१५	११	निदिग्गता	निदिग्गता
१५	१२	पुरुरीकाप	पुरुरी-कड (रीकाकार)
३६	१३	पपन माई	पप ने नाईया
३६	५५	समपगेग	समपगेगेग
११	८१	सुदं	सुदं
११	८७	—	विदमगागता
११	१३८	उ रंता	उरंता
११	१४४	भन्नोसुदुग नरभिवा	भन्नं न विपारिणं
११	१८५	जमपरागं	जमपरागं
११	२०७	दिमा	दिवा (गीताकार)
११	२०७	जेइसामया	गोइतानया
११	२१७	नईया	नार्इया
११	२२३	सण वृ०	सणंकु०
११	२३४	नहयेण	जहयेण
११	२४६	वापि	वावि

उत्तराध्ययन सूत्र.

प्रथमं अध्ययनम् ।

- लोगविप्पमुक्कस्स। अणुगारस्स त्तिस्कुणो ।
गय पाळकरिस्सामि। अणुपुर्वि सुणेह मे १.
गानिद्देसकरे। गुरुणमुववायकारए ।
ङ्गियागारसंपन्ने। से विणीए त्ति बुच्चई २
प्राणा^अनिद्देसगरे। गुरुणमणुववायकारए ।
मिणीए असंबुद्धे। अविणीए त्ति बुच्चई ३.
हा सुणी पूइकसी। निकसिज्जाइ सवसो ।
वं दुस्सीखपमिणीए। सुहरी निकसिज्जाइ ४.
णकुएणग चइत्ताणं। विट्ठं जुज्जइ सूयरो ।
वं सीख चइत्ताणं। दुस्सीखे रमई मिए ५.
गणिया चाव साणस्स। सूयरस्स नरस्स य ।
वेणए ठवेज्जा अप्पाणमिच्छन्तो हियमप्पणो ६.
म्हा विणायमेसिज्जा। सीखं पमिखजेज्जा व ।
इइपुत्त निओगट्ठी। न निकसिज्जाइ कण्डुई ७.

निसन्ते सियाऽभुद्री। बुद्धाणां अन्तिण मय
 अट्टजुत्ताणि मिष्पिज्जा। निरट्टाणि उ वज्ज
 अणुसासिठ न कुप्पिजा रन्तिसेत्रिज्ज पणि
 खुदेहि सह ससर्गिण हाम कील्ल च वज्जए
 मा य चण्णालिय कासी। अहुयं मा य आलं
 कालेण य अदिजित्ता तत्र झाड्जा एगगो
 आहन्न चण्णालिय कट्टु न निणहविज्ज कयाठ
 कड कडे ति चासेजा अरुम नो कमे ति य
 मा गलियस्से व कस वयणमिच्छे पुणो पु
 कस व दट्टुमाइसे। पावग परिवज्जए
 अणासवा थूलवेया कुसीला
 मिउं पि चण्णपकरिन्ति सीसा ।
 चित्ताणुया लहुं दक्खोववेया
 पसादए ते हुं। दुरासय पि
 नापुट्टो वागरे किंचि। पुट्टो वा माखिय
 कोह असेच्च कुबेजा धारेज्जा पियमप्पियं
 अप्पा चेव दमेयवो। अप्पा हु खल्लु हु
 अप्पा दन्तो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ

मे अप्पा दन्तो सजमेण तवेण य १
 ह परेहि दम्मन्तो बन्धणेहि वहेहि य २६
 णिणीय च बुद्धाणं धाया अटुव कम्मणा ।
 प्रावी वा जइ वा रहसेनेव कुज्जा कयाइ वि २७
 पस्कउं न पुरउं नेव किच्चाण पिटुउं ।
 जुञ्जे ऊरुणा ऊरुं सयणे नो पम्मिस्सुणे २८
 पद्धत्थियं कुज्जां पस्कपिण्णं च संजए ।
 सए-पसारिए वाक्किं न चिट्ठे गुरुणन्तिए २९
 आयारिएहिं वाहित्तो सुसिणीउं न कयाइ वि
 सयापेही नियागट्ठी उवचिट्ठे गुरुं सया ३०
 आखवन्ते खवन्ते वा न निसीएज्जा कयाइ वि
 वइऊणआसणं धीरो जउं जत्तं पम्मिस्सुणे ३१
 आसणगउं न पुच्छेज्जा नेव सेज्जागउं कया
 आगम्मुकुमुउं सन्तो पुच्छिज्जा पञ्चवीउमो ३२
 एव विणयजुत्तस्सा सुय अत्थं च तदुत्तरं ।
 पुच्छमाणस्स सीसस्सा वागरिज्जा जहासुय ३३
 सुसं परिहरे णिक्खुं न यं ओहारिणिं वए ।
 आसादोस परिहरे मायं च वज्जए सया ३४

न घण्डज पुट्टो मागजं न निरुट्टं न मम्मसं
 अण्णपुट्टा पण्णु वा। ठजयम्मसज्जन्तरेण वा
 समरेसु घागारेसु। सन्धीसु य। मदापहे ।
 एगो एगत्थिए सवि। नेर चिट्टे न संखवे
 जम्मे बुद्धा ऽणुमासन्ति। सीएण फरुसेण
 मम लादो ति पेदाए। पयञ्चो तं।
 अणुसासणमोत्राय। बुद्धम्मस्स य। चोयणं ।
 हिय त मण्णई पण्णो। वेस होइ असाहुणो
 हिय विगयज्जया बुद्धा। फरुस पि।
 वेस त होइ मृढाण। खन्ति सोहिकरं पयं
 आसणे उवचिट्टेज्जा। अणुच्चे अकुए थिरे
 अप्पुट्टाई निरुट्टाई। निसीएज्जऽप्पकुक्कुए
 काखेण निक्खमे जिक्खू ध्काखेण य पि
 अकाख च विवज्जेत्ता। काखे काखं समायरे
 परिवामीए न चिट्टेज्जा। जिक्खू एतेस
 पन्निक्खेण एसित्ता। मियं काखेण। जक्खए
 नाइदूरमणासन्ने। नऽन्नेसिं षक्खुफासञ्चो।
 एगो चिट्टेज्ज जसट्टा। खच्चित्ता तं नऽइक्कमे

नाइउच्चै व नीए वा नासन्ने/नाइदूरओ॥
फासुयं परकडं पिण्डं।पणिगाहेज्ज संजए ३४।
अप्पपाणप्पवीयंमि।पनिच्चन्नंमि संवुमे ।
समयं संजए जुञ्जे।जयं अपरिसामियं। ३५।
सुककि ति सुपकि ति।सुत्तिन्ने सुहमे।ममे।
एणिट्टिए सुवधे ति।सावज्जं वज्जए सुणी३६।
रभए पणिए सास'हयं चद व वाहए॥
वालं सम्मइ सासन्तो।गलियस्सं व'वाहए ३७।
खडुया मे चवेमा मे।अक्कोसा य।वहा य मे।
कल्लाणमणुसासन्तो।पावदिट्ठि ति मन्नई । ३८।
पुतो मे चाय नाइ ति।साहू कल्लाण मन्नइ ।
पावदिट्ठि उ अप्पाणं।सासं दासि ति।मन्नई३९।
न कोवए आयरियं।अप्पाणं पि न कोवए ॥
बुधेवघाई न सिया।न सिया तोत्तगवेसए ४०।
आयरिय कुविय नच्चा।पत्तिएण पसायए॥
विज्जवेज्ज पञ्चलिउमो'वएज्ज न'पुणो ति य४१।
धम्मज्जियं च।ववहारं'बुधेहायरियंसया ।
तमायरन्तो ववहारं'गरहं नाजिगच्छई ४२

माणोगय चवगयं।जाणित्तागग्गिग्ग उ ।
 तं परिगिग्ग वायाण्।ग्ग्गुणा उर्यायण् ४३
 प्रित्तं अचोठण निशं।रिण्य ह्यइ सुमोठण
 जहोयइट्टं सुत्तयं।किञ्जाठ।कुव्वं मया ४४
 नत्रा नमइ मेहायी।त्तण किन्ती से।जायए
 ह्वं किञ्जाणा मग्गा।भृत्ताणं जगइं जहाभ
 पुज्जा जम्म पमीत्तन्ति।मत्तुवा।पुव्वंसभुया ।
 पसत्ता।पान्नाठस्सन्ति।विउल।अट्टियं सुय ४६
 स पुज्जसत्थे।सुविणीयसंसए
 मणोरुई चिद्वइ।कम्मसंपया ।
 तवोसमायारिसमीहिसवुमे
 महज्जुई पञ्चे।वयाइ।पाळिया ४७
 स देवगन्धर्वमणस्सपूइए।
 चइत्तु देहं।मखपक्कंपुषय ।
 सिधे वा।हवइ।सासए॥
 देवे वा अप्परए।महइए ॥४८॥।त्ति।वेमि।

॥॥॥ विणयसुयमज्जयणां॥॥॥



॥ परीसहज्जयणं ॥

द्वितीयं अध्ययनम्

सुयं मे आठसं तेणं जगवया एवमक्खायं
इह खलु वावीसं परीसहा समणेणं जगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेइयाजे जिक्खू सोच्चा
ना ॥ जिच्चा ॥ अज्जिभूय ॥ जिक्खायरियाए ॥ प
रिध्वयन्तो पुटो नो विहण्णेजा ॥ (कयरे खलु ॥
वावीसं परीसहा ॥ समणेणं जगवया महावी-
रेणं कासवेण ॥ पवेइयाजे जिक्खू सुच्चा नच्चा ॥
जिच्चा ॥ अज्जिभूय ॥ जिक्खायरियाए ॥ परिध्वयन्तो
पुटो नो विहण्णेजा ॥ इमे खलु ते वावीसं परी-
सहा समणेणं जगवया महावीरेणं कासवेण पवे-
इयाजे जिक्खू सुच्चा नच्चा जिच्चा अज्जिभूय
जिक्खायरियाए परिध्वयन्तो ॥ पुटो नो विहण्णे-
जा ॥ तं जहा ॥ दिग्गजापरीसहे ॥ १ ॥ पिवासापरी
सहे २ ॥ सीयपरीसहे ३ ॥ उसिणपरीसहे ४ ॥ दसम
यपरीसहे ५ ॥ अचेवपरीसहे ६ ॥ अरइपरीसहे
७ ॥ इत्थीपरीसहे ८ ॥ चरियापरीसहे ९ ॥ निसीहि-

मणोगय वषगयं।जाणित्तायग्नियम् ३ ।
 तं परिगिञ्ज वायाए।कम्पुणा उवप्रायए ४३
 वित्ते अचोछाण निञ्ज।सिप्य हवइ सुघोइए
 जहोउइद्रं सुकय।किञ्चाछ।कुघई सया ४
 नत्रा नमइ मेदावी।लोए कित्ती से।जायए
 हवई किञ्चाण सरण।भृयाणां जगई जहा४
 पुञ्जा जस्स पसीयन्ति।सबुठा।पुर्वसथुया ।
 पसन्ना।दानइस्सन्ति।विजल।अट्टिय सुय४६
 स पुञ्जसत्थे।सुविणीयसंसए
 मणोरुई चिदुइ।कम्मसंपया ।
 तवोसमायारिसमाहिसवुंमे
 महज्जुई पञ्चै।वयाइ।पालिया ४७
 स देवगन्धमणुस्सपूइए।
 चइत्तु देहो।मखपङ्कपुषय ।
 सिंहे वा।हवइ।सासए॥
 देवे वा अप्परए।महकूए ॥४८॥।त्ति।वेमि।

॥॥॥ विणयसुयमज्जयणां॥॥॥



न मे निवारं अत्थि। बवित्ताणं न विज्जई ।
 अहं तु अग्गिं सेवामि। इइ भिक्खू न चिन्तएण
 उसिणंपरियावेणं। परिदाहेण तज्जिए ॥
 धिसु वा परियावेणं। साय नो परिदेवए । ७
 उन्हाहित्तो मेहावी। सिणाणं नो वि पत्थए ।
 तायं नो परिसिञ्जेज्जा। न वीएज्जा य अत्पर्यए
 पुट्ठो य दंसमसएहिं। समरेव महामुणी ।
 दागो संगामसीसे वा। सूरु अज्जिहणे पर १०
 सतसे न वारेज्जा। मण पि न पओसए ।
 उवेह न हणे पाणे। जुज्जन्ते। मससोणियं ११
 । रिजुसेहि वत्थेहिं। होक्खामि ति अचेवए ।
 दुवा सचेवए होक्खं। इइ भिक्खू न चिन्तए १२
 गयाऽचेवए होइ। सचेवे आवि एगया ।
 इयं धम्मं हियं नच्चा। नाणी नो परिदेवए १३
 गामाणुगामं रीयन्तं। अणगार अकिंचणै ।
 अरई अणुप्पवेसेज्जा। त तितिक्खे परीसंहं १४
 अरहं पिट्ठो किञ्चाध्विरए आयरस्किए ।
 धम्मारासमे निरारम्भे। व्वसन्ते मुणी चरे १५.

यापरीमहे । १० । मंजापरीमहे । ११ ।
 महे । १२ । प्रजापरीमहे । १३ । जायणापरीमहे ।
 छाजपरीमहे । १४ । रोगपरीमहे । १५ ।
 परीमहे । १६ । जलपरीमहे । १७ । . . . ३
 रीमहे । १८ । पलापरीमहे । १९ । . . .
 । २० । सम्मतपरीमहे । २१ । (दसणपरीमहे)

परीसहाण पविजती । आसवेण पवेइया ।।
 त जे उदाहरिस्सामि । आणुपुविं सुणेइ मे
 १दिगिज्जापरिगए । हेहे तवस्सी । जिक्खू थामव
 न विन्दे न विन्दावए । न पए न पयावए
 काळीपवङ्गसकासे । किसे धमणिसंतते ।
 मायन्ने असणपाणस्स । अदीणमणसो चरे
 एतत्त पुटो पिवासाए । दोगुज्जाखज्जसजए
 सीउदग न सेविज्जा । वियम्हस्सेसण चरे ॥
 विन्नावाएसु पन्थेसु । आउरे सुपिवासिए ।
 परिसुक्खमुहे दीणे । तं तितिक्खे परीसहं
 ३चरन्त विरयं बूहं । सीयं फूसइ पंगया ।
 नाइवेखं मुणी गच्छे । सोच्चाणं जिनसासणं

सोच्चाण फरुसा चासा।दारुणा गामकण्टगा ।
 तुसिणीओ उवेहेज्जा।न ताओ।मणसीकरे १५
 ३ हओो न संजखे त्तिक्खू।मणं पि न पओोसए।
 त्तिक्खं परमं नच्चा।त्तिक्खू धम्म।विचिन्तए १६
 ष्णाणं सजयं दन्तं।दणोज्जा कोइ।कत्थेइ ।
 १७ त्थि जीवस्स नासो।त्ति एव चिन्तेज्जं।सजए १७
 १४ उक्कर खल्लु ओ निच्चं।अणगारस्स।त्तिक्खुणो।
 सव्व से जाइयं होइ।नत्थि किंचिं अजाइय १८।
 गोयरग्गपविट्ठस्स।पाणी नो सुप्पसारए ।
 १९ सेओो अगारवासु त्ति इइ त्तिक्खू।न चिन्तए १९
 २० परेसु घासमेसेज्जा।ओयणे परिणिट्ठि ।
 व्रधे पिण्णे अल्लधे वां।नाणुतप्पेज्जं।पण्डिए ३०
 अज्जेवाह न लब्भामि।अवि छाओो।सुए सिया।
 जो एवं पम्मिं चिक्खे।अल्लओो तं।न तज्जए ३१
 ३२ नच्चा उप्पइयं उक्खं।वेयणाए दुहट्ठिणं ।
 अदीणो थावए पन्नं पुत्तो।तत्थ ऽहियासए ३२।
 तेगिच्च नाजिनन्देज्जा।सचिक्खवत्तगवेसए ।।
 एवं खु तस्स सामण्णज न कुज्जा न कारवे ३३

- तस्यो एव मण्ड्याणां जात्रो वागमि
 जस्य एवा परिनायाप्युक्तं तस्य
 एवमादाय मेहायो एव नृयात्रो इति
 नो तादि विणिहन्निजा। चरं ऊ उत्तग्रेम
 १० एव एव चरे खादे अजिनृय परीसहे ।
 गामे वा नगरे वा विनिगमं वा रायहाणि
 अममाणो चरे जिम्बूनेव कुजा परिगह
 अससतो गिहत्थेदि अणिकेवो परिवण
 १० सुसाणे सुन्नगरे वा फ्रुखमूले वा ।
 अकुक्कुओ निसीएजा। न य वित्तासण पर
 तत्थ से अच्चमाणस्स उवसग्गाऽजिधारण
 सङ्काजीओ न गच्छेजा उदिता अन्नमासण
 ११ उच्चावयादिं सेजाहिं तवस्सी जिम्बू थाम
 नातिवेख विहन्नेज्जा भावदिदी विहन्नइ
 पहरिकं वसय लधुं कक्षाणं अडुव पावय
 किमेगराय करिस्सत्ति एव तत्थ
 १२ अक्कोसेज्जा परे जिम्बू न तेसिं पा
 सरिसो होइ बादाणं तम्हा जिम्बू न

तवोवहाणामादायपमिमं पमिवज्जओ ।

एवं पि विहरओ मे 'ब्जमं न निवहए ४३

एए नत्थि नूणं परलोए । इही वावि तवस्सिणो ।

अडुवावज्जिचओमि ति इइ जिक्खू न चिन्तए ४४

अभू जिणा अत्थि जिणा अडुवावि अविस्सई

सं ते एवमाहंसु । इइ जिक्खू न चिन्तए ४५

एए परीसहे सधे कासवेण पवेश्या ।

जे जिक्खू न विहनेज्जा पुटो केणइ कन्दुई ४६

ति वेसि

॥ परीसहस्रयणं ॥

चाठरङ्गिजां तृतीय अध्ययनम्

चत्तारि परमहाणि । उल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्त सुई सधे । सजमम्मि य वीरियं

समावन्ना ण मंसारे । नाणागोत्तासु जाइसु ।

कम्मा नानाविहा । कट्टु । पुढो विस्संजिया पय

एगया देवलोएसु । नरएसु वि एगया ।

एगया आसुर काय अदीकम्मेहिं गच्चई

एगया खत्तिं होइ तं चण्णालोक्कसो

तं कीडपयडो य । तं कुन्धुपिवाडिया

- १७ अचेतगस्स। दृढम्मंजयस्स तवस्सिप्पे
 तणोसु सयमाणस्स। दुग्जा गायविराहणा ३४
 आयवस्स। निवाएणा। अजला दवइ। वेयणा।
 एव नच्चा न सेवन्ति। तन्तुज तणतज्जिया। ३५
- १८ किद्धिन्नगाए मेहावी। पद्धेण व रएण वा।
 धिसु वा परितावेण। साय नो परिदेवए ३६
 वेएज्ज निज्जरापेही। आरिय धम्मएणुत्तर।
 जाव सरीरजेओ ति। जह्वं काएण धारए ३७
- १९ अज्जिवायणमञ्जुदण। सामी कुज्ज निमन्तए
 जे ताइं पस्सिसेवन्ति। न तेसिं पीहए मुणी ३८
 अणुक्साई अप्पिच्छे। अन्नाएसी अलोक्षुए।
 रसेसु नाणुगिज्जेज्जा। नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ३९
- २० से नूणं मए पुव। कम्माडणाणफेखा कमा
 जेणाहं नाज्जिजाणामि। पुत्ते केणइ करेहुई ४०
 अइ पच्छा उदिज्जन्ति। कम्माडणाणफेखा
 एवमस्सोसिं। अप्पारं नच्चा कम्मविवागयं ४१
- २१ निरुग्गम्मि विरओ। मेहुणाओ सुसवुनो।
 जो सक्ख नाज्जिजाणामि। धम्मं कस्साणापावगं ४२

तवोवहाणमादाय। पम्मिं पम्विज्जओ ।
 एवं पि विहरओ मे षण्णमं न निवट्टए ४३
 ११ नत्थि नूणं परलोए। इही वावि तवस्सिणो ।
 अडुवावज्जिचओ मि त्ति इइ जिक्खू न चिन्तए ४४
 अभू जिणा अत्थि जिणा अडुवावि जविस्सइ
 सं ते एवमाहंसु। इइ जिक्खू न चिन्तए ४५
 एए परीसहे सधे। कासवेण पवेइया ।
 जे जिक्खू न विदन्नेज्जा। पुट्ठो केणइ कन्दुई ४
 ति वेसि

॥ परीसहस्रयणं ॥

चाउरङ्गिका तृतीयं अध्ययनम्

चत्तारि परमङ्गाणि। उल्लहाणीद जन्तुणो ।
 माणुसत्त सुई सधा। सजमम्मि य वीरियं
 समावन्ना ण मसारे। नाणागोत्तासु जाइसु ।
 कम्मा नानाविहा। कट्ठु। पुढो विस्संजिया पय
 एगया देवलोएसु। नरएसु वि एगया ।
 एगया आसुरं काय अहाकम्मेहिं गत्तई
 एगया खत्तिजं होइ तजं चण्णखवोक्कसो ।
 तजं कीडपयद्दो य। तजं कुन्धुपिवात्थिया

- १७ अचेदगस्स। दूहस्सं। सजयस्स तवस्सिणो
 तणोसु सयमाणस्स। हुज्जा गायविराहणा ३६
 आयवस्स। निवाएणा। अजत्ता। इवइ। वेयणा ॥
 एव नच्चा न सेवन्ति। तन्तुजं तणतज्जिया। ३७
 १८ किविन्नगाए मेहावी। पिङ्केण व रएण वा ।
 धिसु वा परित्तावेण। सायं नो परिदेवए ३६
 वेएज्ज निज्जरापेही। आरिय धम्मेषुत्तर ।
 जाव सरीरजेओ ति। जह्वं काएण धारए ३७
 १९ अज्जिवायणमञ्जुदणं। सामी कुज्ज निमन्तए
 जे ताई पप्पिसेवन्ति। न तेसिं पीहए मुणी ३७
 अणुत्तसाई अप्पिच्छे। अन्नाएसी अत्तोत्तुए ।
 रसेसु नाणुगिज्जेज्जां। नाणुत्तप्पेज्ज पन्नवं ३७
 २० से नूणं मए पुव्वं। कम्मआऽणाणाफत्वा कमा
 जेणाहं नाज्जिजाणामि। पुत्तो केणइ करेहुई ४
 अह पच्छा उदिज्जन्ति। कम्मआऽणाणाफत्वा
 एवमस्सासिं। अप्पाणं नच्चा कम्मविवागयं ४
 २१ निरद्गम्मि विरओ। मेहुणाओ सुसवुनो ।
 जो सक्ख नाज्जिजाणामिं धम्मं कल्लाणपावगं ४

तवोवहाणमादायपमिमं पमिवज्जओ ।
 एवं पि विहरओ, मे षुमं न निवट्टए ४३
 २१ नत्थि नूणं परखोए । इही वावि तवंस्सिणो ।
 अडुवावज्जिओमि त्ति इइ जिक्खू न चिन्तए ४४
 अभू जिणा अत्थि जिणा अडुवावि । अविस्सई
 सं ते एवमाहंसु । इइ जिक्खू न चिन्तए ४५
 एए परीसहे सधे । कासवेण प्रवेइया ।
 जे जिक्खू न विहजेज्जा । पुटो केणइ कन्दुई ४
 ति वेस्सि

॥ परीसहस्रयणं ॥

चात्तरङ्गिणा तृतीय अन्वयनम्

चत्तारि परमद्वाणि । उल्लहाणीह जन्तुणो ।
 माणुसत्त सुई सधा । सजमम्मि य वीरियं
 समावन्ना ण मसारे । नाणागोत्तासु जाइसु ।
 कम्मा नानाविहा । कहु । पुढो विस्संजिया पर
 एगया देवलोएसु । नरएसु वि एगया ।
 एगया आसुरं काय अहाकम्मेहिं गच्चई
 एगया खत्तिउं होइ । तउं चण्णालवोक्कसो ।
 तउं कीडपयद्दो य । तउं कुन्धुपिवाविया ।

- १७ अचेदगस्स। दूहस्स संजयस्स तवस्सिणो
 तणेषु सयमाणस्स। हुज्जा गायधिराहणा ३
 आयवस्स। निवाएण। अजला। इवइ। वेयणा।।
 एवं नच्चा न सेवन्ति। तन्तुजं तणतज्जिया। ३
- १८ किलिक्खगाए मेहावीपिङ्केण व रएण वा।
 धिसु वा परितावेण। सायं नो परिदेवए ३।
 वेएज्ज निज्जरापेही। आरिय धम्मेषुत्तर।
 जाव सरीरजेओ ति। जह्वं काएण धारए ३।
- १९ अजिवायणमञ्जुदणं। सामी कुज्ज निमन्तण
 जे ताई पफिसेवन्ति। न तेसिं पीहए मुणी ३।
 अणुक्कसाई अप्पिच्चे। अन्नाएसी अखोत्तुए।
 रसेसु नाणुगिज्जेज्जा। नाणुत्तप्पेज्ज पन्नवं ३।
- २० से नूणं मए पुवं। कम्माऽणाणफळा कमा
 जेणाहं नाजिजाणामि। पुत्ते केषइ करेहुई ४
 अह पच्चा उदिज्जन्ति। कम्माऽणाणफळा ५
 एवमस्सोसिं। अप्पाणं नेच्चा कम्मविवागयं ४।
- २१ निरदगम्मि विरओ। मेहुणाओ सुसवुओ।
 जो सक्ख नाजिजाणामि धम्मं कखाणपावगं ४।

महासुक्ताव दिप्पन्तामन्नन्ता अपुणञ्चवं १४.
 अप्प्रिया देवकामाणं। कामरूर्वविउधिणो ।
 उहं कप्पेसु चिट्ठन्ति। पुष्ठा वाससया बहू १५
 तत्थ ठिच्चा जहागण। जक्खा आउक्खए चुया
 उविन्ति माणुसं जोणिं। से दसङ्गे ऽज्जिजायए १६।
 खित्तं वत्थुं हिरण्ण च। पसवो दासपोरुस ।
 उत्तारि कामखन्धाणि। तत्थ से उववज्जई १७.
 मित्तवं नायवं होइ। उच्चगोए य वण्णवं ।
 अप्पायङ्के महापन्ने। अज्जिजाए जसो बळे १८.
 जोच्चा माणुस्सए जोए। अप्पफिरूवे अहाउयं ।
 पुधिं विसुधस-धम्मं। केवलं बोहि बुद्धिया १९।
 चउरङ्गं दुल्लह मत्ता। सजमं पफिवज्जिया ।
 तवसा धुतकम्मसे। सिद्धे हवइ सामए २०॥
 त्ति वेमि

॥। चाणक्य ॥।

असखयं चतुर्थं अध्ययनम्
 असंखय जीविय। मा पमायए
 जरोवणीयस्स। हु नत्थि ताण ।
 एव वियाणाहिं जणे पमत्ते

एवमावट्टजोणीसु। पाणिणो कम्मकिविसा।
 न निविज्जन्ति ससारे। सवट्टेसु य खत्तिया
 कम्मसद्देहिं सम्मूढा। दुक्खिया बहुवेयणा।
 अमाणुसासु जोणीसु। विनिहम्मन्ति पा।
 कम्माणं तु पहाणाए। आणुपुवी कयाइ उ।
 जीवा सोहिमणुप्पत्ता। आययन्ति मणुस्सय
 मणुस्स विग्गह लक्षु सुइ धम्मस्स दुल्लहा।
 जं सोच्चा पम्बिज्जन्ति। तव खन्तिमहिंसयं
 आहच्च सवणं लक्षु। सक्ष परमदुल्लहा।
 सोच्चा नेआजय मगं। वहवे परिजस्सई
 सुइ च लक्षु सक्ष च वीरिय पुण दुल्लहं।
 वहवे रोयमाणा विनो य ण पम्बिज्जई १
 मणुसत्तमि आयाजं। जो धम्म सोच्च सद्धे
 तवस्सी वीरियं लक्षु। सवुडे निक्षुणे रय १
 सोही उज्जुयजूयस्स। धम्मो सुच्चस्स चिदई।
 निष्वाण परमं जाइ। घयसित्ति व पावण १
 विगिअ कम्मणो हेउं जसं सचिणु खन्तिए।
 पाढवं सरीर हिच्चा। उहं पक्कमई दिस १
 ॥ विसावसेहिं सीवेहिं। जक्खा उत्तर-उत्तरा।

घोरा मुहुत्ताऽबलं।सरीरं
 नारुण्डपक्खी।व।चरऽप्पमत्ते।। ६.
 चरे पयाइं।परिसङ्कमाणो
 जं किञ्चि पासं।इह मन्नमाणो ।
 द्वाजन्तरे जीविय।वूहइत्ता
 पच्छा परिन्नाय।मत्तावधंसी ७.
 उन्दनिरोहेण।उवेइ मोक्खं
 आसे जहा।सिक्खियवन्मधारी ।
 पुष्पाइं वासाइं।चरऽप्पमत्तो
 तम्हा मुणी।खिप्पमुवेइ।मोक्खं । ८।
 स पुषमेव ना।द्वजेज्जा पच्छा
 एसो ऽवमा।सासयवाइयाणं।।
 विसीदईं।सिद्धिसे।आलयमि
 काधोवणीए।सरीरस्स जेदे ९.
 खिप्प न सक्केइ।विवेगमेउं
 तम्हा समुट्ठाय।पहाय कामे ।
 समिच्च लोगं।समयामहेसी
 अप्पाणरक्खी।चर अप्पमत्तो १०.
 मुहु मुहु मोहगुणो।जयन्तं

कण्णु विहिंसा अजया गिहन्ति ॥१॥
 जे पावकम्मेहि धणं मणसा
 समाययन्ती अमइं गहाय ॥
 पहाय ते पासपयट्टिए नरे
 वेराणुवद्वा नरय उवेन्ति ॥२॥
 तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए
 सकस्मुणा किञ्चइ पावकारी ॥
 एवं पया पेच्च इह च लोए
 कमाण कम्माण न सुक्ख अत्थि ॥३॥
 संसारमावन्न परस्य अट्टा
 साहारण ज च करेइ कम्म ।
 कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाखे
 न बन्धवा बन्धवरय उवेन्ति ॥४॥
 वित्तेण ताण न खन्ने पमत्तो
 इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।
 दीव प्पणट्टे व अणन्तमोहे
 नेयाजय दट्टुमदट्टुमेव ॥५॥
 सुत्तेसु यावी पण्णिवुव्जीवी
 न वीससे पण्णिए आसपन्ने ।

तत्थिऽम पढमं थाणंमहावीरेण देसिय ।
 कामगिणे जहा वाळेभिसं कूराइ कुवई ४.
 जे गिणे कामजोगेसु। एगे कूमाय गहइ । थ
 न मे दिट्टे परे छाए चक्खुदिट्टा इमारई ५
 हत्थागया इमे कामा काविया जे अणागया ।
 को जाणइ परे छोए अत्थि वा नत्थि वा पुणोइ
 जणेण सद्धि होक्खामि। इइ वाळे पगव्जई ।
 कामजोगाणुराएण केसं संपन्निवज्जई ७
 तत्र से दण्णं समारभई। तसेसु थावरेसु य ।
 अट्टाए य अणट्टाए। नूयगामं विहिंसई ८
 हिंसे वाळे सुसावाइ। माइल्ले पिसुणे सढे ।
 जुञ्जमाणे सुरं मसं। सेयमेयं ति मन्नई ९
 कायसा वयसा मत्तो। वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।।
 छहउ मत्तं संचिणइ। सिसुणागो ध मट्ठियं १०
 तत्र पुट्टो आयङ्केणं। गिलाणो परितप्पई ।
 पत्तीत्र परलोगस्स। कम्माणुप्पेहि अप्पणो ११
 सुया मे नरेण ठाणा। असीलाणं च जा गई ।
 वाखाणं कूरकम्माणं। पगाढा जत्थ वेयणा १२
 नत्थोऽववाइय ठाणं। जहा मे ऽतमणुस्सुयं ।

अणो गरुवाः समणं चरन्त ।

फासा फुसन्तीः असमञ्जस च
न तेसि त्रिखू मणसाः पउस्से ११.

मन्दा य फासाः बहुलोहणिजा
तहप्पगारेसु मण न कुजा ।

रक्खिज्जा मोहं विणएज्जा माणं
मायं न सेवेज्जः पहेज्ज लोह १२

जे ऽसंखयाः तुच्चाः परप्पवार्ह
ते पिज्जदोसणुगयाः परब्जाः ।

एते अहम्मे तिः इगुज्जमाणो
कञ्जे गुणे जावः सरीरजेउ १३॥ ति

॥॥ असंखयाः ॥॥

अकाममरणिज्जं पञ्चमं अण्ययनम्
अण्णावंसि महोर्हसि एगे तिण्णे दुरुत्तर ।
तत्थ एगे महापणे इमं पण्हमुदाहरे १
सन्तिऽमे य दुवे ठाणाः अक्खाया मारणान्ति य २
अकाममरणं चैव सकाममरणं तदा ३
वाखाणं तु अकाम तु मरण असई जवे । ४
पण्फियाणं सकामं तु उक्कोसेण सइ जवे ५

प्रगारिसामाश्रयङ्गाणि।सही काएण फासए ।
 १३. तेसहं डुहओ पक्खं।एगरायं न हावए १३.
 वं सिक्खासमावन्ने।गिह्दिवासे वि सुवए ।
 १४. त्रेपधाओ मुच्चैई।गत्ते जक्खसलोगयं १४.
 १५. जे संबुमे त्तिक्खू।दोण्हं अन्नयरे सिया ।
 १५. त्तिक्खपहीणे वा।देवे वावि महिक्खिए १५.
 १६. तराइ विमोहाइं।जुइमन्ता।एणुपुवसो ।
 १६. माइण्णाइं जक्खेहिं।आवासाइं जसंसिणो १६.
 १७. हात्तया इक्खिमन्ता।समिहा कामरुविणो ।
 १७. हुणोववन्नसंकासा।भुज्जो अच्चिमत्तिप्पजा १७.
 १८. णि ठाणाणि गच्छन्ति।सिक्खित्ता सजमं तवं ।
 १८. प्रक्खाए वा गिहित्थे वा।जे सन्ति पक्खिनिवुडा १८.
 १९. तेसिं सोच्चा सपुज्जाए।संजयाए वुसीमओ ।
 १९. सतसन्ति मरणन्ते।भीखवन्तो बहुस्सुया १९.
 २०. लिया विसेसमादाय।दयाधम्मस्स खन्तिए ।
 २०. प्पसीएज्ज मेहावी।तहाचूएण अप्पणा २०.
 २१. त्ति काळे अत्तिप्पेए।सकू तात्तिसमन्तिए ।
 २१. त्ति एणएज्ज लोमहरिसं।जेय देहस्स कंखए २१.
 २२. अह कात्तम्मि संपत्ते।आघायाय समुस्सयं ।

आहाकम्मेहिं गवन्तो।सो पञ्चा परितप्पई १
 जहा सागन्धि जाण।सम हिच्चा महापह ।
 विसम मग्गमोइण्णो।अक्खे जग्गि ।
 एव धम्म विजक्कम्म।अहम्म पन्निवज्जिया ।
 बाधे मच्चुमुह पत्ते।अक्खे जग्गे व सोयइ १।
 तउ से मरणन्तमिधाधे सन्तसई जया ।
 अकाममरण मरई।धुत्ते व कविणा जिए १।
 एय अकाममरणं।वालाण तु पवेइय ।
 एत्तो सकाममरणं।पन्नियाणं सुणेह मे १।
 मरण पि सपुण्णाण।जहा मेऽयमणुस्सुयं ।
 विप्पसन्नमणाघाय।सजयाण वुसीमउ १।
 न इम सधेसु जिक्खूसु।न इमं सधेसऽगारिसु
 नाणासीला अगारत्था।विसमसीलाय ।
 सन्ति एगेहिं जिक्खूहिं।गारत्था संजमुत्तरा ।
 गारत्थेहि य सधेहिं।साहवो संजमुत्तरा १०।
 चीराजिणं नगिणिण।जमीसघाम्मिसुण्णिणं ।
 एयाणि वि न तायन्ति।उस्सीलं पन्नियागयइ
 पिण्णे ल एव उस्सीखे।नरगाओ न मुच्चई ।
 जिक्खाए वा गिहत्थे वा।सुवए कम्मई ५ ।

- गुञ्जी अप्पणो पाए'दिन्नं जुञ्जेज्ज नोयणं' ७
हमेगे उ मन्नन्ति'अप्पच्चक्खाय पावगं ।
प्रायरियं विदित्ताणं'सव्वडुक्खाण मुच्चई ८.
एणन्ता अकरेन्ता य'धन्धमोक्खपइंण्णिण्णो ।
याविरियमेत्तेण'समासासेन्ति अप्पयं ९
चित्ता'तायए'जासा'कुञ्ज'विज्जाणुंसासणं ।
वेसन्नां पावकम्मोहिं'धात्ता'पण्णियमाण्णिणो १०.
केइ'सरीरे'सत्ता'धम्मो'रूवे य'सव्वसो ।
एणासा'कार्यवक्केणं'सव्वे ते डुक्खसज्जवा ११.
आवन्ना दीहम'धाण'ससारम्मि'अणन्तए ।
म्हा'सव्वदिसं'परसं'अप्पमत्तो'परिधए १२
हिया'उमृमादाय'नाऽवकखे कयाइ वि ।
अक्खम्मखयट्ठाए'इम'देइ'समुद्धरे १३.
वेविच्च'कम्मणो'हेउ'काळकखी'परिधए ।
पायं'पिण्णस्स'पाणस्स'कम्मं'खे'धूण'ज्जक्खए १४.
अन्निहिं'च नं कुञ्चिज्जा'खेवमायाए'सजए ।
अक्खीपत्त'समादाय'निरवेक्खो'परिधए १५.
एराणासिमिउ'लज्जू'गामे'अणियंउ'चरे ।
अप्पमत्तो'पमत्तेहिं'पिण्णवायं'गवेसए १६.

सकाममरण मरइ तिण्हमन्नयर मुणि
ति बेमि

॥ अकाममरणिज्ज ॥

खुद्दागनियण्ठिज्ज पष्ठ अध्ययनम्

जावन्ति ऽविज्जापुरिसासधे ते डुक्खसज्जवा
दुप्पन्ति बहुसो मूढाससारमि अणत्तए
समिक्ख पण्णिए तम्हापासजाईपहे वहू ।
अप्पणा सच्चमेसेज्जाभेत्ति नूएसु कप्पए
माया पिया न्हुसा जायाज्जजा पुत्ता य
नाल ते मम ताणायलुप्पन्तस्स सकम्मुणा
एयमट्ठं सपेहाएपासे समियदंसणे ।
विन्द गेहि सिणेदं च न कहे पुषसंथवं
गवासं मणिक्कुण्णलंपसवो दासपोरुसं ।
सधमेय चइत्ताणकामरूवी नविस्ससि
[थावर जंगम चेवधणं धन्नं उवक्खर ।
पच्चमाणस्स कम्मेहिंनाल दुक्खाओ मोयणे
अज्झत्थ सधओ सधंदिस्स पाणे
न दणे पाणिणो पाणेअयवेराओ उवरए
आदाणं नरय दिस्सनायएअ तणामवि

आसणं सयणं जाणं वित्तं कामाणि जुजिया ।
 दुस्साहं धणं हिच्चा । बहुं संचिणिया रयं ॥ ५ ॥
 तज्जं कम्मगुरू जन्तू । पच्चुं पन्नपरायणे ।
 अए व्वं आगयाएसे । मरणन्तम्मि सोयइ ए ।
 तज्जं आउपरिक्खीणे । चुर्या देहविहिंसगा ।
 आसुरीयं दिसं वाढागच्छन्ति अवसां तमं १० ॥
 जहा । कागिणिए हेउं । सहस्स हारइ । नरो ।
 अपच्छं । अम्बगं । जोच्चा । राया । रज्जं । तु हारए ११ ॥
 एवं । माणुस्सगा । कामा । देवं कामाण । अन्तिए ।
 सहस्सगुणिया जुज्जो आउ कामा यं दिव्विया १२ ॥
 अणेगं वासां नजयां । जां सां पन्नवज्जं । ठिइ ।
 जाणि । जीयन्ति । दुम्मेहा । ऊणं वासं सयां उए १३ ॥
 जहा । य तिन्नि । वाणिया । मूळ । घेत्तूण । निग्गया ।
 एगोऽत्थ । छहए । छाज्ज । एगो मूळेण आगउं १४ ॥
 एगो मूळं पि । हारित्ता । आगउं । तत्थ । वाणिओ ।
 ववहारे । उवमा । एसा । एव । धम्मे । विआणह । १५ ॥
 माणुसत्तं । ज्वे । मूळ । छाज्जो । देवगई । ज्वे ।
 मूळच्छेएण जीवाणं नरगंतिरिक्खंत्तणं । धुवं १६ ॥
 गई । वात्तस्स । आवइ । वई मूलिया ।

एव से उदाहु। अणुत्तरनाणी। अणुत्तरदंसी
 णुत्तरनाणदंसणधरे। अरहा नायपुत्ते। जमवं वे
 साविए। वियाहिए। ति वेमि ॥

॥ खुद्दागनियण्ठिऊ ॥

एखय सप्तम अध्ययनम्

जहा एस समुद्विस्स। कोइ पोसेऊ एखय ।
 उदण जवस देजा। पोसेजा वि सयङ्गणे
 तउ से। पुट्टे। परिवूढे। जायमेदे महोदरे ।
 पीणिए। विजवे। देहे। आएस परिकङ्कए
 जाव न एइ। आएसेप्ताव जीवइ सो, दुही
 अइ पचमिं आएसे। सीस ठेचूण जुज्जइ
 जहा से खलुं उरब्जे। आएसाए समीहिए
 एव वाखे अहम्मिट्टे। ईहई नरयाउयं
 हिंसे वाखे मुसावाइ। अद्दाणम्मिं विखोवए
 अन्नदत्तदरे तेणो। माई कं नु दरे सढे
 इत्थी। विसंयगिद्धे। य। मंहीरम्मजपरिग्गहे ।
 जुज्जमाणे सुरं मंस। परिवूढे परंदमे
 अयंककरं जोई य। तुन्दिद्धे चियखोहिए ।
 आजय नरए कङ्के। जदीएस व एखए

आसणं सयणं जाणं वित्तं कामाणि जुजिया ।
 दुस्साहं धणं हिच्चा । बहुं संचिणिया रयं ॥ ७ ॥
 तज्जं । कम्मगुरुं जन्तू । पच्चुं पन्नपरायणे ।
 अए व्वं आगयाएसे । मरणन्तम्मिं सोयइ ए ॥
 तज्जं । आणपरिक्खीणे । चुयां देहविहिंसगां ।
 आसुरीयं दिसं वात्तागच्छन्तिं अवसां तमं ॥ ८ ॥
 जहा । कागिणिए हेजं । सहस्सं हारइ । नरो ।
 अपच्छं । अम्बगं जोच्चा । राया । रज्जं तु हारए ॥ ९ ॥
 एवं । माणुस्सगा । कामा । देवं कामाण । अन्तिए ।
 सहस्संगुणियां जुज्जो । आणं कामां यं दिव्विया ॥ १० ॥
 अणेगं वासां नजयां । जां सां पन्नवंतं ठिइ ।
 जाणिए । जीयन्ति । दुम्मेहा । ऊणं वासं सयां नए ॥ ११ ॥
 जहा । यं तिन्नि । वाणियां मूखं । घेत्तूणं निग्गया ।
 एगोऽत्थं । लहए । वाजं ॥ एगो मूखेणं आगठं ॥ १२ ॥
 एगो मूखं पि । हारित्ता । आगठं । तत्थं वाणियो ।
 ववहारे । उवमा । एसा । एवं । धम्मे । वियाणहं ॥ १३ ॥
 माणुसत्तं । जवे । मूखं । वाजो । देवगई । जवे ।
 मूखच्छेणं जीवाणं नरगंतिरिक्खंत्तणं । धुवं ॥ १४ ॥
 उहओ । गई । वात्तस्सं । आवइ । वइ मूलिया ।

देवत्तं माणुसत्तं च जं जिए लोखयासठे १७.
 तथो जिए सइ होई। इविहं दोग्गइं गए ।
 इल्लहा तस्स उम्मग्गा। अद्दाए सुइरादवि १८.
 एव जिय सपेहाए तुळिया वाळ च पण्णियं।
 मूळिय ते पवेसन्ति। माणुसिं जोणिमन्ति जे १९।
 वेमायाहिं सिक्खाहिं। जे नरा गिहिसुवया ।
 उवेन्ति माणुस जोणिं कम्मसच्चा दु पाणिणो २०।
 जेसिं तु विज्जा सिक्खा मूळिय ते अइच्छियां।
 सीखवन्ता सवीसेसा अदीणा जन्ति देवयं २१।
 एवमदीणवं जिक्खुं। आगारिं च वियाणिया ।
 कदण्णे जिच्चमेळिक्खं। जिच्चमाणो न सविदे २२।
 जहा कुसग्गे उदग। समुषेण सम मिणे ।
 एव माणुस्सगा कामा। देवकामाण अन्तिए २३।
 कुसग्गमेत्ता इमे कामा। सन्निरुद्धमि आउए ।
 कस्स हेउ पुराकाउ। जोगक्खेम न सविदे २४।
 इह कामाणियट्टस्स। अत्तट्टे अवरज्जइं।
 सुच्चा नेयाउयं मग्गं। ज भुज्जो परिचस्सइं २५।
 इह कामनियट्टस्स। अत्तट्टे नावरज्जइं।
 पूइदेहनिरोहेण जवे। देवे ति मे सुयं २६।

इही जुई जसो वण्णो अणं सुहमणुत्तर ।
 जुज्जो जत्थ मणुस्सेसुत्तत्थ से उववज्जई २५.
 बाहस्स पस्स बाहत्त अहम्मं पन्निवज्जिणो ।
 चिच्चा धम्मं अहम्मिट्ठे नरे उववज्जई २६.
 धीरस्स पस्स धीरत्त सच्चधम्माणुवत्तिणो ।
 चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ठे देवेसु उववज्जई २७.
 तुलियाण बाहजावं अवाल चेव पण्डिण ।
 अह्कण बाहजावं अवालं सेवए सुणि ३० तिवेमि

॥ एत्थयज्झयणं ॥

काविलीय अष्टम अच्ययनम्

अधुवे असासयम्मी संसारम्मि । डक्खपजराए,
 किं नाम होज्जा तं किम्मयं । जेणाहं दोग्गइं न
 गच्छेज्जा १।
 विजहित्तु पुषसंजोगं न सिणेहं कदिं चि कुषेज्जा ।
 असिणेहं सिणेहं करेदिं । दोसपउं सेहि सुच्चं ए
 जिक्खू २
 तो नाणैदसणं समग्गो । हियनिस्सेसाए सव्वं जीवाण ।
 तेसिं विमोक्खणं ट्ठाए जासई सुणिवरो विगयमीहो ३।

सधं गन्धं कखहं चविप्पजहे तदाविहं त्रिक्खू ।
 सधेसु कामजाएसु । पासमाणो न विप्पई ताई ।
 जोगामिसदोसविस्से हि यनिस्सेयंसवुद्धिवोच्चत्वे
 वाले यं मन्दिणं मूढं वज्झई मच्छिया वं खेत्तम्मि ।
 दुपरिच्चया इमे कामा नो सुजहा अधीरं पुरिसेहि ।
 अहं सन्ति सुधया । साद्ध जे तरन्ति अतर

वणिया वा ६.

समणानुएगे वदमाणा पाणवहं मिया अयाणन्त
 मन्दा निरय गच्छन्ति बाखा पावियाहिं दिट्ठीहिं ९.
 न ॥ दु ॥ पाणवहं ॥ अणुजाणे । सु च्छेत्ता कयास
 संघदुक्खाणं ।

एवायरिण्हिं ॥ अक्खार्यं जेहिं इमो ॥ साद्धधम्मो
 पन्नतो ८

पाणे य नाइवाएज्जास्ये समीए ति बुच्चई ताई ।
 तज्जे से पावयं कम्मं निज्जाई उदग व थालीज्जे ९.
 जगनिस्सिएहिं भूएहिं तसनामेहिं आवरेहिं च ।
 नोतेसिमारजे दण्णं मणसा वयसा कायसा चैव १०.
 सुद्धेसणाउत्तमाणा तत्थ उवेत्ता त्रिक्खू अप्पायां
 जायाएघासमेसेज्जारसगिद्धेन सिया त्रिक्खाए ११.

पन्ताणि चैव सेवेज्जा।सीयपिण्णं पुराणकुम्मासं
अद्दु वक्कसं पुत्तागं वाजवणट्टाए निसेवए मंघु १३।
जे लक्खणं च सुमिणं अद्दुविज्जं च जे पणञ्चन्ति।
न हु ते समणा बुच्चन्ति।एवं आयरिण्हि

अक्खायं १३

इह जीविय अणियमेत्ता।पञ्चट्टा समाहिजोएहिं।
ते कामजोगरसगि-क्षसववज्जन्ति आसुरे काए १४।
ततो विय उव्वट्ठित्ताससार वहुं अणुपरियडन्ति।
बहुकम्मद्वेववित्ताणं धोही होइ सुडद्धहा तेसिं १५।
कसिण पि जे। इमं लोयं।परिपुण्णं दवेज्जा इक्कस्स।
तेणावि से न संतूसेइइ डप्पूरए इमे आया १६।
जहा छाहो तहा लोहो।छाहा लोहो पवट्ठई।
दोमासकयं कज्जा।कोमीए वि न निट्ठियं १७।
नो रक्खसीसु गिज्जेज्जा।गप्फवत्तासु णेगचित्तासु।
जाओ पुरिस पलोभित्ताखेवन्ति जहा व दासेहिं।
नारीसु नोवगिज्जेज्जा इत्थी विप्पजहे अणगारे।
धम्म च पेसलं नच्चात्तित्थमविज्जा जिक्खु अप्पाणां।
इइ एस धम्मे अक्खाए।कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं।

प्रदिन्ति जे उ काहिन्ति तेहिं आराहिया जे
 दोगु १०/ ति बेमि
 ॥ काविदीयं ॥

नमिपवजा नवम अध्ययनम्

चइऊण देवदोगाओ उववन्नो भाणुसम्मि ।
 उवसन्तमोहणिऊो।सरई पोराणय जायं । १
 जाइं सरित्तु जयवं।सहसबुद्धो।अणुत्तरे धम्मे ।
 पुत्तं उवेत्तु रङ्गे।अजिणिक्खमईं नमी राया २।
 सो देवदोगसरिसे।अन्तेउरवरगणं वरे'जोए ।
 जुञ्जित्तु नमी राया बुद्धो जोगे परिच्चयइ । ३
 महिख सपुरजणवय।बद्धमोरोहं च'परियेणं सव्वं।
 चिच्चा अजिनिक्खन्तो।एगन्तमहिच्चिउ जयवं ४।
 कोलाहलसंजूय।आसी महिलाए पवयन्तम्मि ।
 तइया रायरिसिम्मि।नमिम्मि अजिणिक्खम
 न्तम्मि ७

अव्वुट्टिय रायरिसिं।पवजाठाणमुत्तम ।
 सक्को माहणवेसेण।इमं वयणमव्ववी ६
 किण्णु जो अऊं महिलाए।कोलाहलसंकुखा ।

सुवन्तिं दारुणा सदाप्पासाएसुं गिहेसु य १०.
एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइत्तं ।
तत्तं नमी रायरिसी देवेन्दं इणमव्ववी ८
महिळाए चेशए वच्चे सीयच्चाए मणोरमे ।
पत्तपुप्फफलोवेए वट्टुणं बहुगुणे सया ए
वाएणं हीरंमाणमि चेश्यमि मणोरमे ।
इहियां असरणा अत्ताएए कन्दन्तिं जो खगा १०.
एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइत्तं ।
तत्तं नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ११.
एसं अग्गी य वाऊय एयं रुज्झइ मन्दिर ।
जयवं अन्तेउरतेण कीस ए भावपिक्खह ११.
एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइत्तं ।
तत्तं नमी रायरिसी देवेन्द इणमव्ववी १३
सुहं वसामो जीवामो जेसि मो नत्थि किंचण ।
महिळाए रुज्झमाणीए न मे रुज्झइ किंचण १४.
चत्तपुत्तकेवत्तस्स निष्ठावारस्स भिक्खुणो ।
पिय न विज्झइ किंचि अप्पियं पि न विज्झइ १५.
बहु खु मुणिणो जइ अणगारस्स जिक्खुणो ।
सव्वत्तं विप्पमुक्कस्स एगन्तं मणुपस्सत्तं १६.

एयमट्टं निसामित्ता' हेऊकारण चोइच्छो ।
 तउ नमिं रायरिसिं' देविन्दो इणमब्बवी १७.
 पागारं' कारइत्ताण' गोपुरइं' वगां' णि य ।
 उस्सूखंगसयंग्घीउ' तउ' गह्वसि खत्तिया १८.
 एयमट्टं' निसामित्ता' हेऊकारण चोइच्छो ।
 तउ नमी रायरिसी' देवेन्द इणमब्बवी १९
 सद्धं' नगरं किच्चा' तवसवरं मग्गइं ।
 खन्ती' निजणा' पागारं' तिगुत्तं' दुप्पधंसस २०
 घणुं' परंक्कम किच्चा' जीवं च हरियं सया ॥
 धिइ चं केयण' किच्चा' सच्चेण' पखिमन्थए २१
 तव' नारायं जुत्तेण' जित्तूणां' कम्मकञ्चुयं ।
 सुणी' विगोयं सगामो' नवाउ' परिमुच्चए २२
 एयमट्टं निसामित्ता' हेऊकारण चोइच्छो ।
 तच्छो नमिं रायरिसिं' देविन्दो इणमब्बवी २३
 पासाए' कारइत्ताण' वध्दमाणां गिहाणि य ॥
 वाखग्गपोइयाउ य' तउ गह्वसि खत्तिया २४
 एयमट्टं निसामित्ता' हेऊकारण चोइच्छो ।
 तच्छो नमी रायरिसी' देवेन्दं इणमब्बवी २५.
 ससय खल्लु सो कुणइं जो मग्गे कुणइं धर

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जाप्तत्थ कुध्वेज्जा सासयं २६.

एयमट्टं निसामित्ता।देज्जकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं।देविन्दो इणमव्ववी २७.

आमोसे 'लोम'हारे य।गण्ठिंनेए य तक्करे ।"

नगरस्सं खेमं काऊणं।तत्र गच्छसि खत्तिया २८.

एयमट्टं निसामित्ता।देज्जकारणचोइओ ।नमिं

तओ नमी रायरिसी।देवेन्द इणमव्ववी २९

असइं तुं मणुंस्सेहिं।मिच्छा दण्णे 'पजुज्जाई ।

अकारिणोऽत्थ वज्झन्ति सुच्चई कारुं जणो ३०.

एयमट्टं निसामित्ता।देज्जकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं।देविन्दो इणमव्ववी ३१

जे केइ पत्थिवा' तुज्झं।नानमन्ति नराहिवा ।

वसे ते' ठावइत्ताणं।तत्र गच्छसि खत्तिया ३२

एयमट्टं निसामित्ता।देज्जकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी।देवेन्द इणमव्ववी ३३.

जो सहस्सं सहस्साणं।सगामे 'डुज्जाए' जिणे ।

एगं जिणेज्जा अप्पाणा।एस से परमो जत्र ३४

अप्पाणमेव जुज्जाहिं किं ते' जुज्जेण वज्झन ।

अप्पाणमेवमप्पाण जइत्ता सुहमेहए ३५

पञ्चिन्दियाणि कोहमाण मायं तहेव छोहं च ।
 डुज्जय चव अप्पाणासव्व अप्पे जिए जिय ३६
 एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ३७
 जइत्ता विउखे जन्ने ज्जोइत्ता समणमाइणे ।
 दच्चा ज्जोच्चा य जिट्ठा य तत्त गच्छसि खत्तिया ३८
 एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी देवेन्दं इणमव्ववी ३९
 जो सहस्स सहस्साणमासे मासे गवं दए ।
 तस्सावि संजमो सेत्त अदिन्तस्स वि किञ्चण ४०
 एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइओ ।
 तेओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ४१
 घोरासमं चइत्ताण अन्न पत्थेसि घ्रासम ।
 इहेव पोसहरत्त नवाहि मणुयाद्विवा ४२
 एयमट्टं निसामित्ता हेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी देवेन्द इणमव्ववी ४३
 मासे मासे तु जो वाखो कुसग्गेणं तु जुअए ।
 न सो सुयक्खायस्स धम्मस्स कव अग्घइ
 सोवसिं ४४

एयमट्टं निसामित्ता हेळकारणचोइओ ।
 तेओ नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ४५ ।
 हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं कंसं दूसं च वाहणां
 कोसं वक्षवइत्ताणं । तत्र गच्छसि खत्तिया ४६ ।
 एयमट्टं निसामित्ता हेळकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी । देवेन्दं इणमव्ववी ४७ ।
 सुवण्णारुप्पस्स उ । पव्वया । जवे ।
 सिया । हु । केव्वाससमा । असखया ॥ ।
 नरस्स । खुइस्स न तेहिं किंचि ।
 इच्छा उ आगाससमा । अणन्तिया । ४८ ।
 पुढवी साली जवा चेव । हिरण्णं पसुजिस्सइ ॥
 पणिपुण्ण नात्तमेगस्स । इइ विज्जा तवं चरेअए
 एवमट्टं निसामित्ता हेळकारणचोइओ ।
 तओ नमि रायरिसिं । देविन्दो इणमव्ववी ५० ।
 अच्चेरयमव्वुदए जोए । चयसि पत्थिवा ।
 असन्ते कामे पत्थेसि । संकप्पेण विहन्नेसि ५१ ।
 एयमट्टं निसामित्ता हेळकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी । देवेन्दं इणमव्ववी ५२ ।
 सल्ल कामा विसं कामा । कामा आसी विसोवम

पञ्चिन्द्रियाणि कोहमाणं मांय तहेव लोहं च ।
 दुज्जय चव अप्पाणासव अप्पे जिए जिय ३६
 एयमट्टं निसामित्ताहेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ३७
 जइत्ता विउळे जन्नेओइत्ता समणमाइणे ।
 दच्चाओच्चाय जिट्टा'य'तउ गच्छसि खत्तिया ३८
 एयमट्टं निसामित्ताहेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी देवेन्द इणमव्ववी ३९
 जो सहस्स सहस्साणंमासे मासे गवं दए ।
 तस्सावि सजमो सेउअदिन्तस्स वि किंचण ४०
 एयमट्टं निसामित्ताहेऊकारणचोइओ ।
 तेओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ४१
 घोरासमं चइत्ताणअन्न पत्थेसि आसम ।
 इहेव पोसहरउअवाहि माणुयाहिवा ४२
 एयमट्टं निसामित्ताहेऊकारणचोइओ ।
 तओ नमी रायरिसी देवेन्द इणमव्ववी ४३
 मासे मासे तु जो वाखो कुसग्गेण तु चुअए ।
 न सो सुयक्खायस्स धम्मस्स कख अग्घइ
 सोवसिं ४४

एयमट्टं निसामित्ता हेज्जकारणचोइत्थो ।

तत्थो नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ४५.

हिरण्णं सुवण्णं मणिसुत्तं कंसं दूसं च वाहणं

कोसं वड्ढवइत्ताणं तन्न गच्छसि खत्तिया ४६.

एयमट्टं निसामित्ता हेज्जकारणचोइत्थो ।

तत्थो नमी रायरिसीं देवेन्दं इणमव्ववी ४७.

सुवण्णरुप्पस्स उप्पवया ज्ञेव

सिया हुं केव्वाससमा अस्सखया ।।

नरस्स खुइस्स न तेहिं किञ्चि

इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ४८.

पुढवी साखी जवा चेव हिरण्णं पसुजिस्सह ।।

पणिपुण्ण नाखमेगस्स इइ विज्जा तवं चरेअए

एवमट्टं निसामित्ता हेज्जकारणचोइत्थो ।

तत्थो नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ५०.

अच्छेरयमव्वुदए ज्ञेव चयसि पत्थिवा

असन्ते कामे पत्थेसि संकप्पेण विह्वसि ५१.

एयमट्टं निसामित्ता हेज्जकारणचोइत्थो ।

तत्थो नमी रायरिसीं देवेन्दं इणमव्ववी ५२.

सुखं कामा विसं कामा कामा आसीविसोव

कामे य पत्येमाणा अकामा जन्ति दोषगर्ह ५३।
 अहे वयश् कोहेण भाषेण अहमा गर्ह ।
 माया गहपनिग्धाओखोनाओ दुहओ जयं ५४.
 अवज्जिऊण माहणरूवंविउरूविऊण इन्दत्ता
 वन्दइ अजित्थुणन्तो इमाहि महुराहि वग्गूहि ५५.
 अहो ते निज्जिओ कोहो अहो माणो पराजिओ ।
 अहो ते निरकिया माया अहो लोओ वसीकओ ५६.
 अहो ते अज्जवं साहु अहो ते साहु मइव ।
 अहो ते उत्तमा खन्ती अहो ते मुत्ति उत्तमा ५७.
 इहं सि उत्तमो जन्ते पच्छा होदिसि उत्तमो ।
 ओगुत्तमुत्तमं ठाणं सिहिं गच्छसि नीरओ ५८.
 एवं अजित्थुणन्तो रायरिसि उत्तमाए सहाए ।
 आयाहिणं करेन्तो पुणो पुणो वन्दई सल्लो ५९.
 ओ वन्दिऊण पाए चकइ सल्लक्खणे भुणिवरस्स ।
 आगासे ऽणुप्पइओ खलियचलकुण्णलतिरीने ६०.
 ओ नमेइ अप्पाणं सक्खं सकेण चोइओ ।
 तइऊण गेह च विदेही सामणो पज्जुवदिओ ६१.
 रं करन्ति संबुधा पण्डिया पबियक्खणा ।

विणियदृन्ति भोगेषु जहा से नमी रायरिसि ॥६२॥
ति वेमि,

नमिपव्वज्जा

दुमपत्तय दशम अध्ययनम्

दुमपत्तए पण्डुयए जहा निवडइ रायगणार्ण अच्चए ।
एव मणुयाण जीविय भसमय गोयम मा पमायए ॥१॥
कुसग्गे जह ओसविन्दुए थोवं चिड्डइ लम्बमाणए ।
एवं मणुयाण जीविय भसमय गोयम मा पमायए ॥२॥
इइ इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहुपच्चवायए ।
विट्ठणाहि रय पुरे कडं समय गोयम मा पमायए ॥३॥
दुल्लहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण वि सघपाणिण
गाढा य विवाग कम्मणो भसमय गोयम मा पमायए ॥
पुढविकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
कालं संखाइयं समयं गोयम मा पमायए ॥ ५ ॥
आउकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
कालं सखाइयं समयं गोयम मा पमायए ॥ ६ ॥
तेओकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
कालं सखाइयं समयं गोयम मा पमायए ॥ ७ ॥
वाउकायमइगओ उक्कोस जीवो उ सवमे ।
कालं संखाइयं समयं गोयम मा पमायए ॥ ८ ॥

वणस्सइकार्यमइगओ उक्कोसं जीवो उ सवसे ।
 कालमणन्तदुरन्तय समयं गोयम मा पमायए ॥ ९ ॥
 वेन्दियकायमइगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 काल संखिज्जसन्नियं समयं गोयम मा पमायए ॥ १० ॥
 तेन्दिकार्यमइगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 काल संखिज्जसन्नियं समयं गोयम मा पमायए ॥ ११ ॥
 चउरिन्दियकार्यमइगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 काल सखिज्जसन्नियं समयं गोयम मा पमायए ॥ १२ ॥
 यच्चिन्दियकार्यमइगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 सत्तट्टमवगहणे समयं गोयम मा पमायए ॥ १३ ॥
 देवे नेरुए यमइगओ उक्कोसं जीवो उ सवसे ।
 इक्केक्कभवगहणे समयं गोयम मा पमायए ॥ १४ ॥
 एवं भवसंसारे समखं सुहासुहेहि कम्पेहिं ।
 जीवो पमार्यवहुलो समयं गोयम मा पमायए ॥ १५ ॥
 लद्धण वि माणुमत्तणं आयरिअत्त पुणरावि दुल्लहं ।
 भवे दसुया मिलक्खुया समयं गोयम मा पमायए ॥ १६ ॥
 लद्धण वि आयरियत्तणं अहीणपञ्चेन्दियया इ दुल्लहा
 विगलिन्दियया इ दीमई समयं गोयम मा पमायए ॥ १७ ॥
 अहीणपञ्चेन्दियत्त पि से लहे उत्तमघम्मसुई इ दुल्लहा
 तित्थिनिमेवए जणे समयं गोयम मा पमायए ॥ १८ ॥
 लद्धण वि उत्तम सुइ सवहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत निसेवए जणे'समयं गोयम मा पमायए ॥१९॥

धम्मं पि हु सदहन्तया'दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिया'समयं गोयम मा पमायए ॥२०॥

परिजूरइ ते सरीरयं'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से सोयवले य हायई'समयं गोयम मा पमायए ॥२१॥

परिजूरइ ते सरीरय'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से चक्खुवले य हायई'समयं गोयम मा पमायए ॥२२॥

परिजूरइ ते सरीरयं'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से घाणवले य हायई'समय गोयम मा पमायए ॥२३॥

परिजूरइ ते सरीरयं'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से जिब्भवले य हायई'समय गोयम मा पमायए ॥

परिजूरइ ते सरीरय'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से फासवले य हायई'समयं गोयम मा पमायए ॥

परिजूरइ ते सरीरय'केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से सव्ववले य हायई'समयं गोयम मा पमायए ॥

अरुइ गणह'विसूइया'आयङ्का विविहा'फुसन्ति ते ।

विहडइ विद्धसइ ते'सरीरयं'समय गोयम मा पमायए ॥

वोच्छिन्दे सिणेहमप्पणो'कुमुय सारइय व पाणियं ।

से सव्वसिणेहवज्जिए समय गोयम मा पमायए ॥

चिच्चाण घण च भारिया'पवईओ'हि सि'अणगारि

मा वन्त पुणो'वि आविए'समयं गोयम मा पमायए ।

वणस्सइऋयंमइगओ उक्कोस जीवो उ सवसे ।
 कालमणन्तदुरन्तय । समयं गोयम मा पमायए ॥ ९ ॥
 वेन्दियकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
 काल सखिज्जसन्नियं । समयं गोयम मा पमायए ॥ १० ॥
 तेन्दिकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
 कालं सखिज्जसन्नियं । समय गोयम मा पमायए ॥ ११ ॥
 चउरिन्दियकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
 कालं सखिज्जसन्नियं । समय गोयम मा पमायए ॥ १२ ॥
 पश्चिन्दियकायमइगओ उक्कोस जीवो उ संवसे ।
 सत्तड्ढमवगहणे । समय गोयम मा पमायए ॥ १३ ॥
 देवे नेरइए यमइगओ उक्कोस जीवो उ सवसे ।
 इक्केकमवगहणे । समयं गोयम मा पमायए ॥ १४ ॥
 एवं भवससारे संसरइ सुहासुहेहि कम्महिं ।
 जीवो पमार्यबहुलो । समयं गोयम मा पमायए ॥ १५ ॥
 लद्धण वि मागुसत्तणं । आयरिअत्त पुणरावि दुल्लहं ।
 उइवे दसुया मिल्लखुया । समय गोयम मा पमायए ॥ १६ ॥
 उद्धण वि आयरियत्तणं । अहीणपश्चेन्दियया इ दुल्लहा ।
 विगलिन्दियया इ दीसई । समय गोयम मा पमायए ॥ १७ ॥
 अहीणपश्चेन्दियत्तं पि से लहे उत्तमवम्मसुई इ दुल्लहा ।
 अतित्थिनिसेवए जणे । समयं गोयम मा पमायए ॥ १८ ॥
 उद्धण वि उत्तमं सुइ । अइहणा पुणरावि दुल्लहा ।

जे यावि होइ निव्विज्जे प्यद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
 अभिक्खण उल्लवई अविणीए अवहुंस्सुए ॥ २ ॥
 अह पच्चहिं ठाणेहिं जेहिं सिक्खा न लब्भई ।
 यम्मा मोहा पमाएण रोगेण आलसेण य ॥ ३ ॥
 अह अट्ठहिं ठाणेहिं सिक्खासीले ति बुच्चई ।
 अहस्सिरे सया दन्ते न य मम्ममुदाहरे ॥ ४ ॥
 रासीले न विसीले न सिया अइलोलुए ।
 अकोट्टणे मच्चरणे सिक्खामीले ति बुच्चई ॥ ५ ॥
 अह चउहसहिं ठाणेहिं वट्टमाणे उ संजए ।
 अविणीए बुच्चई सो उ निघाण च न गच्छइ ॥ ६ ॥
 अभिक्खण कोटी भवइ पवन्धं च पकुवइ ।
 मेत्तिज्जमाणो वमई सुय लद्धं मज्जई ॥ ७ ॥
 अवि पावपरिक्खेवी अवि मित्तेसु कुप्पई ।
 सुप्पियस्सावि मित्तस्स रहे भासइ पावयं ॥ ८ ॥
 पइन्नवाई दुहिले यद्धे लुद्धे अनिग्गहे ।
 असविभागी अवियत्ते अविणीए ति बुच्चई ॥ ९ ॥
 अह पन्नरसहिं ठाणेहिं सुविणीए ति बुच्चई ।
 नीयावती अचवले अमाई अकुज्जहले ॥ १० ॥
 अपेचाहिकिक्खवइ पवन्धं च न कुवई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयई सुय लद्धं न मज्जई ॥ ११ ॥
 अपिय पावपरिक्खेवी न य मित्तेसु कुप्पई ।

अत्र उज्झिय मित्तमन्त्रय प्रिउल चैत्र घणोहमत्रय ।
 मा तं प्रिइय गपेसए भ्यमय गोयम मा पमायए ॥३०॥
 न हु जिणे अज्ज डिस्सई बहुमए डिस्सई मग्गडिमिए ।
 सपइ नेयाउए पहे समय गोयम मा पमायए ॥ ३१ ॥
 अवमोहियवण्टगापह ओडण्णो मि पह महालय ।
 गच्छसि मग्ग विमोहिय भ्यमय गोयम मा पमायए ॥३२॥
 अत्रले जह भाखाहए मा भग्गे विसमे वगाहिया ।
 पच्छा पच्छाणुताए समय गोयम मा पमायए ॥३३॥
 तिण्णो हु सि अण्णव महं किं पुणं चिद्धसि तीरमागओ ।
 अभितुरे पारं गमित्तए समयं गोयम मा पमायए ॥३४॥
 अकलेवरसेणि मूसिया सिद्धि गोयम लोय गच्छसि ।
 खेम च सिवं अणुत्तरं समयं गोयम मा पमायए ॥३५॥
 बुद्धे परिनिब्बुडे चरे गामगए नगरे व सजए ।
 मन्तीमग्ग च वूइए समय गोयम मा पमायए ॥३६॥
 छस्स निसम्मं भासियं सुकहियमड्डपओवसोहिय ।
 ग दोस च छिन्दिया सिद्धिगइं गए गोयमे ॥ ३७ ॥
 ॥ ति वेमि ॥

॥ बुमपत्तयस्स ॥

बहुस्तुर्य एकादशं अच्ययनम्

जोगंविष्णुमुक्कस्स अणगारस्स मिक्खुणो ।

पयारं पाउकरिस्सामि आणुपुर्वि सुणेह मे ॥ १ ॥

- जहा से सहस्रसक्वे।वज्रपाणी पुरन्दरे ।
 सके देवाहिर्वई।एव हवइ बहुस्तुए ॥ २३ ॥
- जहा से तिमिरविद्धसे।उत्तिष्ठन्ते दिवायरे ।
 जलन्ते इत्र तेएण।एव हवइ बहुस्तुए ॥ २४ ॥
- जहा से उडुवई चन्दे।नक्खत्तपरिवारिए ।
 पडिपुण्णे पुण्णमासीए।एव हवइ बहुस्तुए ॥ २५ ॥
- जहा से सामाइयाण।कोट्टागारे सुरक्खिए ।
 नाणाधन्नाडिपुण्णे।एव हवइ बहुस्तुए ॥ २६ ॥
- जहा सा दुमाण पवरा।जम्बू नाम सुदसणा ।
 आणाढियस्स देवस्स।एवं हवइ बहुस्तुए ॥ २७ ॥
- जहा सा नईण पवरा।सलिला सीगरगमा ।
 सीया नीलवन्तपवहा।एवं हवइ बहुस्तुए ॥ २८ ॥
- जहा से नगाण पवरे।सुमहं मन्देरे गिरी ।
 नगोसहिपज्जलिए।एव हवइ बहुस्तुए ॥ २९ ॥
- जहा से सयभूरमणे।उदही अक्खओदए ।
 नाणारयणपडिपुण्णे।एव हवइ बहुस्तुए ॥ ३० ॥
- समुद्दगम्भीरसमा।दुरासया।
 अचक्किया केणइ दुप्पहसया।।
 सुयस्म पुण्णा विउलस्स ताइणो ।
 खवित्तु कम्म गइमुत्तम गया ॥ ३१ ॥
- तम्हा सुयमहिट्टिज्जा।उत्तमद्दगवेसए ।
 जेणप्पाणं पर चेव।सिद्धिं संपाउणेज्जासि ॥ ३२ ॥
 ॥ ति वेमि।

अप्यियस्सावि मित्तस्स।रहे कल्लाण मामई ॥ १२ ॥

कलहंढमरवज्जिए खुळे अभिजाइगे ।

हरिम पडिसलीणे सुविणीए ति बुच्चई ॥ १३ ॥

वसे गुरुकुले निचं।जोगवं उवहाणव ।

पियकरे पियंवाई से।सिक्ख लळुमरिहई ॥ १४ ॥

जहा सद्धम्मि पय निहित्तं।दुहओ वि विरायइ ।

एवं बहुस्सुए मिक्खू घम्मो किन्ती तहा सुयं ॥ १५ ॥

जहा से कम्बोयाणं।आइण्णे कन्यए सिया ।

भासे जवेण पवरे।एव हवइ बहुस्सुए ॥ १६ ॥

जहाइण्णसमारूढे।सूरे दढपरकमे ।

मओ नन्दिघोसेणं।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ १७ ॥

जहा करेणुपरिकिण्णे।कुञ्जरे सडिहायणे ।

उल्लवन्ते अप्पडिहए।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ १८ ॥

जहा से तिक्खसिद्धे।जायखन्धे विरायई ।

उक्खे जूहाहिवई।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ १९ ॥

जहा से तिक्खदाढे।उदग्गे दुप्पहसए ।

हि मियाण पवरे।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ २० ॥

जहा से वामुदेवे।सद्धचक्खगदाधरे ।

प्पडिहयवले जोहे।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ २१ ॥

जहा से चाउरन्ते।वक्खवट्टी महडििए ।

इसरयणाहिवई।एवं हवइ बहुस्सुए ॥ २२ ॥

- जहा से सहस्रस्रुवे।वज्रपाणी पुरन्दरे ।
 सके देवाहिर्वई।एव हवइ बहुस्रुए ॥ २३ ॥
- जहा से तिमिरविद्धसे।उत्तिष्ठन्ते दिवायरे ।
 जलन्ते इव तेएण।एव हवइ बहुस्रुए ॥ २४ ॥
- जहा से उडुवई चन्दे।नक्खत्तपरिवारिए ।
 पडिपुण्णे पुण्णमासीए।एव हवइ बहुस्रुए ॥ २५ ॥
- जहा से सामाइयाण।कोट्टागारे सुराक्खिए ।
 नाणाधन्नाडिपुण्णे।एव हवइ बहुस्रुए ॥ २६ ॥
- जहा सा दुमाण पवरा।जम्बू नाम सुदसणा ।
 आणाढियस्म देवस्स।एवं हवइ बहुस्रुए ॥ २७ ॥
- जहा सा नईण पवरा।सलिला सीगरंगमा ।
 सीया नीलवन्तपवहा।एवं हवइ बहुस्रुए ॥ २८ ॥
- जहा से नगाण पवरो।सुमहं मन्दरे गिरी ।
 नगोसहिपज्जलिए।एवं हवइ बहुस्रुए ॥ २९ ॥
- जहा से सयभूरमणे।उदही अक्खओदए ।
 नाणारयणपडिपुण्णे।एव हवइ बहुस्रुए ॥ ३० ॥
- समुद्दगम्भीरसमा।दुरासया।
 अचक्किया केणइ दुप्पहसया।।
 सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो ।
 खवित्तु कम्म गइमुत्तम गया ॥ ३१ ॥
- तम्हा सुयमहिट्टिज्जा।उत्तमद्दगवेसए ।
 जेणप्पाणं पर चेव।सिद्धिं संपाउणेज्जासि ॥ ३२ ॥
- ॥ ति वेमि।

॥ बहुस्तुयम् ॥

हरिणसिज्जं द्वादश अध्ययनम्

- १ सोवागकुलसभूओ।गुणुत्तरधरो मुणी ।
 हरिणसवलो नाम।आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥ १ ॥
 इरिणसणभासाण उच्चारसमितीसु य ।
 सजओ आयाणनिक्खेवे।संजओ सुममाहिओ ॥ २ ॥
 शमणगुत्तो वयगुत्तो।कायगुत्तो जिइन्दिओ ।
 ह्वभिक्खद्धा वम्मइज्जम्मि।जन्नवाडमुवंडिओ ॥ ३ ॥
 भतं पासिऊण पुज्जन्तश्चतवेण परिसीसिय ।
 महमन्तोवहिउवगरण।उवहमान्ति अणारिया ॥ ४ ॥
 ल्लकाईमयपडिउद्धा।हिंसगां अजिइन्दिया ।
 हा भवम्भचारिणो वाला।इम वयणमव्ववी ॥ ५ ॥
 एहे ह्यरे आगच्छइ दित्तख्वे।काले विगराले फोक्कनासे ।
 हा शोमचेलए पसुपिसायभूपसंकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥ ६ ॥
 हे ह्यरे तुम एत्य अदंसणिज्जे क्काए वंआसां इहमागओ णि
 हा शोमचेलगा पंसुपिसायभूया।भाच्छ क्खलाहिं णि
 ण्पादि णिओ णि ॥ ७ ॥
 हा सक्खो तहिं तिन्दुगरुक्खवासी।अणु
 हिसरे णिओ णि ॥ ८ ॥
 च्छायइत्तानियग सरिरेण्ण ॥ ९ ॥
 हासुणिस्स ।
 इमुदाहरित्या ॥ १० ॥

समणोअहप्सजओवम्मयारीविरओधणपयणपरिगहाओ
 परप्पवित्तस्सउ भिक्खकालेअन्नस्म अट्ठाइहमार्गओमि ।१।
 वियरिज्जई खज्जइ भुज्जई याअन्नपभूयं भवयाणमेव ।
 जाणाहि मे जायणजीविणोत्ति सेसावसेसंलमओ ।

तवस्सी ॥ १० ॥

उवक्खडं भोयणमाहणाणं । अत्तट्ठियसिद्धमिहेगपक्खं ।
 न ऊवयं एरिसमन्नपाणंदाहामि तुज्झंकिमिहंउओसि ।११।
 यलेसुष्ठीयाइ भवन्ति कासगा । तहेवनित्रेसु याआससाए ।
 एयाएप्सद्धाएदलाहिप्पज्झआराहएप्पुण्णमिणंखु खित्तं ।१२।
 खेत्ताणि अम्हं । विदियाणि । लोएँ । जहि पक्किण्णा विरुहन्ति
 पुण्णा ।

जे माहणाजाइविज्जोववेयाताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइं ।१३।
 कोहो यमाणो यवहो यजेसिप्पोसंअदत्तं च परिगहं च ।
 ते माहणाजाइविज्जाविहूणास्ताइ तु खेत्ताइप्पुपावयाइं ।१४।
 तुब्भे त्य भो भारवरा गिराणं । अट्ठ न जाणाह अहिज्जवेए
 उच्चावयाइंप्पुणिणोचरन्तिस्ताइं तु खेत्ताइ सुपेसलाइं ॥१५॥
 अज्जावयाणं पडिकूलमासीप्पमाससे किं तु सगासि अम्हं ।
 अवि एतं विणस्सओ । अन्नपाणं न य णं दाहामु तुमं
 नियण्ठा ॥ १६ ॥

समितीहि मज्झं सुसमाहियस्स ।

गुत्तीहि गुत्तस्स जित्तिन्दियस्स ।

जइ मे न दाहित्य अहेसणिज्ज ।

किमित्य जन्नाण लहित्य लाह ॥ १७ ॥

के इत्यखेत्ता उवजोइया वा। अज्जावया मा महत्तपि २
एय तु दण्डेण फलेण हन्ता। कण्ठमि घेत्तूण खलेज्ज जोण १

अज्जावयाण वयण सुणेत्ता। उच्छाइया तत्य वह कुमारा।

दण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेव। समागया त इमि ताल १

रत्तो तर्हिं कोमलियस्स धूया भवत्ति नामेण अ १ ५ ५

त पासिया सजय हम्ममाण कुच्छे कुमारे परिनिववेइ ॥ २०

देवाभिओगेण निओइएण दिन्ना सु रत्ता मणसानाया।

नरिन्देदेविन्दमिवन्दिएण जेणामि वन्ता इसिणा स एसो १

एसो उ सो उग्गतवो महत्तपि। जित्तिन्दिओ सजओ १

जो मे तथा नेच्छइ दिज्जमार्णि। पिउणा सय १

रत्ता ॥ २२ ॥

महाजसो एसो महागुभावो। घोरखओ घोरपरक्कमो य ।

मा एय हीलेइ अहीलणिज्जमा सवे तेएण मे निइहेज्जा २

एयाइ तीसे वयणाइ सोखा। पत्तीइ भदाइ सुहासियाइ ।

इसिस्म वेयावडियट्टयाएजक्खा कुमारे विणिवारयन्ति । २

ते घोरख्वा डिय अन्तलिक्खे असुरा तर्हिं त ज १

ते भिन्नदेहे रुहिर वमन्ते। पासिच्चु महा इणमाहु भज्जो ॥ २५

गिरिं नहेहिं खणहा। अय दन्तेहिं खायह ।

जायतेय पाएहि हणहा। जे। मिकखु अवमन्नह ॥ १

आमीविमो उग्गतवो महेसी। घोरखओ घोरपरक्कमो

अगणिं व पक्खन्द पयङ्गसेणाजे भिक्खुय भत्तकाले
वहेह ॥२७॥

सीसेण एय सरण उवेह समागया सबजणेण तुम्हे ।
जइ इच्छह जीविय वा धण वा लोग पि एसो कुविओ
इहेज्जा ॥२८॥

अवहेडिय पिट्टिसउत्तमङ्गे पसारिया वाहु अक्म्मचेट्टे ।
निज्जेरियच्छे रुहिर वमन्ते उद्धमुहे निग्गयजीहनेत्ते ॥२९॥
ते पासिया खण्डिय कट्टभूए विमणो विसण्णो अह
माहणो सो ।

इसिं पसाएइ समारियाओ हील च निन्द च खमेह मन्ते ॥३०॥
वालेहि मूढेहि अयाणएहिं ज हीलिया तस्स खमाह मन्ते ।
महप्पसाया इसिणो हवन्ति न ह्य मुणी कोवपरा हवन्ति ॥३१॥
पुवि च इण्हिं अणागय च मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ ।
जक्खा ह्य वेयावडिय करेन्ति तुम्हा ह्य एएहि हया कुमारा ॥३२॥
अत्थं च वम्म च वियाणमाणा तुब्भे न वि कुप्पह भूइपत्ता ।
तुब्भ तु पाए सरणं उवेमो समागया सबजणेण अम्हे ॥३३॥
अच्चेमु ते महाभाग न ते किञ्चि न अब्बिमो ।

मुञ्जाहि साल्लिम कूर नाणावज्जणसजुय ॥ ३४ ॥

इमं च मे अत्थि पभूयमन्नं भुज्जसू अम्ह अणुग्गहट्ठा ।
वाट्ठ ति प्रहिच्छह भत्तपाणम्मासस्स ओ पारणए महप्पा ॥३५॥
इहिय गन्धोदयपुप्फवास दिष्ठा तहि वसुहारा य बुट्ठा ।
पय्याओ दुन्दुहीओ सुरेहि आगासे अहो दाण च घुट्ठा ॥३६॥

सक्ख खु दीमइ तवोविसेसो न दीसई जाइविसेस
 सोवागपुत्त हरिएससाहु जस्सेरिसा इड्ढि महाणुभागा ।
 कि माहणा जोइसमारमन्ता उदएण सोहि वहिया ।
 ज मग्गहा वाहिरिय विसोहि न त सुदिट्ठं कुम वयन्ति
 कुसं च जूव तणकट्टमग्गि साय च पाय उदग
 पाणाइ भूयाइ विहेडयन्ता भुज्जो वि मन्दा पगरेह पाव
 कह च रे भिक्खु वय जयामो पावाइ कम्माइ पुणे
 अक्खाहि नो संजय जक्खपूइया कहं सुजट्ट कुसला
 वयन्ति ॥ ४०

छज्जीवकाए असमारमन्ता मासं अदत्तं च ।
 परिग्गह इत्थिओ माण माय एव परित्राय चरन्ति दन्ता ।
 सुसंबुडो पञ्चहि सवरेहिं इह जीवियं अणवकङ्कमाणो ।
 वोसट्टकाओ सुइचत्तदेहो महाजय जयति जन्नसिड्ढ ॥
 के ते जोई के य ते जोइठणे का ते सुया क च ते
 पहाय ते क्यरा सन्ति भिक्खू क्यरेण होमेण हुणासि
 जोइ ॥ ४३ ॥

तवो जोई जीवो जोइठणं जोगा सुया मरीरं कारिसङ्ग
 कम्मेहा सजम जोगसन्ती होम हुणाभि इत्थिपपेत्तं ॥
 के ते हरए के य ते सन्तितित्थे कहिं सिणाओ व
 आइक्ख नो सजय जक्खपूइया इच्छामो नात्त मन्तो

सगासे ॥

धम्मे हरए तथे मन्त्रित्थे मन्त्रित्थे मन्त्रित्थे

जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥
 एय सिणाण कुसलेहि दिट्ठ महासिणाण इतिण पसत्थ ।
 जहिं सिणाया विमला विसुद्धा महारिमी उत्तमं ठाणं
 पत्त ॥ ४७ ॥ ति वेमि

॥ हरिणसिज्ज ॥

चित्तसम्भूज्ज त्रयोदशं अध्ययनम्

गईपराइओ खलु कामि नियाण तु हत्थिणपुरम्मि ।
 बुलणीए वम्मदत्तो उववन्नो पउमगुम्माओ ॥ १ ॥
 कम्मिल्ले सम्भूओ चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि ।
 इट्ठिकुलम्मि विमाले धम्म सोऊण पवइओ ॥ २ ॥
 कम्मिल्लम्मि य नयेरे समागया दो वि चित्तसम्भूया ।
 बुहदुक्खफलविवागं कहन्ति ते इकमिक्खस्स ॥ ३ ॥
 क्वक्खट्ठि महिइओ वम्मदत्तो महायसो ।
 भायर बहुमाणेण इम वयणमव्ववी ॥ ४ ॥
 आसिमो भायरा दो वि अन्नमन्नवसाणुगा ।
 पन्नमणरत्ता अन्नमन्नहितेसिणो ॥ ५ ॥
 इत्थिं सुण्णे आमी मियां नो नगे ।
 म्भुयक्खतीरो सोगागा कासिभूमिए ॥ ६ ॥
 इवा ये देवलोगम्मि आसि अण्हे महिइया ।

इमा नो छट्टिया जाई अन्नमन्नेण जा विणा ॥ ७ ॥

कम्मा नियाणपयडा तुमे राय विचिन्तिया ।

तेमि फलविवागेण विष्पओगमुवागया ॥ ८ ॥

सच्चसोयप्पगडा कम्मा मए पुरा कडा ।

ते अज्ज परिमुञ्जामो किं तु चित्ते वि से तथा ॥ ९ ॥

सव्व सुचिण्णसफलनराण कडाण कम्माण न अत्थि मोक्ख

अत्थेहि कम्मेहि य उत्तमेहि आया मम पुण्णफलोव्वेणा

जाणाहि सभूय महाणुभाग महिद्धिय पुण्णफलोव्वेव

चित्त पि जाणाहि तहेव राय इद्धी जुई तस्म वि य प्पभूया

महत्थरूवा वयणप्पभूया गाहाणुगीया नरसङ्गमज्जे ।

ज भिक्खु गो सीलगुणोव्वेया इह ज्ज पन्ने समगो मिज्जा

उच्चोत्तए मह्हु कक्के य बम्मे पवेइया आवसहा य रम्मा

इमं गिह चित्त घणप्पभूय पसाहि पञ्चालगुणोव्वेयं ॥११॥

नट्टेहि गीएहि य वाइएहि नारीजणाइं पस्वित्थयन्तो ।

मुआहि भोगाइइमाइ भिक्खू मम रोयई पवज्जा हु दुक्ख

तं पुष्णेहेण कयाणुरागं नराहिव कामगुणेषु गिद्ध ।

धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही चित्तो इमं वयणमुदाहा

सव्वं विलक्खियं गीय सव्व नट्ट विइस्वक्खा

सव्वे आमरणा भारा सव्वे कामा दुहावहाणे १३

बालामिरामेषु दुहावहेसु न तं सुहं कामगुणेषु

विस्तकामाण तवोहणाण ज भिक्खुप्पसीलगुणे

नरिद जाई अहमा नराणं सोवागजाई दुहओ गयाणं ।।
 जाहि वर्यं सव्वजणस्स वेस्सा वसी य सोवागनिवेसणेसु ।१८।
 तीसे य जाईइ उ पावियाए बुच्छामु सोवागनिवेसणेसु ।
 सव्वस्स लोगस्स दुगळणिज्जा इह तु कम्माइ पुरे कडाइ ।१९।
 सो दाणि सि राय महाणुभागो महिद्धिओ पुण्णफलोववेओ
 चइत्तु भोगाइ असासयाइं आदाणहेउ अभिणिक्खमाहि ।२०।
 इह जीविए राय असासयम्मि धणिय तु पुण्णाइ अकुवमाणो
 से सोयई मच्चुमुहोवणीए धम्मं अकाऊण परम्मि लोए ॥२१॥
 जहेह सीहो व मिय गहाय मच्चू नर नेइ हु अन्तकाले ।
 न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मसहरा भवति २२
 न तस्स दुक्ख विभयन्तिनाइओ न मित्तवग्गा न सुयानवंधवा
 एको सय पच्चणुहोइ दुक्खं कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥२३॥
 चेच्चा दुपयं च चउप्पय च खित्त गिहं धणधन्नं च भव्वं ।
 सकम्मवीओ अवसो पयाइ परं भवं सुंदर पावगं वा ॥२४॥
 त एक्कं तुच्छसरीरग से चिईगयं दहिय उ पावगेण ।
 भज्जा य पुत्तावि य नायओ य दायारमन्न अणुसंक्क मन्ति २५
 उवणिज्जई जीवियमप्पमाय वण्ण जरा हरइ नरस्स राय ।
 पञ्चालराया वयण सुणाहि मा कासि कम्माइ महालयाइ २६।
 अहं पि जाणामि जहेह साहू जं मे तुम साहसि वक्कमेय ।
 भोगा इमे मज्जक्य हवन्ति जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसोहि
 न्निर्णपरम्मि चित्ता दट्टूण नरखइं महिद्धिय ।
 कामभोगसु गल्लेण नियाणमसुह कड ॥ २८ ॥

इमा नो छट्टिया जाई अन्नमन्नेण जा विणा ॥ ७ ॥

कम्मा नियाणपयडा तुमे राय त्रिचिन्तिया ।

तेसिं फलविवागेण विष्णओगमुवागया ॥ ८ ॥

सच्चसोयप्पगडा कम्मा मए पुरा कडा ।

ते अज्ज परिभुञ्जामो किं तु चित्ते वि से तद्दा ॥ ९ ॥

सध सुचिण्णसफलनराण कडाण कम्माण न अत्थि मोक्खो

अत्थेहि कम्मेहि य उत्तमेहिं आया मम पुण्णफलोववेण ॥१०॥

जाणाहि सभूय महाणुभाग महिद्धिय पुण्णफलोववेण ।

चित्त पि जाणाहि तहेव राय इद्धी जुई तस्स वि य प्पमूया ॥११॥

महत्थरूवा वयणप्पभूया गाहाणुगीया नरसङ्घमज्जे ।

ज भिक्खु गो सीलगुणोववेया इह ज्जयन्ने समगो मि जाओ

उच्चोपए महु कक्के य बम्मे पवेइया आवसहा य रम्मा ।

इमं गिह चित्त घणप्पभूय पसाहि पञ्चालगुणोववेयं ॥१३॥

नट्टेहि गीएहि य वाइएहिं नारीजणाई पग्गिवारयन्तो ।

भुञ्जाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू मम रोयई पवज्जा हु दुक्खं ॥१४॥

त पुषनेहेण कयाणुरागं नराहिव कामगुणेषु गिद्धं ।

धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही चित्तो इमं वयणमुदाहा

सब्बं विलवियं गीय सब्ब नट्ट विइम्बण

सधे आमरणा भारा सधे कम्मा दुहावहा ॥१६॥

वालाभिरामेषु दुहावहेसु न तं सुह कामगुणेषु

विरत्तकामाण तवोहण्ण ज भिक्खु न सीलगुणे स्याणं ॥१७॥

निषिण ससारमया जहाय जिणिंदमग्ग सरणं पवन्ना ॥२॥
 पुमत्तमागम्म कुमार दो वी पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।
 विसालकित्ती य तहेसुयारो रायत्थ देवी कमलावई य ॥३॥
 जाईजरामच्चुमयामिभूया वहि विहारामिनिविट्ठचित्ता ।
 ससारचक्कस्स विमोक्खणट्ठा दट्ठूण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥
 पियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स ।
 सत्ति पोरणिय तत्थ जाइ तहा मुचिण्ण तव सजम च ॥५॥
 ते कामभोगेसु अमज्जमाणा माणुस्सम्हसु जे यावि दिट्ठा ।
 मोक्खाभिकखी अभिजायमट्ठा तांय उवागम्म इम उदाहु ॥६॥
 अमामय दट्ठु इम विहार बहुअन्तराय न य दीहमाउ ।
 तन्हा गिहसि न रई लमामो आमन्तयामो चरिस्सामु मोण ७
 अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं तवस्स वाघायकर वयामी ।
 इम वय वेयविओ वपन्ति जहा न होई असुयाण लोगो ॥८॥
 अट्ठिज्ज वेए परिविस्स विप्पे पुत्ते परिट्ठप्प गिहसि जाया ।
 मोच्चाण मोए सह इत्थियाहि आरण्णगा होई मुणी पमत्था १९
 रायग्गिणा आयग्गुणिन्धणेण मोहाणिला पज्जलणाहिण्ण ।
 सत्तभाव परितप्पमाण लालप्पमाण बहुहा बहु च ॥१०॥
 पुरोहिय त कमसो ऽणुणन्त निमतयन्त च सुए घणेण ।
 जहकप्प कामगणेदि चैव कुमारगा ते पसमिक्ख वक्क ॥११॥
 वेया अहाया न भवन्त ताणं भुत्ता दिया निन्नि तम तमेणं
 जाया य पुत्ता न हवन्ति ताण को णाम ते अणुमनेज्ज एय १२

तस्म मे अपठिकन्तम्म इमं एयारिम फल ।
 जाणमाणो वि ज धम्म कामभोगेषु मुच्छिओ ॥ २९ ॥
 नागो जहा पद्मजलावसन्नो दट्टु थल नाभिममेइ तीर
 एव वय कामगुणेषु गिद्धा न भिक्खुणो मग्गमणुवयामो
 अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ न यावि भोगा पुरिमाण निव
 उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति दुम जहा खीणफलं व पक्खी ।
 जइ त मि भोगे चइउ अमत्तो अज्जाइ कम्माइ करेहि राय
 धम्मे ठिओ मवपयाणुकम्पी तो होहिसि देवो इओ विउवी
 न तुज्झ भोगे चइऊण बुद्धी गिद्धो सि आरम्मपरिगह्से
 मोहं कओ एत्तिउ विप्पलावो गच्छामिराय आमन्तिओ सि
 पञ्चालराया वि य बम्भदत्तो साहुस्स तस्स वयण अक्काउ
 अणुत्तरे भुच्चिय कामभोगे अणुत्तरे सो नरण पविट्ठो ॥ ३१ ॥
 चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो उदग्गचारित्ततवो महेसी ।
 अणुत्तरं सजम पालइत्ता अणुत्तरं सिद्धिगइ गओ ॥

॥ त्ति वेदि

॥ चित्तसम्भूइज्जं ॥

उत्तररत्नप्रकरणं चतुर्विंश अध्यायनम्

देवा भवित्ताण पुरे भवामी केई चुया एगविमाणनाम
 पुरे पुराणे उत्तररत्ननामे खाण ममिडे सुग्गलोगग्गमे
 मक्कम्मसेमेण पग्गकाणं एग्गुग्गमे य ते पग्गया

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ ॥ २४ ॥

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।

धम्म च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥ २५ ॥

एगओ संवसित्ताण दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

एच्छा जाया गमिस्सामो भिक्खमाणा कुले कुले ॥ २६ ॥

जस्सत्थि मच्चुणा मक्ख जस्म अत्थि पलायण ।

जा जाणइ न मरिस्सामि सो हु कंखे सुए सिया ॥ २७ ॥

अज्जेव धम्म पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुणव्ववामो ।

अणागय नेव य अत्थि किची मद्धाखमणे विणइत्तु रागं ॥ २८ ॥

पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो वासिट्ठि भिक्खायरियाइ कालो

साहाहि रुक्खो लहई समाहि छिन्नाहि साहाहिं तमेव खाणु २९

पखाविहूणो व जहेव पक्खी भिच्चविहीणो व रणे नरिन्दो

विवन्नसारो वणिओ व पोए पहीणपुत्तो मि तहा अई पि ॥ ३० ॥

सुसंभिया कामगुणो इमे ते संपिण्डिया अगगरमप्पभूया ।

भुञ्जामु ता कामगुणे पगाम पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्ग ३१

भुत्ता रमा भोइ जहाइ णे वओ न जीवियट्ठा पजहामि भोए

लाभं अलाभ च सुह च दुक्खं सच्चिक्खमाणो चरिस्सामि मोए

मा हूत्तुम सोयरियाण सम्भरे जुण्णो व हसो पडिसोत्तगामी ३२

भुञ्जाहि भोगाइ मए समाण दुक्ख खु भिक्खायरियाविहारो ॥

जहा य भोई तणुय भुयगो निम्मोयणिं द्विच्च पलेइ मुत्तो ।
पमेव जाया पयहन्ति भोए तोह कह नागुगमिस्समेक्को ॥ ३४ ॥

खणमेत्तसोकखात्रहुकालदुक्खापगामदुक्.
 संसारमोक्खस्स विपक्खभूया खाणी अणत्याण उ कम्मभोक्ख
 परिवयन्ते अनियत्तकामे अहो य राओ परितप्पमाणे ।
 अन्नप्पमत्ते घणमेसमाणे पप्पोत्ति मच्चुं पुरिसे जर च ॥१९३॥
 इमं च मे अत्थि इम च नत्थि इम च मे किच्च इम अक्किं ।
 तं एवमेवं लालप्पमाण हरा हरति त्ति कह पमाए ॥१९४॥
 घण पभूयं सह इत्थियाहि सयणा तहा कामगुणा पगामा ।
 तव कए तप्पइ जस्स लोको तं सवसाहीणमिहेव तुब्भं ॥१९५॥
 घणेण किं घम्मधुराहिगारे सयणेण वा कामगुणेहि चैव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहवारी वहिविहारा अभिगम्म भिक्ख
 जहा य अग्गी अरणी असन्तो खीरे घय तेल्लमहा तिलेसु ।
 एमेव ताया सरीरसि सत्ता संमुच्छई नासइ नावचिद्धे ॥१९६॥
 नो इन्द्रियगोच्च अमुत्तभावा अमुत्तमावा वि य होइ निबो
 अज्झत्थहेउ निययस्स बन्धो ससारहेउ च वयन्ति बन्धा ॥१९७॥
 जहा वय घम्ममजाणमाणा पावं पुरा कम्ममकासिमोह ।
 ओरुब्भमाणा परिरक्खयन्ना तं नेव भुज्जो वि समायरामो
 अन्माहयंमि लोगमि सवओ परिवारिए ।
 अमोहाहिं पढन्तीहि गिहसि न रइ लमेना २१
 केण अन्माहओ लोगो केण वा परिवारिओ ।
 क्क वा अमोहा बुत्ता जाया चिंतावरो हूमे
 मच्चुणा ज्ज्माहओ लोगो जराए परिवारिओ ।
 अमोहा रयणी बुत्ता एव ताय विजाणह ॥ २३

जा जा वच्चइ स्यणी न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ ॥ २४ ॥

जा जा वच्चइ स्यणी न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥ २५ ॥

अगओ सवसित्ताण दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

अच्छा जाया गमिस्सामो भिक्खमाणा कुले कुले ॥ २६ ॥

जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख जस्म अत्थि पलायणं ।

जो जाणइ न मरिस्सामि सो हु कंखे सुए सिया ॥ २७ ॥

अज्जेव धम्म पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुण्णभवामो ।

अणागय नेव य अत्थि किंची सद्धाखमणे विणइत्तु रागा ॥ २८ ॥

पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो वासिट्ठि भिक्खायरियाइ काले

माहाहि स्खो लहई समाहि छिन्नाहि माहाहिं तमेव स्वाणु २९

पखाविहूणो व जहेव पक्खी भिक्खविहीणो व रणे नरिन्दो

विवनमारो वणिओ व पोए पहीणपुत्तो मि तहा अह पि ॥ ३० ॥

सुसभिया कामगुणो इमे ते संपिण्डिया अगारमपभूया ।

भुञ्जामु ता कामगुणे पगाम पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्ग ३१

मुत्ता रमा भोइ जहाइ णे वओ न जी वियट्ठा पजहामि भोए

लाभ अलाभ च सुह च दुक्खं सच्चिक्खमाणो चरिस्सामि भोए

मा हूतुम सोयरियाण सम्भरे जुण्णो व हसो पडिसोत्तगामी ३२

भुञ्जाहि भोगाइ मए समाण दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥

जहा य भोई तणुय भुयगो निम्भोयणिं हिच्च पलेइ मुत्तो ।

पमेव जाया पयहन्ति भोए ते ह कह नाणुगमिस्समेक्को ॥ ३४ ॥

छिन्दित्तु जाल अत्रल व रोहिया मच्छा जहा कामगुणे पहाय
 धोरेयसीला तवमा उदारा धीरा हु भिक्षापरिय चरन्ति ॥ ३५ ॥
 नहेव कुश्वा समइकर्मन्ता तथाणि जालाणि दलित्तु हंस ॥
 पलेन्ति पुत्ता य पर्इ य मज्झ ते ह कह नागुगमिस्समेक्का ॥ ३६ ॥
 पुरोहिय त समुयं सदार सोच्चा ऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ॥
 कुड्डम्बसार विउलुत्तम च राय अभिक्खं समुवाय देवी ॥ ३७ ॥
 वन्तासी पुरिसो रायं न सो होइ पससिओ ।
 माहणेण परिच्चत्त धणं आदाउमिच्छसि ॥ ३८ ॥
 सव्व जगं जइ तुह सव्व चावि धण भवे ।
 सव्व पि ते अपज्जत्त नेव ताणाय त तव ॥ ३९ ॥
 मरिहिसि राय जया तथा वा मणोरमे कामगुणे पहाय ।
 एक्को हु धम्मो नरदेव ताणं न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥ ४० ॥
 नाह र्मे पक्खिणि पञ्जरे वा सताणछिन्ना चरिस्सामि मोण ।
 अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा परिगहारम्म नियत्तदोसा ।
 दवग्गिणा जहा रण्णे इज्झमाणेसु जन्तुसु ।
 अन्ने सत्ता पमोयन्ति रागद्वोसवस गया ॥ ४२ ॥
 एवमेव वय मूढा कामभोगेसु मुच्छिया ।
 इज्झमाण न बुज्झामो रागद्वोसग्गिणा जगं ॥ ४३ ॥
 भोगे भोच्चा वमित्ता य लहुभूय विहारिणो ।
 आमोयमाणा गच्छन्ति दिया कामक्कमा इव ॥ ४४ ॥
 इमे य वद्दा फन्दन्ति मम हत्येज्जमागया ।
 वय च सत्ता कामेसु भविस्सामो जहा इमे ॥ ४५ ॥

मामिस कुल्ल दिस्स वज्जमाण निरामिम ।
 आमिस सवमुज्जित्ता विहरिस्सामो निरामिसा ॥ ४६ ॥
 गिद्धोवमे उ नन्नाण कामे ससारवड्डणे ।
 उरगो सुवण्णपासे व सड्डमाणो तणु चरे ॥ ४७ ॥
 नागो व वन्धण छित्ता अप्पणो वमहि वए ।
 एय पच्छ महाराय उमुयारि त्ति मे सुय ॥ ४८ ॥
 वड्डत्ता विउल रज्ज कामभोगे य दुच्चए ।
 नेव्विमया निरामिमा निन्नेहा निप्पग्गिहा ॥ ४९ ॥
 तम्म धम्म वियाणित्ता चिन्ना कामुगुणे वरे ।
 तव पगिज्जहक्खाय घोर घोरपरक्कम्मा ॥ ५० ॥
 एवं ते कमसो बुद्धा सवे धम्मपरायणा ।
 जम्ममच्चुभउव्विग्गा दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥ ५१ ॥
 मामणे विगयमोहाण पुव्वि भावणभाविया ।
 अचिरेणेव कालेण दुक्खस्सन्तमुवागया ॥ ५२ ॥
 राया मह देवीए माहणो य पुरोहिओ ।
 माहणी दासगा चैव गवे ते परिनिव्वुडा ॥ ५३ ॥
 ॥ त्ति, वेमि ॥

॥ उमुयारिज्ज ॥

॥ सभिव्व पञ्चदश अध्यायनम् ॥

मोण चरिम्मामि ममिन्न धम्मं महिए उज्जुकडे नियाणछिन्ने
 मथव जहिज्ज अकामत्तामे अन्नायण्णी परिषए म भिव्व

राओवरय चरेज्ज लाढे पिरा वेयवियायरक्खिए ।
 पन्नेअभिभूय सवढमी जे कम्हि वि न मुच्छिए म भिक्खू ।
 अक्कोमवह विइत्तु धीरे मुणी चरे लाढे नियमायगुत्ते ।
 अवग्गमणे असपहिट्ठे जे कमिण अहियामए म भिक्खू ।
 पन्त मयणामण भइत्ता मीउण्ह विविह च दमममग ।
 अवग्गमणे असपहिट्ठे जे कसिण अहियामए म भिक्खू ॥३॥
 नो सक्कइमिच्छई न पूय नो य वन्दणग कओ पसस ।
 से सजए सुवए तवस्सी सहिए आयगवेसए म भिक्खू ।
 जेण पुणे जहाइ जीविय मोह वा कमिण नियच्छई ।
 नरनारिं पजहे सया तवस्सी न य कोऊहल उवेइ स भिक्खू ।
 छिन्न सर भोममन्तलिक्ख सुमिण लक्खणदण्डवत्थुविज्ज
 अङ्गवियार सरस्स विजय जे विज्जाहि न जीवति स भिक्खू ।
 मन्तं मूल विविह विज्जचिन्त वमणविरेयणधूमणेत्तसिणा
 आउरे सरण तिगिच्छ च तं परिन्नाय परिषए स भिक्खू ।
 स्वत्तियगण उम्गारायपुत्ता माहण भोइय विविहा मि
 नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं त परिन्नाय परिषए स भिक्खू ।
 गिहिणो जे पवइएण दिट्ठा अप्पवइएण व मथुया
 तेसिं इहलोइयफलट्ठा जो मथव न करेइ स भिक्खू ।
 सयणामणपाणमोयण विविहं खाइमसाइमं परेमिं ।
 अदए पडिसेहिए नियण्ठे जे तत्य न पउस्मई स भिक्खू ॥४॥
 जं किचि आहारपाणजाय विविह खाइमसाइम परेमिं ।
 जो त तिविहेण नाणुकम्पे मणवयकायमुमवुडे स भिक्खू ।

आपामग चैव जवोदगं च सीय सोवीरं च जवोदग च ।
 नेहीलए पिण्डं नीरसतु पन्तकुळइ परिवए म भिक्खू ।१३।
 सदा विविहा भवन्ति लोए दिवा माणुस्सगां तिस्सिच्छ ।
 मीमा भयमेखा उदारा सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू ।१४।
 वादं विविह ममिच्च लोए (महिण) खेयाणुगए यं कोवियप्पा ।
 पत्ते अभिभूय मव्वदसी उवसन्ते अवहेडए स भिक्खू ।१५।
 असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते जिइन्दिए सव्वओ विप्पमुक्को ।
 अणुक्कमाई लहुअप्पमक्खी चिन्ना गिह एगचरे स भिक्खु १६
 ति वेमि

॥ म भिक्खू ॥

॥ वम्भचेरसमाहिटाणा पोळश अध्ययनम् ॥

सुय मे, आउस तेण भगवया एवमक्खार्यं । इह खलु
 थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेर^{ममि}ठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू
 सोच्चा निमम्म सजमवहुले सवरवहुले समाहिवहुले-गुत्ते
 गुत्तिन्दिए गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।
 कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहि-
 टणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निमम्म सजमवहुले
 सवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिए गुत्तवम्भयारी
 सदा अप्पमत्ते विहरेज्जा ? इमे खलु ते थेरेहिं भग-
 वन्तेहिं दस वम्भचेरठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा

राओप्रस्य चरेज्ज लादे रिण वेयप्रियापरमिण ।
 पत्ने अमिभृय मधदमी जे रुद्रि रिन मुत्तिण म भिस्व ।
 अषोमप्रह विडत्तु धीरे गुणी चरे लादे नियमायगुत्त ।
 अषग्गमणे अमपहिष्टे ज रुग्णिण अहियापा म भिस्व ।
 पन्त मयणामण भडत्ता मोउण्ट रिनिह च दग्गममग ।
 अषग्गमणे अमपहिष्टे जे रुग्णिण अहियापा म भिस्व ।
 नो मडमिच्छे न पृय नां य रण्णग रुओ पमम ।
 से मजए सुवात्तरस्मी महिण आयगनेमा म भिस्व ।
 जेण पुण जहाड जीरिय मांह रा रुग्णिण नियच्छे ।
 नरनारिं पजहे मया तरस्मी न य कोउहल उवेड म भिस्व ।
 छिन्न सर भोममन्नलिस्व सुमिण लस्वणदण्डवत्थुवि ।
 अङ्गवियार मरस्म विजय जे विज्जाहि न जीवति म भिस्व ।
 मन्त मूल विविह विज्जचिन्त वमणविरेयणधूमणेत्तमिण ।
 आउरे सरण तिगिच्छ च त परिन्नाय परिषए म भिस्व ।
 लत्तियगण उग्गरायपुत्ता माहण मोइय विविहा य ।
 नो तेमिं वयइ सिलोगपूय त परिन्नाय परिषए म ।
 गिहिणो जे पवइएण दिट्ठा अप्पवइएण व मथुया ह ।
 दोसिं इहलोइयफलट्ठा जो मयवं न करेड म भिस्व ।
 सयणामणपाणमोयणं विविहं स्वाइममाइम परेमिं ।
 अदए पडिसेहिए नियण्ठे जे तत्थ न पउम्मई म भिस्व ।
 जे किंचि आहारपाणजाय विविह स्वाइममाइम परेमिं ।
 जो त निविहेण नाणुकम्पे मणवयकायसुमबुड स ।

सङ्गा वा कङ्गा वा विद्दिगिच्छ वा ममुपज्जिज्जा
 भेद वा लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालिय
 वा रोगायङ्ग हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ
 भसेज्जा । तन्हा^{निग्गन्थे} नो इत्थीहि सद्धि मन्निसेज्जागए वि-
 हरेज्जा ॥ ३ ॥

७८ नो, इत्थीणं इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ आलोइत्ता
 निज्जाइत्ता भवति से निग्गन्थे । त कहमिति चे, आयरिया-
 ह । निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ
 अलोएमाणस्म निज्जायमाणस्म वम्भयारिस्म वम्भचेरे
 मङ्गा वा कङ्गा वा विद्दिगिच्छ वा ममुपज्जिज्जा भेद वा
 लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालिय वा रोगा-
 हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । त-
 न्हा^{निग्गन्थे} नो इत्थीण इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ आलोए-
 जा निज्जाएज्जा ॥ ४ ॥

नो, निग्गन्थे इत्थीण कुङ्गन्तरमि वा दूमन्तरसि वा
 भित्तन्तरमि वा कुङ्गयसह वा रुङ्गयसह वा गीयसह वा
 हसियसह वा थणियसह वा कन्दियसह वा विलवियस-
 ह वा सुणेत्ता भवति से निग्गन्थे । त कहमिति चे,
 आयरियाह । निग्गन्थस्स खलु इत्थीण कुङ्गन्तरमि वा
 दूमन्तरमि वा भित्तन्तरमि वा कुङ्गयसह वा रुङ्गयसह वा
 गीयसह वा हसियसह वा थणियसह वा कन्दियसह वा
 विलवियसह वा सुयोमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे सङ्गा

निगम मजममहुले मरमहुले गमाहियहुले
 गुत्तिन्दिग गुत्तमभयागी मया अपमंत विहरेज्ज
 त जहा । विपित्ताड मयणापणाड मेविजा से निग
 न्ये । नो इथी-पमु-पण्डग-ममत्ताड मयणाप
 सेविता भवति मे निगन्ये । त क्हमिति चे, आय
 रियाह । निगन्यस्म खलु इत्थि-पमु-पण्डग-ममत्ता
 मयणापणाड मेवमागस्म वम्भयारिस्म वम्भचे
 मद्दा वा क्ह्वा वा विडिगिच्छा वा समुपज्जिज्ज
 मेद वा लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालि
 वा रोगायङ्क हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भसे
 ज्जा । तम्हा नो इत्थि-पमु-पण्डग-ममत्ताड मयणा
 णाह मेविता हवइ मे निगन्ये ॥ १ ॥

निगन्थे नो इत्थीण क्ह क्हित्ता भवति मे निगन्ये ।
 क्हमिति चे, आयरियाह । निगन्यस्म खलु इत्थीण
 कहेमाणस्म वम्भयारिस्म वम्भचेरे मद्दा वा क्ह
 विडिगिच्छा वा समुपज्जिज्ज मेद वा लभेज्जा उम्मा
 वा पाउणिज्जा दीहकालिय वा रोगायङ्क हवेज्जा, केव
 पन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । तम्हा नो इत्थि
 कहेज्जा ॥ २ ॥

निगन्थे नो इत्थीण सद्धि सन्निसेज्जागए विहरित्ता
 निगन्ये । त क्हमिति चे, आयरियाह । निगन्यस्म
 इत्थीहिं सद्धि सन्निसेज्जागयस्म वम्भयारिस्म वम्भचे

सङ्गा वा कङ्गा वा विईगिच्छा वा समुपज्जिज्जा
 भेदं वा लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालियं
 वा रोगायङ्क हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ
 भसेज्जा । तन्हा नो इत्थीहि सद्धि मन्निसेज्जागए वि-
 हरेज्जा ॥ ३ ॥

ॐ नो, इत्थीणं, इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ आलोइत्ता
 निज्जाइत्ता भवति से निग्गन्थे । तं कहमिति चे, आयरिया-
 ह । निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ
 अलोएमाणस्स निज्जायमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे
 मङ्गा वा कङ्गा वा विईगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा
 लभेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगा-
 यङ्क हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । त-
 न्हा नो इत्थीणं इन्दियाइ मणोहराइ मणोरमाइ आलोए-
 जा निज्जाएज्जा ॥ ४ ॥

नो, निग्गन्थे इत्थीणं कुइन्तरमि वा दूमन्तरमि वा
 भित्तन्तरमि वा कुइयमइ वा रुइयमइ वा गीयमइ वा
 ह्मियमइ वा थणियमइ वा कन्दियमइ वा विलवियस-
 इ वा सुणेत्ता भवति से निग्गन्थे । तं कहमिति चे,
 आयरियाह । निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कुइन्तरमि वा
 दूमन्तरमि वा भित्तन्तरमि वा कुइयसइ वा रुइयमइ वा
 गीयसइ वा ह्मियसइ वा थणियमइ वा कन्दियसइ वा
 विलवियसइ वा सुपोमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे सङ्गा

वा रुक्षा वा विहगिञ्च वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लमेज्जा
 उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालिय वा रोगायइ हवेज्जा
 केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भसेज्जा । तम्हा नो इत्थीण
 न्तरमि वा दूमन्नरमि वा भित्तन्नरमि वा कुइयमइ वा
 मइ वा गीयमइ वा हम्मियमइ वा धणियमइ वा कन्दि
 मइ वा विल्लियमइ वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥ ५ ॥

नो निगन्थे इत्थीण पुव्वय पुव्वकीलिय
 ता हवइ से निगन्थे । त कहमिति चे, आयरियाह ।
 गान्धम्म खलु इत्थीण पुव्वय पुव्वकीलिय
 णस्म न्मभयारिस्स न्मभचेरे मइ वा कइ वा
 वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लमेज्जा उम्माय वा
 ज्जा दीहकालिय वा रोगायइ हवेज्जा, केवल्लि
 यम्माओ भसेज्जा । तम्हा नो इत्थीण पुव्वय
 अणुसरेज्जा ॥ ६ ॥

नो निगन्थे पणीय आहार आहरित्ता हवइ से
 न्गन्थे । त कहमिति चे, आयरियाह । निगन्थस्स
 पणीय आहार आहारेमाणस्स न्मभयारिस्स
 सइ वा कइ वा विहगिञ्च वा समुपज्जिज्जा
 वा लमेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दीहकालिय
 रोगायइ हवेज्जा, केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ
 तम्हा नो पणीय आहार आहारेज्जा ॥ ७ ॥

नो, अतिमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता भवति से-
नेनान्ये । त कहमिति चे, आयरियाह । निगन्थस्स
सुद्ध अतिमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स बम्भया
रिस्स बम्भचेरेसुद्धा वा कद्धा वा विद्दिगिच्छा वा समु-
ज्जिज्जा मेद वा लमेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा दी-
हकालियं वा रोगायद्धं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ घ-
माओ भंसेज्जा, तम्हा नो अतिमायाए पाणभोयणं
आहारेज्जा ॥ ८ ॥

नो विभूसाणुवादी हवति से निगन्थे । त कहमिति चे
आयरियाह । विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्थिज्जणरा
अभिलसणिज्जे हवति । तओ ण इत्थिजणेणं अभिलसि-
ज्जमाणस्स बम्भचेरे सुद्धा वा कद्धा वा विद्दिगिच्छा वा
समुपज्जिज्जा मेद वा लमेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा
दीहकालियं वा रोगायद्धं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ
घम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो विभूसाणुवादी हव-
ति ॥ ९ ॥

नो सद्वरुवरसगन्धफासाणुवादी हवेज्जा से निगा-
न्थे । त कहमिति चे, आयरियाह । निगन्थस्स सुद्ध
सद्वरुवरसगन्धफासाणुवादिस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे सुद्धा
वा कद्धा वा विद्दिगिच्छा वा समुपज्जिज्जा मेद
वा लमेज्जा उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायद्धं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ घम्माओ भंसेज्जा ।

तथा नो महारूपगन्धस्पर्शाद्युवादी भवेज्जा मे नि
गन्धे । त्वमे रम्भनेरगमाहित्येण भवति ॥ १० ॥

भवन्ति इत्य मिल्गो

न विविक्तमणाङ्गण गहिय इत्यिज्जणेण य ।

वम्भचेरग्गो रसवद्धा आल्य तु निग्गण ॥ १ ॥

मणपल्हायजणणी कामरागप्रियद्वणी ।

वम्भचेरग्गो भिक्खु वीरुह तु विज्जण ॥ २ ॥

सम च मथव वीरि मरुह च अभिक्खवण ।

वम्भचेरग्गो भिक्खु निग्गो पग्गिज्जण ॥ ३ ॥

अङ्गपच्चङ्गमठाण चारुल्लण्णियेहिय ।

वम्भचेरग्गो थीण च्चस्सुगिठ्ठि क्विज्जण ॥ ४ ॥

रुक्कत गीत हत्ति च्चणिसक्कन्दिय

वम्भचेरग्गो थीण सोयगिण्ठो क्विज्जण ॥ ५ ॥

हासं विद्दु र्ह दप्पं महमावित्तानणाणि य ।

वम्भचेरग्गो थीण णो णुचिन्ते क्याइ वि ॥ ६ ॥

पणीय भत्तपाण तु खिप्प मयविवङ्गण ।

वम्भचेरग्गो भिक्खु निग्गो पग्गिज्जण ॥ ७ ॥

घग्गलद्ध मितं फाले जत्तत्थं पणिहाणव ।

नेइमत्तं तु भुज्जिज्जा वम्भचेरग्गो सया ॥ ८ ॥

त्रिभूता पग्गिज्जेज्जा मरीरिपरिमण्डणं ।

वम्भचेरग्गो भिक्खु मिक्कारत्थं न धारण ॥ ९ ॥

- सहे रूवे य गन्धेयस्से फासे त्थेत्तयः ।
 ॥ पञ्चविहे कामगुणेः निच्चसो परिवज्जए ॥ १० ॥
 आलओ थीजणाइण्णो थीकहा य मणोरमा ।
 सयवो चेव नारीण तासिं इन्दियदस्सिणं ॥ ११ ॥
 कुइर्यं रूइय गीय सहभुत्तासियाणि य ।
 ॥ पणीय भत्तपाण च अइमायं पाणभोयण ॥ १२ ॥
 गत्तभूमणमिद्ध च कामभोगा य दुज्जया ।
 ॥ नरस्सत्तगवेमिस्स विस तालुडं जहा ॥ १३ ॥
 दुज्जए कामभोगे य निच्चसो परिवज्जए ।
 ॥ मद्दयाणाणि सवाणि वज्जेज्जा पणिहागव ॥ १४ ॥
 धम्मारामे चरे भिक्खू त्थिम धम्मसारही ।
 ॥ धम्मारामे ग्ते दन्ते वम्मचेरसमाहिए ॥ १५ ॥
 देवदाणवगन्धवा जक्खरक्खसकिन्नरा ।
 ॥ वम्मयारि नमसन्ति दुक्कर जे करन्ति तं ॥ १६ ॥
 एस धम्मे धुवे निच्चे सामए जिणदेसिए ।
 ॥ सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण मिज्जिस्सन्ति तहावरे ॥ १७ ॥
 [ति वेमि]

॥ वम्मचेरसमाहिटाणा ॥

॥ पाचसमणिज्जं सप्तदशं अध्ययनम् ॥

जे केइ उ पवइए नियण्ठेधम्म सुणिच्चा विणओववन्ने
 सुदुल्लह लहिउ बोहिलाभविहरेज्ज पच्छय जहा सुइ तु

सेज्जा दहा पाउरण मिः अत्थि उणज्जई भंत्तु तइव
 जाणामिज उट्टइ आउमो ति कि नाप काहामि सुएण म्मे
 जे रेई पघइए॥ निहागीले पगाममो ।
 मोचा पेचा सुह उगइ॥ पावममणे ति बुद्धई ॥ ३ ॥
 आयरियउवज्जाण्हि॥ सुय पिणय च गाहिए ।
 ते चेव खिमई चाले॥ पावममणे ति बुद्धई ॥ ४ ॥
 आयरियउवज्जायाण॥ सम्म न पडिनप्पइ ।
 अप्पडिपूयए थळे॥ पावसमणे ति बुद्धई ॥ ५ ॥
 सम्मदमाणो पाणाणि॥ वीयाणि हरियाणि य ।
 अमंजते मजयमन्नमाणो॥ पावममणे ति बुद्धई ॥ ६ ॥
 संयार फल्लग पीढा॥ निसेज्ज पायकम्बल ।
 अप्पमज्जियमारुहति॥ पावममणे ति बुद्धई ॥ ७ ॥
 इवदवस्स चरती॥ पमत्ते य अमिक्खण ।
 उल्लङ्घणे य चण्ढे या॥ पावममणे ति बुद्धई ॥ ८ ॥
 पडिलेहेति पमत्ते॥ अवउज्जइ पायकम्बल ।
 पडिलेहाअणाउत्ते॥ पावसमणे ति बुद्धई ॥ ९ ॥
 पडिलेहेइ पमत्ते सो॥ किंचि द्हु निसामिया ।
 गुरुरारिमावए निच्चं॥ पावसमणे ति बुद्धई ॥ १० ॥
 बुद्धमाई य मुहरी थळे थळे अणिमाहे ।
 असंविमागी अवियत्ते॥ पावसमणे ति बुद्धई ॥ ११ ॥
 विवादं च उदीरेइ॥ अहम्मे अत्तपन्नहा ।
 बुग्गहे कलहे रत्ते॥ पावसमणे ति बुद्धई ॥ १२ ॥

अथिरासणे कुकुडण॥जत्थ तत्थ निसीयई ।
 आसणम्मि अणाउत्ते॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १३ ॥
 ससरक्खंपाए सुवइ॥सेज्ज न/पडिलेहइ ।
 सथारए अणाउत्ते॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १४ ॥
 दुद्धदहीविगईओ॥आहारेइ अभिक्खणं ।
 अरते य तवोक्खमे॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १५ ॥
 अत्यन्तम्मि य सूरम्मि॥आहारेइ अभिक्खणं ।
 चोइओ पडिचोएइ॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १६ ॥
 आयरियपरिच्चई॥परपामण्डसेवए ।
 गाणगणिए दुब्भूए॥पावसमणेत्ति बुच्चई ॥ १७ ॥
 सय गेह परिच्चज्ज॥परगेहमि वावरे ।
 निमित्तेण य ववहरइ॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १८ ॥
 सन्नाइ पिण्ड जेमेइ॥नेच्छई सामुदाणिय ।
 गिहिनिसेज्ज च वाहेइ॥पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १९ ॥
 एयारिसे पञ्चकुमीलमबुढे॥रूवन्धरे मुणिपवराण हेट्ठिमे
 अयंसि लोए विममेव गरहिणन से इह नेव परत्थलोए॥२
 जे वज्जए एते सदा उ दोसे सो सुवए होइ मुणीण मज्जे
 अयंसि लोए अमय व पूइए॥आराहए लोगमिणं तहा
 ॥ त्ति वेमि ॥

मन्त्रद्वय अष्टादशं अष्टमं

कम्पिले नगरे गया उदिणगन्त्राहणे ।
 नामेण मञ्जए नामा मिगघ उणिगण ॥ १ ॥
 हयाणीए गयाणीए रहाणीए तहेय य ।
 पायत्ताणीए महता म्मघतो परिगारिए ॥ २ ॥
 मिए = ठुभित्ता हयगतो कम्पिल्लुज्जाण केमरे ।
 भीए मन्ते मिण तत्थ त्वहेड रममुच्छिण ॥ ३ ॥
 अह केमरम्मि उज्जाणे अणगारे तपोधणे ।
 गज्झायज्जाणमजुत्ते धम्मज्जाण त्रियायति ॥ ४ ॥
 म्फोत्रमण्डवम्मि ज्ञायति त्वविषामवे ।
 स्मागए मिगे पामा त्वहेति मे नराहिवे ॥ ५ ॥
 मह आसगतो राया मिग्घमागम्म मो तहि ।
 इए मिए उ पासित्ता अणगार तत्थ पामई ॥ ६ ॥
 अह राया तत्थ समन्तो अणगारो मुणा हतो ।
 नए उ मन्दपुण्णेण म्मसगिद्धेण घिण्णुणा ॥ ७ ॥
 आस विसज्जइत्तार्णं अणगारम्म सो निवो ।
 विणएण वन्दए पाए म्मगव एत्थ मे स्वमे ॥ ८ ॥
 अह मोणेण सो भगवा अणगारे ज्ञाणमस्सिंति ।
 रायाण न पढिमन्ते इतओ राया भयहुओ ॥ ९ ॥
 म्मञ्जओ अहमस्सीति म्मगवं वाहराहि मे ।
 कुद्धे तेएण अणगारो ढहेज्ज नरकोडिओ ॥ १० ॥

अमओ पत्थिवा तुञ्मा॥अभयदोया भवाहि य ।
 अणिचे जीवलोगम्मि॥कि हिंमाए पमञ्जमि ॥ ११ ॥
 जया सव परिञ्जजा॥गन्तवमवमस्म ते ।
 अणिचे जीवलोगम्मि॥कि रज्जमि पमञ्जमि ॥ १२ ॥
 जीविय चेव स्व चापविज्जुसपायचञ्चलं ।
 जत्य त मुज्झमी राय॥पेच्चत्य नावबुञ्जमि ॥ १३ ॥
 दागणि य सुया चेवाभित्ता य तह बन्धवा ।
 जीवन्तमणुजीवन्ति॥भय नाणुञ्चयन्ति य ॥ १४ ॥
 नीहरन्ति मय पुत्ता॥पितर परमदुक्खिया ।
 पितरो वि तहा पुत्ते॥बन्धु राय॥तव चरे ॥ १५ ॥
 तओ तेणज्जिए दधे॥दारे य परिरक्खिए ।
 कीलन्तिने नरा राफाहडुतुट्टमलक्किया ॥ १६ ॥
 तेणावि ज कयं कम्मा॥भुह वा जइ वा दुहं ।
 कम्मुणा तेण मजुत्तो॥णच्छनी उ पर भवं ॥ १७ ॥
 सोऊण तस्म मो धम्मं॥अणगारस्म अन्तिए ।
 महयामवेगनिवेदा॥ममावन्नो नराहिवो ॥ १८ ॥
 मअओ चइउ रज्जा॥निक्खन्तो जिणमामणे ।
 गइभालिस्म भगवओ॥अणगारस्म अन्तिए ॥ १९ ॥
 चिन्ना रइ पवइण॥स्वत्तिए परिभासइ ।
 जहा त दासई रुवा॥पमन्नं ते तहो मणो ॥ २० ॥
 किनामे किगोते॥कस्मइए व माहणे ।
 कह पडियग्गी बुद्धो॥कहं विणीए ति बुद्धमी ॥ २१ ॥

सञ्जओ नाम नामेणं नहा गोतेग गोतयो ।
गइभाली ममापरिया विज्जाचरणगागा ॥ २२ ॥
किरिय अकिरिय पिणया अत्राण च महामुणी ।
एएहि चउहि शणेहि मेयन्ने हि पमामई ॥ २३ ॥
इति पाउकरे बुद्धे नाया परिणि तुण ।
विज्जाचरणमपन्ने मधे मवपण्णमे ॥ २४ ॥
पडन्नि नरण घोरे जे नरा पावहारिणो ।
दिव्व च गइ गच्छन्नि चरित्ता घम्ममारिय ॥ २५ ॥
मायाबुइयमेय तु मुमाभामा निरत्थिया ।
सजममाणो वि अहाधमामि इरियामि य ॥ २६ ॥
सव्वेते विइया मज्झमिच्छादिट्ठी अणारिया ।
विज्जमाणे परे लोए मम्म जाणामि अप्पग ॥ २७ ॥
अहमामि महापाणे जुत्तिम वरिसमतोवमे ।
जा सा पालीमहापाली दिवा वरिसमओवमा ॥ २८ ॥
से चुए कम्मलोगाओ भाणुस भवमागत्ते ।
अप्पणो य परेसिं चाआउ जाणे जहा तहा ॥ २९ ॥
नाणास्स च छन्द चापरिवज्जेज्ज सजए ।
अणट्ठा जे य सव्वत्था इइ विज्जामगुसंचरे ॥ ३० ॥
पडिक्कमामि पसिणाण परमन्तेहि वा पुणो ।
अहो उट्ठिए अहोरायं ष्ठति विज्जा तव चरे ॥ ३१ ॥
जं च मे पुच्छेसी काले मम्म मुद्धेण वेयमा ।
ताइ पाउकरे बुद्धे त्तं नाण जिणमाम्मणे ॥ ३२ ॥

किरिय च रोयती॥धीरे अकिरिय परिवज्जए ।

दिट्ठीए दिट्ठीसपन्ने॥धम्म चरसु दुच्चर ॥ ३३ ॥

एय पुण्णपय मोच्चा॥अत्यधम्मोवसोहिय ।

भरहो वि भारह वासाचिच्चा कामाइ पव्वए ॥ ३४ ॥

सगरो वि मागरन्ता॥भरहवास नराहिवो ।

इम्मरिय केवल हिच्चा॥दयाइ परिनिव्वुडे ॥ ३५ ॥

चइत्ता भारह वासु॥चक्कवट्टी महड्डिओ ।

पव्वज्जमभुवगतो॥मघव नाम महाजसो ॥ ३६ ॥

सणङ्कुमारो मणुस्मिन्दो॥चक्कवट्टी महड्डिओ ।

पुत्त रज्जे उवेऊण मो॥वि राया तवं चरे ॥ ३७ ॥

चइत्ता भारह वासु॥चक्कवट्टी महड्डिओ ।

मन्ती मन्तिकरे लोए॥पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ३८ ॥

सागरन्तं चइत्ताण॥भरह नखरीमरो ।

अरो यं अरय पत्तो॥पत्तो गइमणुत्तर ॥ ३९ ॥

इक्खागरायवमभो॥कुन्थू नाम नरीमरो ।

विक्खायकित्ती भगव॥पत्तो गइमणुत्तर ॥ ४० ॥

चइत्ता विउल्ल-रज्ज॥चइत्ता त्रल्लाहण ।

चइत्ता उत्तमे मोए॥महापउमे तव चरे ॥ ४१ ॥

एगच्छत्त पमाहित्ता॥महिं माणनिसूदणो ।

हरिमेणो मणुस्मिन्दो॥पत्तो गइमणुत्तर ॥ ४२ ॥

अभिओ रायमहस्मेहि॥सुपरिच्चाई दम चरे ।

जयनामो जिणस्सुत्ताय॥पत्तो गइमणुत्तर ॥ ४३ ॥

सञ्जओ नाम नामेण। तद्वा गोसिग गोसमो ।
गद्भाली ममायगिया॥ विज्जाचरणवागा ॥ २२ ॥
किरिय अकिरिय विणया॥ अत्राण च महामुणी ।
एणहि चउहि अणेहि॥ मेयन्ने कि पमामई ॥ २३ ॥
इति पाउकरे बुद्धे॥ नायए परिणिचुण ।
विज्जाचरणमपन्ने॥ ममे मवपग्गमे ॥ २४ ॥
पडन्नि नराए घोमे॥ जे नरा पावहारिणो ।
दिव्व च गइ गन्डन्नि॥ चरित्ता धम्ममारिय ॥ २५ ॥
मायावुइयमेय तु॥ मुमाभामा॥ निरत्थिया ।
सजममाणो वि अहाधमामि इरियामि य ॥ २६ ॥
सज्वेते विइया मज्झा॥ मिन्डादिट्ठी अगारिया ।
विज्जमाणे परे लोए॥ सम्म जाणामि अप्पग ॥ २७ ॥
अहमासि महापाणे॥ जुतिम वरिममतोवमे ।
जा सा पालीमहापाली॥ दिघा वरिमसओवमा ॥ २८ ॥
से चुए वम्मलोगाओ॥ भाणुस भवमागते ।
अप्पणो य परेसिं चा॥ आउ जाणे जहा तहा ॥ २९ ॥
भाणाख्खं च छन्द चा॥ परिवज्जेज्ज सजए ।
अणट्ठा जे य सवत्था॥ इइ विज्जामगुसंचरे ॥ ३० ॥
पडिक्कमामि पसिणाणा॥ परमन्तेहि वा पुणो ।
अहो उट्ठिए अहोरायं॥ इति विज्जा तव चरे ॥ ३१ ॥
जं च मे पुच्छेसी काले॥ सम्म सुद्धेण चेयमा ।
ताइ पाउकरे बुद्धे॥ तं नाण जिणमाम्मणे ॥ ३२ ॥

॥ मियापुचीय एकोनविंशतितमं अध्ययनम् ॥

दुग्गीवे नयरे रम्मे॥काणगुज्जाणसोहिण् ।
 या बलमहो ति॥मिया तस्सग्गमाहिंसी ॥ १ ॥
 सिं पुत्ते वलसिरी॥मियापुत्ते ति विस्सुए ।
 म्मापिऊण दइए॥जुवराया दमीमरे ॥ २ ॥
 न्दणे सो उ पासाए॥कीलए सह इत्थिहि ।
 वो दोगुन्दगो चेवो॥निच्चं मुदितमाणसो ॥ ३ ॥
 णिरयणकोट्टिमतले॥पासायालोयणट्टिओ ।
 रालोएइ नगरस्स॥वउक्कत्तियचच्चरे ॥ ४ ॥
 इ तत्थ अइच्छन्त॥पासई समणसजयं ।
 वनियमसंजमधर॥सीलहं गुणआगर ॥ ५ ॥
 देहइ मियापुत्ते॥दिट्ठीए अणिमिसाए उ ।
 इ मन्नेरिस ख्व॥दिट्ठुपुव्व मए पुरा ॥ ६ ॥
 इस्स दरिसणे तस्स॥अज्झवसाणम्मि सोहणे ।
 इगयस्स सन्तस्स॥जातीसरण समुप्पन्न ॥ ७ ॥
 तीसरणे समुप्पन्ने॥मियापुत्ते महिहिण् ।
 ई पौराणिइ जाइ॥सामण्ण त्व पुरा कयं ॥ ८ ॥
 मएसु अरज्जन्तो॥रज्जन्तो संजमेम्मि य ।
 णापियरमुवागम्मा॥इमं वयणमव्वी ॥ ९ ॥
 मे ५ एव णि नरएसु दुक्ख च तिरिक्खंजोणिसु।
 णकामो मिभ्रहणवाउअणुजाणहपवइस्सामि अम्मो
 ताय मए भोगा/शुत्ता विसफलोवमा ।

दमणरज्ज मुदिन चहत्ताण मुणी चरे ।
 दसणभदो निरखन्तो मरुप मंगण चोइओ ॥ ४४ ॥
 करण्ड कलिङ्गेषु पशालेषु य दुम्भुहो ।
 नमी राया विडेहेसु गन्धारेसु य नगर्ह ॥ ४५ ॥
 नमी नमेइ अण्णाण मरुप मंगण चोइओ ।
 च्छुण गेह वडदेही ममण्णे पञ्जुवट्टिओ ॥ ४६ ॥
 एते नरिन्दममा निरखन्ता जिणमामणे ।
 पुत्ते रज्जे उवेऊण ममण्णे पञ्जुवट्टिया ॥ ४७ ॥
 सोवीररायवमभो च्छुत्ताण मुणी चरे ।
 उदायणो पवइओ पत्तो गइमगुत्तर ॥ ४८ ॥
 तहेव कामीराया म्मेओ म्भुपखमे ।
 कामभोगे परिञ्ज्ज पहणे कम्ममहावण ॥ ४९ ॥
 तहेव विजओ राया अणट्टाक्कित्ति पवणं ।
 रज्जं तु गुणममिद्धं पयहित्तु महायमो ॥ ५० ॥
 तहेवुग्ग तव किञ्चा अवक्खित्तेण वेयमा ।
 महव्वलो रायरिमी आदाय मिरमा मिरि ॥ ५१ ॥
 कह धीरो अहेऊहिं उम्मत्तो व महि चरे ।
 एते विसेसमादाय सुरा ददपरक्कमा ॥ ५२ ॥
 अच्चन्तनियाणखमा सञ्चा मे भामिया वई ।
 अतरिंसु तरन्तेगे तरिस्सन्ति अणागया ॥ ५३ ॥
 कहिं धीरे अहेऊहिं अत्ताण परियावसे ।
 सवसङ्गविनिम्भुके सिद्धे भवति नीरण ॥ ५४ ॥ ति

॥ मियापुत्तीय एकोनविंशतितम अध्ययनम् ॥

- १॥ गीवे नयरे रम्मे॥काणणुज्जाणसोहिण् ।
 ॥या वलमहो त्ति॥मिया तस्सग्गमाहिंसी ॥ १ ॥
 ॥सिं पुत्ते वलसिरी॥मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।
 ॥म्मापिऊण दइए॥जुवराया दमीसरे ॥ २ ॥
 ॥न्दणे सो उ पासाए॥कीलए सह इत्थिहि ।
 ॥वो दोगुन्दगो चेवो॥निच्च मुदितमाणसो ॥ ३ ॥
 ॥णिरयणकोट्टिमतले॥पासायालोयणट्टिओ ।
 ॥ालोएइ नगरस्स॥वउक्कत्तियच्चरे ॥ ४ ॥
 ॥इ तथ अइच्छन्त॥भासई समणसजय ।
 ॥वनियमसजमघर॥सीलङ्कु गुणआगरं ॥ ५ ॥
 ॥देहइ मियापुत्ते॥दिट्ठीए अणिमिसाए उ ।
 ॥ईं मनेरिसं ख्वं॥दिट्ठपुवं मए पुरा ॥ ६ ॥
 ॥हुस्स दरिसणे तस्स॥अज्झवसाणम्मि सोहणे ।
 ॥हगयस्म मन्तस्स॥जातीसरण समुप्पन्न ॥ ७ ॥
 ॥तीसरणे समुप्पन्ने॥मियापुत्ते महिद्धिए ।
 ॥ईं पोराणिइ जाइ॥सामण्ण त्व पुरा कय्य ॥ ८ ॥
 ॥अएसु अरज्जन्तो॥रज्जन्तो सजमम्मि य ।
 ॥मापियरमुवागम्म॥इमं वयणमव्वी ॥ ९ ॥
 ॥गाणि मे पश्चमहव्वयाणि नरएसु दुक्ख चं त्तिरिक्खजोणिसु ।
 ॥क्खिण्णकामो मिमहण्णवाउअणुजोणहपव्वइस्सामिअम्मो
 ॥त्तिं ताय मए भोगा॥भुत्ता विसफलोवमा ।

दसण्णरज्ज मुट्ठिन चइत्ताण सुणी चरे ।
 दसण्णमहो निरुत्तन्नो मत्तप मत्तण चोइओ ॥ ४७ ॥
 करकण्ड कलिङ्गेषु पशालेषु य दुम्भुहो ।
 नमी राया विदेहेषु गन्धारेषु य नगर्हो ॥ ४८ ॥
 नमी नमेइ अण्णाण मत्तप मत्तण चोइओ ।
 चइऊण गेह वइदेही म्मामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥ ४९ ॥
 एते नरिन्दवमभा निरुत्तन्ना जिणमामणे ।
 पुत्ते रज्जे उवैऊण म्मामण्णे पज्जुवट्ठिया ॥ ५० ॥
 मोवीररायवममो चइत्ताण सुणी चरे ।
 उदायणो पवइओ पत्तो गइमगुत्तर ॥ ५१ ॥
 तद्देव कामीराया म्मेओमच्चपरवमं ।
 कामभोगे परिघज्ज पहणे कम्ममहावण ॥ ५२ ॥
 तद्देव विजओ राया अणट्ठाक्खित्ति पवणं ।
 रज्जं तु गुणममिद्धं पयहित्तु महायमो ॥ ५३ ॥
 तद्देवुग्ग तव किञ्चा अघक्खित्तेण चेयमा ।
 महच्चलो रायग्गिमी आदाय मिरमा मिरि ॥ ५४ ॥
 कहि घीरो अट्ठेऊहि उम्मत्तो व महि चरे ।
 एते विसेसमादाय सुरा ददपरक्कमा ॥ ५५ ॥
 अबन्तनियाणस्वमा भग्घा मे मासिया वई ।
 अतरिंसु तरन्तेगे अतरिस्सन्ति अणागया ॥ ५६ ॥
 कहि घीरे अट्ठेऊहि अत्ताणं परियावसे ।
 सबसङ्गविनिस्सुक्के सिद्धे भवति नीरण ॥ ५७ ॥ ति

मण्डाणि नीणेइ॥असार अवइज्जइ ॥ २२ ॥
 लोए पलित्तम्मि॥जराए मरणेण य ।
 णं तारइस्सामि॥तुव्वेहिं अणुमन्निओ ॥ २३ ॥
 वेन्ति अम्मापियरो॥सामण्ण पुत्त दुच्चरं ।
 णं तु सहस्साइ॥धारेयव्वाइ भिक्खुणो ॥ २४ ॥
 या सव्वभूएसु॥सत्तुमित्तेसु वा जगे ।
 णातिपांतविरइ॥जावज्जीवाए दुक्कर ॥ २५ ॥
 वकालप्पमत्तेण॥सुसावायविवज्जणं ।
 सियव्वं हिय सच्चनिच्चाउत्तेण दुक्कर ॥ २६ ॥
 तसोहणमाइस्स॥अदत्तस्स विवज्जणं ।
 गवज्जेसणिज्जस्स॥गिण्हणा अवि दुक्कर ॥ २७ ॥
 र्इ अवम्मचेरस्स॥कामभोगरसन्तुणा ।
 ग महव्वयं वम्मं॥धारेयव्व सुदुक्करं ॥ २८ ॥
 गधन्नपेसवग्गेसु॥परिग्गहविवज्जणा ।
 शरम्मपरिच्चाओ॥निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥ २९ ॥
 उषिहे वि आहारे॥रइभोयणवज्जणा ।
 न्निही सचओ चेव॥वज्जेयव्वो सुदुक्कर ॥ ३० ॥
 हा तण्हा य सीउण्हं॥दसमसगवेयणा ।
 कोसा दुक्खसेज्जा यात्तणफासा जल्लमेव य ॥ ३१ ॥
 लणा तज्जणा चेवा॥वहवन्धपरीसहा ।
 स्सं भिक्खायरिया॥जायणा य अलाभया ॥ ३२ ॥
 वोया जा इमा वित्ती॥केसलोओ य दाख्खणो ।

पञ्च कङ्कगणिसागा॥अगुम्भदुहायता ॥ ११ ॥
 इमं गभीरं अणिव॥अगुम्भ॥अगुम्भम्वं ।
 अमागगायामिणन्दुस्वर्षं येगाग भायर्षं ॥ १२ ॥
 अमागगा मगीगमि ग्द नोपलमामर ।
 पञ्च पुग व नडपने फेणबुबुयमन्निमे ॥ १३ ॥
 माणुमत्ते अमागमिवाहीरोगाण आल्य् ।
 जगमरणपन्थमि॥एण पि न ग्मामह ॥ १४ ॥
 जम्म दुग्ध जरा दुग्धरोगाणि मरणाणि य ।
 अहो दुग्धो हु ममारो॥जत्य कीसन्नि जन्तो
 ग्वेत्त वत्थु हिरण्ण चा॥पुत्तदार च म्भवा ।
 चइत्तार्ण इम देहा॥गन्तवमवसस्म मे ॥ १५ ॥
 जह किम्पागफलार्ण॥परिणामो न सुन्दरो ।
 एव भुत्ताण भोगाणा॥परिणामो न सुन्दरो ॥ १७ ॥
 अद्धाण जो महन्त तु॥अप्पाहिज्जो पवज्जई ।
 गच्छन्तो सो दुही होइ॥छुहातण्हाए पीडिओ ॥
 एव धम्मं अकाऊर्ण॥जो गच्छइ परं भवं ।
 अद्धाण जो महन्तं तु॥सपाहिज्जो पवज्जई ।
 गच्छन्तो सो सुही होइ॥छुहातण्हाविवज्जिओ ॥
 एवं धम्म पि काऊर्ण॥जो गच्छइ परं भवं ।
 गच्छन्तो सो सुही होइ॥अप्पकम्ममे अवेयणे ॥ २१ ॥
 जहा गेहे पलित्तमि॥त्तस्स गेहस्स जो पइ ।

लोए निष्पिवासस्सा/नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥ ४४ ॥

रीरमाणसा चेव/वियगाओ अणन्तसो ।

। सोढाओ भीमाओ॥असइ दुक्खंमयाणि यं॥४५॥

। मरणकन्तारे/चाउरन्ते भयांगरे ।

। सोढाणि भीमाणि/जम्माइं मरणाणि यं ॥ ४६ ॥

। इहं अगगी उण्हो/इत्तो णन्तंगुणे तहि ।

। एसु वेयणा उण्हा/अस्साया वेइया मए ॥ ४७ ॥

। इह इम सीयां/इत्ती/णन्तगुणे तहि ।

। एसु वेयणा सीयां/अस्साया वेइया मए ॥ ४८ ॥

। दन्तो कुन्दुकुम्भीसु/उड्डपाओ अहोसिरो ।

। सणे जलन्तम्मि/पक्कपुधो अणन्तसो ॥ ४९ ॥

। दवग्गिसकासे/मरुम्मि वइखालुए ।

। भ्रव्वालुयाए य/उड्डपुधो अणन्तसो ॥ ५० ॥

। दन्तो कुन्दुकुम्भीसु/उड्डं बद्धो अवन्धवो ।

। वत्तकरकयाइंहिं/छिन्नपुधो अणन्तसो ॥ ५१ ॥

। तिक्खकण्ठगाइण्णे/त्तुङ्गे सिम्बलिपायवे ।

। विय पासवद्धेणं/कट्ठोकट्ठाहिं दुक्कर ॥ ५२ ॥

। जन्तेसु उच्छू वा/आरसन्तो सुमेरव ।

। दितो मि सकम्मेहि/षावकम्मो अणन्तसो ॥ ५३ ॥

। दन्तो कोलसुणएहि/सामेहि सवलेहि य ।

। दिओ फालिओ छिन्नो/विप्फुरन्तो अणेगसो ॥ ५४ ॥

। ये असिवण्णाहिं/मल्लीहि पट्टिसेहि य ।

दुक्ख भम्भय घोर॥घारेउ य महण्णो ॥ ३३ ॥
 सुहोइओ तुम पुत्ता॥सुकुमालो मुमज्जिओ ।
 न हु सी पभू तुम पुत्ता॥भामण्णमणुपालिया ॥ ३४ ॥
 जावज्जीवमणिसामो॥गुणाण तु महम्मरो ।
 गुरु उ लोहमारो घाजो पुत्ता होइ दुव्हो ॥ ३५ ॥
 आगासे गङ्गसोउ घापडिमोओ घ दुत्तरो ।
 वाहाहि सागरो चेवातरियवो गुणोदही ॥ ३६ ॥
 बालुयाकवल्लो चेवा॥निरस्साए उ सजमे ।
 असिधारागमण चेवा॥दुक्कर चरिठ तवो ॥ ३७ ॥
 अही वेगन्तदिट्ठीए॥वरित्ते पुत्त दुक्करे ।
 जवा लोहमया चेवा॥चावेयवा सुदुकरं ॥ ३८ ॥
 जहा अग्गिसिहा दित्ता॥पाउं होइ सुदुकरा ।
 तह दुक्कर करेउ जे॥तारुण्णे समणत्तणं ॥ ३९ ॥
 जहा दुक्ख भरेउ जे॥होइ वायस्स कोत्थलो ।
 तहा दुक्खं करेउं जे॥कीवेण समणत्तण ॥ ४० ॥
 जहा तुलाए तोलेउं॥दुक्करी मन्दरो गिरी ।
 तहा निहुयनीसङ्कं॥दुक्करं समणत्तण ॥ ४१ ॥
 जहा भुयाहि तरिउं॥दुक्कर रयणायरो ।
 तहा अणुवसन्तेणं॥दुक्करं दमसागरो ॥ ४२ ॥
 भुञ्ज माणुस्सए भोगे॥पञ्चलक्खणए तमं ।
 भुत्तमोगी तओ जाया॥पच्छा॥धम्मं चारस्सास ॥ ४३ ॥
 सो वेइ अम्मापियरो॥एवमेव जहा फुहं ।

लोए निष्पिवासस्सा नत्थि किचिवि दुक्कर ॥ ४४ ॥

रीमागसा चेव वियगाओ अणन्तसो ।

ए सोदाओ भीमाओ असइ दुक्खमयाणि ये ॥ ४५ ॥

रामरणकन्तारे वाउरन्ते भयांगरे ।

ए सोदाणि भीमाणि जम्माइ मरणाणि ये ॥ ४६ ॥

हा इह अगगी उण्हो इत्तो णन्तगुणे तहि ।

एसु वेयणा उण्हा अस्साया वेइया मए ॥ ४७ ॥

हा इह इम सीये इत्तो णन्तगुणे तहि ।

एसु वेयणा सीया अस्साया वेइया मए ॥ ४८ ॥

दन्तो कुन्दुकुम्भीसु उट्टपाओ अहोसिरो ।

यासणे जलन्तम्मि पक्कपुवो अणन्तसो ॥ ४९ ॥

हादवगिसकासे मरुम्मि वहरवालुए ।

लम्बवालुयाए य उट्टपुवो अणन्तसो ॥ ५० ॥

दन्तो कुन्दुकुम्भीसु उट्ट वद्धो अवन्धवो ।

एवत्तकरक्या इहि छिन्नपुवो अणन्तसो ॥ ५१ ॥

इतिक्खकण्टगाइण्णे तुङ्गे सिम्बलिपायवे ।

विय पासवद्धेण कट्ठोकट्ठाहि दुक्कर ॥ ५२ ॥

हाजन्तेसु उच्छ वा आरसन्तो सुमेरव ।

गहितो मि सकम्मेहि पावकम्मो अणन्तसो ॥ ५३ ॥

दन्तो कोलसुणएहि सामेहि सवलेहि य ।

गहिओ फालिओ छिन्नो विप्फुरन्तो अणेगसो ॥ ५४ ॥

असीहि ये असिवण्णाहि मलीहि पट्टिसेहि य ।

छिन्नो भिन्नो विभिन्नो यः॥ओङ्गो पावस्मुणा
 अवसो लोहरहे जुतो॥जरुन्ते ममिलाजुग ।
 चोइआ तुत्तजुतेहिं॥रोज्जो या जह पाडिओ ॥ ५६ ॥
 हुयासणे जरुन्मि॥चिनासु महिमो विव ।
 दहो पको य असो॥पावकमेहिं पाविओ ॥ ५७
 वला सडासतुण्डेहिं॥लोहतुण्डेहिं पस्त्रिहि ।
 विलुतो विलन्नो हाण्डगिडेहिं णन्नसो ॥ ५८ ॥
 तण्हाकिलन्नो घान्नो॥पतो वेयरणि नदिं ।
 जरु पाहिं ति विन्नन्तो॥खुराराहि विवाइओ ॥ ५९
 उण्हाभिततो संपतो॥असिपत महावणं ।
 असिपत्तेहिं पडन्तेहिं॥छिन्नपुषो अणेगसो ॥ ६० ॥
 मुगरेहिं सुसत्तोहिं॥सूलेहिं मूसलेहिं य ।
 गयासं भग्गतेहिं॥पत दुक्ख अगन्नसो ॥ ६१ ॥
 सुरेहिं तिकखारेहिं॥लुरियाहिं कप्पणीहिं य ।
 कप्पिओ फालिओ छिन्नो॥उक्कित्तो य अणेगसो ॥ ६२
 पासेहिं कूडजालेहिं॥मिओ वा अवसो अह ।
 वाहिओ बद्धरुद्धो वा॥वहुसो चेव विवाइओ ॥ ६३ ॥
 गलेहिं मगरजालेहिं॥मन्थो वा अवसो अह ।
 उल्लिओ फालिओ गहिओ॥मारिओ य अगन्तसो ।
 वीदसएहिं जालेहिं॥लिप्पाहिं सउणो विव ।
 गहिओ लागो॥वद्धो यामारिओ य अगन्नसो ॥ ६४ ॥
 कुण्डकरसुमाइहिं॥वहुइहिं दुमो विव ।

कुट्टिओ फालिओ छिन्नो॥तच्छिओ य अणन्तसो ॥६६॥
 चवेडमुट्टिमाईहि॥कुमारेहि अयं पिव ।
 ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो॥चुण्णिओ य अणन्तसो ॥६७॥
 तत्ताइ तम्बलोहाइ॥तउयाइ सीसयाणि य ।
 पाइओ कलकलन्ताइ॥आरसन्तो सुमेरवं ॥ ६८ ॥
 तुहं पियाइं मंसाइं॥खण्हाइ सोल्लागाणि य ।
 खाविओ विसमसाइ॥अग्गिवण्णाइं णेगसो ॥ ६९ ॥
 तुहं पिया सुरा सीहू॥पेरओ य मट्टणि य ।
 पाइओ मि जलन्तीओ॥वसाओ रुहिराणि य ॥ ७० ॥
 निच्च भीएण तत्थेण॥दुहिएण वहिएण य ।
 परमा दुहसबद्धा॥वेयणा वेदिता मए ॥ ७१॥
 तिष चण्डप्पगाढाओ॥घोराओ अइदुस्सहा ।
 महब्भयाओ भीमाओ॥नरएसु वेदिता मए ॥ ७२ ॥
 जारिसा मायुसे लोए॥प्ताता दीसन्ति वेयणा ।
 एत्तो अणन्तगुणिया॥नरएसु दुक्खवेयणा ॥ ७३ ॥
 सब्भवेसु असाया॥वेयणा वेदिता मए ।
 निमेसैन्तरमित्त पि॥ज साता नत्थि वेयणा ॥ ७४ ॥
 त विन्तम्मापियरो॥छन्देण पुत्त पवया ।
 नवर पुण सामण्णे॥दुक्ख निष्पट्टिकम्मया ॥ ७५ ॥
 सो वेइ अम्मापियरो॥एवमेव जहा फुहं ।
 पट्टिकम्म को कुणइ॥अरण्णे मियपक्खिण ॥ ७६ ॥
 एगम्भूए अरण्णे वा॥जहा उ चरई मिगे ।

छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य॥ओइण्गो पात्ररुमुणा ॥५५॥
 अत्रमो लोहरद्वे जुतो॥जरुन्ते ममिलानुए ।
 चोइआ तुत्तजुतेहि॥रोज्जो या जह पाडिओ ॥ ५६ ॥
 हुयामणे जरुन्तमि॥त्रियामु महिसो विव ।
 दट्टो पको य अत्रसो॥पात्ररुमेहि पात्रिओ ॥ ५७ ॥
 चला सडासतुण्डेहि॥लोहतुण्डेहि पफित्तिहि ।
 विलुतो विलम्बो हाण्डइगिठ्ठेहि णन्तसो ॥ ५८ ॥
 तण्हाकिल्लो घावन्तो॥पतो वेयरणिं नदिं ।
 जल पाहि ति चिन्तन्तो॥खुरायाहाहि विवाइओ ॥५९॥
 उण्हामित्तो संपत्तो॥असिपत्त महावणं ।
 असिपत्तेहिं पडन्तेहिं॥छिन्नपुषो अणेगसो ॥ ६० ॥
 मुग्गरेहिं सुसुत्तोहिं॥सूलेहिं मूसलेहि य ।
 गयासं भग्गतेहिं॥पत्त दुक्ख अगन्तसो ॥ ६१ ॥
 सुरेहिं तिकखधारेहिं॥लुरियाहिं कप्पणीहि य ।
 कप्पिओ फालिओ छिन्नो॥उक्कित्तो य अणेगसो ॥६२॥
 पासेहिं कूडजालेहिं॥मिओ वा अत्रसो अह ।
 वाहिओ वद्धरुद्धो वा॥वहुसो चैव विवाइओ ॥ ६३ ॥
 गलेहिं मगरजालेहिं॥मच्छो वा अत्रसो अह ।
 उल्लिओ फालिओ गहिओ॥मारिओ य अगन्तसो ॥६४॥
 वीदसएहि जालेहिं॥लिप्पाहिं सउणो विव ।
 गहिओ लागो॥वद्धो यामारिओ य अगन्तसो ॥६५॥
 कुण्डरुसुमारिहिं॥वद्धेहिं दुमो विव ।

सन्मिन्तस्वाहिरओत्तवोकम्ममि उज्जुत्तो ॥ ८८ ॥

निम्ममो निरहकारो॥निस्सङ्गो चत्तगारवो ।

समो य सव्वभूएसु॥त्तसेसु थावरेसु य ॥ ८९ ॥

लामालामे सुहे दुक्खे॥जीविए मरणे तहा ।

समो निन्दापसंसासु॥तहा माणावमाणओ ॥ ९० ॥

गारवेसुं कसाएसु॥दण्डसल्लभएसु य ।

नियत्तो हाससोगाओ॥अनियाणो अवन्धणो ॥ ९१ ॥

अणिसिओ इहं लोए॥परलोए अणिसितो ।

वासीचन्दणकणो य॥असणे-अणसणे तहा ॥ ९२ ॥

अप्पसत्येहिः दारेहि॥सव्वओ पिहियासवे ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहिं॥पसत्यदमसासणे ॥ ९३ ॥

एवं नाणेण चरणेण॥दंसणेण तवेण य ।

भावणाहि यः सुद्धाहिं॥सम्मं भावेत्तु अप्पय ॥ ९४ ॥

वहुयाणि उ वासाणि॥सामण्णमणुपालिया ।

मासिएण उ भत्तेण॥सिद्धिं-पत्तो अणुत्तर ॥ ९५ ॥

एवं करन्ति संबुद्धा॥पण्डिया पवियक्खणा ।

विणिअट्टन्ति भोगेसु॥मियापुत्ते जहामिसी ॥ ९६ ॥

महापभावस्स महाजसस्स॥मियाइ पुत्तस्स निसम्म भासिय ।

तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं॥गतिप्पहाण च तिलोगविस्सुतं ९७

वियाणिया दुक्खविवद्धणधणं ममत्तवन्धं च महाभयावहं ।

सहावह धम्मधुरं अणुत्तरधारेज्ज निघाणगुणावहं महं ९८ ॥

॥ त्ति वेमि ॥

॥ मियापुत्रीय ॥

एवं धर्मं चरिस्सामि॥संजमेण तवेण य ॥ ७७ ॥
 जहा मिगस्स आतङ्को॥महारणम्मि जायडं ।
 अबन्त स्सखमूलम्मि॥को णं ताहे तिगिच्छं ॥ ७८ ॥
 को वा से ओसह देह॥को वा मे पुच्छई सुह ।
 को से भत्त च पाण वा॥आहरित्तु पणामए ॥ ७९ ॥
 जया य से सुही होइ॥तया गच्छइ गोयर ।
 भत्तपाणस्स अट्ठाए॥वल्लराणि सराणि य ॥ ८० ॥
 खाइत्ता पाणिय पाउ॥वल्लरेहिं सरेहि य ।
 मिगचारिय चरित्ताणं॥गच्छनी मिगचारियं ॥ ८१ ॥
 एव समुट्ठिओ भिक्खू॥एवमेव अणेगए ।
 मिगचारिय चरित्ताण॥उट्ठु पक्कमती दिस ॥ ८२ ॥
 जहा मिगे एग अणेगचारी॥अणेगवासे धुवगोयरै य ।
 एव मुणी गोयरियं पविट्ठे नोहीलए नो वि य खिसएज्जा॥
 मिगचारियं चरिस्सामि॥एव पुत्ता जहा सुह ।
 अम्मापिईहि णुत्ताओ॥जहाइ उवहिं तहा ॥ ८४ ॥
 मियचारियं चरिस्सामि॥सवदुक्खविमोक्खणिं ।
 तुब्भेहिं अब्भणुत्ताओ॥गच्छ पुत्ता॥जहासुह ॥ ८५ ॥
 एवं सो अम्मापियरो॥अणुमाणित्ताण बहुविह ।
 ममत्तं छिन्दई ताहे॥महानागो व कद्धुक्कं ॥ ८६ ॥
 इही वित्त च मित्ते य॥पुत्तदारं च नायओ ।
 रेणुयं च पडे लम्मा॥निद्धणित्ताण तिग्गओ ॥ ८७ ॥
 पञ्चमहवयजुत्तो पञ्चहि॥स्समितो तिगुत्तिगुत्तो य ।

होमि नाहो भयन्ताणाम्भोगे भुञ्जाहि सजया ।
 मित्तनाईपरिवुडो।भागुस्स खु सुदुल्लहं ॥ ११ ॥
 अप्पणा वि अणाहो सि।सेणिया मगहाहिवा ।
 अप्पणा अणाहो सन्तो।क्कस्स नाहो भविस्ससि ॥१२॥
 एवं वुत्तो नरिन्दो सो।सुसंभन्तो।सुविम्हिओ ।
 वयणं अस्सुयपुवं।साहुणा।विम्हयन्निओ ॥ १३ ॥
 अस्सा हत्थी मणुस्सा।भो।पुरं अन्तेउर च मे ।
 भुञ्जाहि माणुसे भोगे।आणा इस्सरिय च मे ॥ १४ ॥
 एरीसे सम्पयग्गम्मि।सवकामसमप्पिए ।
 कह अणाहो भवति मा।हु भन्ते मुस वए ॥ १५ ॥
 न तुम जाणे, अणाहस्सा।अत्थं।पुत्थं च।पत्थिवा ।
 जहा अणाहो भवती।सणाहो वा नराहिवा ॥ १६ ॥
 सुणेह मे महारायं।अवक्खित्तेणं चैयसा ।
 जहा अणाहो भवई।जहा मेयं, पवत्तिय ॥ १७ ॥
 कोसम्बी नाम नयरी।पुराण पुरमेयणी ।
 त्तय आसी पिया मज्झं।अभूयधणसंचओ ॥ १८ ॥
 पढमे वए महाराय।अतुला मे अच्छिवेयणा ।
 अहोत्था विउलो दाहो।सवङ्गेसु यं पत्थिवा ॥ १९ ॥
 सत्थ जहा परमनिक्खं।सरीरविवरन्तरे ।
 आवील्लिज्ज अरी कुड्ढो।एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥
 तिय मे अन्तरिच्छ च।उत्तमङ्गं च पीडती ।
 इन्दासणिसमा घोरा।अवेयणा परमदारुणा ॥ २१ ॥

॥ महानियण्डिजं विंशतिनम अण्ययनम् ॥

मिज्जाण नमो किञ्चा॥मजयाण च भावओ ।
 अत्यधम्मगति तत्र॥अणुमिद्धिं सुणेह मे ॥ १ ॥
 पभूयरयणो राया॥सेणिओ मगहाहिवो ।
 विहारजत्त निज्जाओ॥मण्डिकुच्छिमि चेइए ॥ २ ॥
 नाणादुमलनाइण्ण॥नाणापक्खिनिसेविय ।
 नाणाकुसुममउत्त॥उज्जाणं नन्दणोवम ॥ ३ ॥
 तत्थ सो पासई माहु॥मजय सुममाहियं ।
 निसिन्नं रुक्खमूलम्मि॥सुकुमालं सुहोइय ॥ ४ ॥
 तस्स रुव तु पासित्ता॥राइणो तम्मि संजए ।
 अच्चन्तपरमो आसी॥अउलो रुवविम्हओ ॥ ५ ॥
 अहो वण्णो अहो रुव॥अहो अज्जस्स सोमया ।
 अहो खन्ती अहो मुत्ती॥अहो भोगे असङ्गता ॥ ६ ॥
 तस्स पाए उ वन्दिता॥काऊण य पयाहिणं ।
 नाइदूरमणासन्ने॥पञ्जली पडिपुच्छती ॥ ७ ॥
 तरुणो सि अज्जो पवइओ॥भोगकालम्मि सजया ।
 उवडितो सि सामण्णे॥एतमडुं सुणामि ता ॥ ८ ॥
 अणाहो मि महाराय॥नाहो मज्झं न विज्जई ।
 अनुकम्पगं सुहं वाविक्किचि नामिसमेमह ॥ ९ ॥
 ततो सो पइसिओ राया॥सेणिओ मगहाहिवो ।
 एव ते इड्ढिमन्तस्सा॥कहनाहो नं विज्जई ॥ १० ॥

एव च चिन्तइत्ताणमसुत्तो मिम्भनराहिवा ।
 परियत्तन्तीए रईएणवेयणा मेण्खर्यं गया ॥ ३३ ॥
 तओ कळे पभायम्मिआपुच्छित्ताण वन्धवे ।
 खन्तो दन्तो निरारम्मोपवइओअणगारिय ॥ ३४ ॥
 तो हं नाहो जाओअप्यणो य परस्स य ।
 सवेसिं चैव भूयाणंत्तसाण थावराण य ॥ ३५ ॥
 अप्पा नदी वेयरणीअप्पा मेण्कूडसामली ।
 अप्पा कामदुहा वेणूअप्पा मे नन्दण वण ॥ ३६ ॥
 अप्पा कत्ता विकत्ता यधुक्खाण य सुहाण य ।
 अप्पा मित्तममित्त चधुप्पट्टियंसुपट्टिओ ॥ ३७ ॥
 इमा हु अन्ना विअणाहुया निवा
 तमेगचित्तोनिहुओ सुणेहि ।
 नियण्ठधम्मलहिया निवा जहा
 सीयन्ति एगेवहुक्कयरात्तरा ॥ ३८ ॥
 जो पवइत्ताणम्महवयाई
 सम्म च नोफासयई पमाया ।
 अनिग्गहप्पा यरसेसु गिद्धे
 न मूलओच्छिन्नइवन्धणं से ॥ ३९ ॥
 आउत्तया जस्साय नत्थि काइ
 इरियाए भामाएत्तहेमणाए ।
 आयाणनिकखेवदुगुञ्जणाए
 न वीरजार्यअणुजाइ मग्ग ॥ ४० ॥

उद्विक्ता मे आयरियाः पिञ्जामन्नतिगिच्छया ।
 अधी या सत्यकुमलाः मन्तमूलविमारया ॥ २२ ॥
 ते मे तिगिच्छ कुषन्तिः प्राउण्याय जहाहित ।
 न य दुक्त्वा विमोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ २३ ॥
 पिया मे सधसार पिण्दिज्जा हि मम कारणा ।
 न य दुक्त्वाउ मोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ २४ ॥
 माया य मे महारायः पुत्तसोगदुहट्टिया ।
 न य दुक्त्वाउ मोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ २५ ॥
 भायरो मे महारायः सगा जेड्ढकणिट्टगा ।
 न य दुक्त्वा विमोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ २६ ॥
 भइणीओ मे महारायः सगा जेड्ढकणिट्टगा ।
 न य दुक्त्वा विमोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ २७ ॥
 मारिया मे महारायः अणुरत्ता अणुवया ।
 अंसुपुण्णेहिं नयणेहिं उर मे परिसिञ्चती ॥ २८ ॥
 अन्न पाणं च ष्हाण च गन्धमल्लविलेवण ।
 मए नायमनार्यं वाः सा बाला नेव भुञ्जती ॥ २९ ॥
 स्वर्णं पि मे महारायः पासाओ मे न फिट्टती ।
 न य दुक्त्वा विमोयन्तिः एसा मज्झ अणाहया ॥ ३० ॥
 ततो ह एवमाहंसुदुक्त्वा मा हुः पुणो पुण्ये ।
 वेयणा अणुमविउंज मारम्मि अणा ॥ ३१ ॥
 सह च जइ मुषेज्जा वेयणा विउला
 खन्तो दन्तो निरारम्मो यवए अणा ॥ ३२ ॥

संघावतीः॥नरगं॥तिरिक्खजोणिं

मोण विराहेत्तु असाहुरूवे ॥ ४६ ॥

उद्देसियाःकीयगढ नियाग

न मुञ्चईःकिचिःअणेसणिज्ज ।

अग्गी विवाःसवमक्खीःभविता

इत्तो चुण्णच्छइःकट्टुःपाव ॥ ४७ ॥

न त अरीःकण्ठेत्ता करेइ

जं से करेःअप्पणियाःदुरप्पया ।

से नाहईःमच्चुमुह तु पत्ते

पच्छाणुतावेणःदयाविहूणो ॥ ४८ ॥

निरट्टियाःनगरुई उःतस्म

जे उत्तमट्टंःविवज्जांसमेइ ।

इमे वि से नत्थिःअरे वि लोए

दुहओ वि सोःझिज्जइःतत्थ लोए ॥ ४९ ॥

एमेव हाःछन्दकुसीलरूवे

मग्ग विराहेत्तुःजिणुत्तमाण ।

कुररी विवाःभोगरसाणुगिच्छाः

निरट्टसोयाःपरियावमेइ ॥ ५० ॥

सोच्चाण मेहावि सुभासिय इम

अणुसासणं नाणगुणोववेय ।

मग्ग कुसीलाण जहाय सब्ब

महानियण्डाण वए पद्देण ॥ ५१ ॥

चिर पि सोऽपुण्डरुङ्गभ्रिता

अधिरघाणत्वनियमेहि भट्टे ।

चिर पि अप्पाणः॥किलेसइत्ता

न पारए होइहु सपराए ॥ ४१ ॥

पुल्लेव मुट्टी जहसे अमारे

अयन्तिएःकूडकहावणे वा ।

रादामणीःध्वेरुलियपंगासे

अमठगए होइःस्य जाणएसु ॥ ४२ ॥

कुसीललिङ्गःइह धारइत्ता

इसिज्जयाःजीविय बूहइत्ता ।

असंजएःसजर्यल्पमाणे

विणिग्घायमागच्छइसे चिर पि ॥ ४३ ॥

विस तु पीयाःजह कालकूड

हणइ सत्यःजहःकुग्गहीय ।

एसो विं घम्मोःविसओववन्नो

हणइ वेयालःइवाक्विन्नो ॥ ४४ ॥

जे लक्खणंःसुविणःपउअमाणे ।

निमित्तकोऊहलंसपगाढे ।

कुहेडविज्जासवदारजीवी ।

न गच्छइःसरणंःतम्मि काले ॥ ४५ ॥

तमं तमेणेवाःउ सेःअसीले

सया दुहीःविप्परियांसुवेत्ति ।

उत्ससियरोमकूवोःकाऊण य पयाहिण ।
 अभिवन्दिऊण।सिरसाःअइयाओ नराहिवोः। ५९ ॥
 इयरो वि गुणसमिद्धोःपतिगुत्तिगुत्तोःपतिदण्डविरओ य ।
 विहग इव विप्पमुकोःविहरइ-वसुहं त्रिगयमोहो ॥६०॥
 । ॥ त्ति त्तेमि ॥

॥ महानियण्ठिज्जं ॥

॥ समुद्रपालीयं एकविंश अध्यायनम् ॥

चम्पाए पालिए नामःसावए आसि वाणिए ।
 महावीरस्स भगवओःसोसे सो उ महप्पणो ॥ १ ॥
 निगन्थे पावयणेःसावए से वि कोविए ।
 पोएणे ववहरन्तेःपिहुण्डे नगरमागए ॥ २ ॥
 पिहुण्डे ववहरन्तस्सःवाणिओ देइ-धूयर ।
 तं ससत्त पइगिज्जाःसदेसमहःपत्थिओ ॥ ३ ॥
 अह पालियस्स घरणीःसमुद्रमि पसुवती ।
 अह वालए तहि जाएःसमुद्रपालि त्ति नामए ॥ ४ ॥
 खेमेण आगए चम्पाःसावए वाणिए घर ।
 सवह्वती तस्स घरेःदारए से सुहोइए ॥ ५ ॥
 चावत्तरी कलाओ याःसिक्खती नीइकोविए ।
 जोषणेण य सपन्नेःसुखे पियदसणे ॥ ६ ॥
 तस्स ख्ववइ भज्जाःपियाःआणेइ ख्वविणि ।
 पासाए कीलए स्समेःदेवो दोगुन्दओ जहा ॥ ७ ॥

चरित्तमायारगुणनिण तओ

अणुत्तर सजमायालियाण ।

निरासवे।सखवियाण।क्वम्मं

उवेइ ठाण।विउलुत्तम धुव ॥ ५२ ॥

एवुग्गदन्ते वि।महातपोधणे

महामुणी।महापइन्ने।महायसे ।

महानियण्ठिज्जमिणं।महागुयं

से कहेई महया।वित्यरेणं ॥ ५३ ॥

तुट्ठो य सेणिओ राया।इणमुदाहु।क्यञ्जली ।

अणाहत्त जहाभूया।मुट्ठु मे।उवदसिय ॥ ५४ ॥

तुज्झ सुलच्छ।खु मणुस्सजम्म

लामा सुलच्छा य।तुमे महेसी ।

तुव्मे सणाहा या।म्वन्धवा य

ज मे ठिया मग्गे।जिणुत्तमाण ॥ ५५ ॥

तं सि नाहो अणाहाण।सवभूयाण सजया ।

स्वामेमि ते महाभाग।इच्छमि।अणुसासिउं ॥ ५६ ॥

पुच्छिऊण मए तुव्मा।आणविग्घोओ।जो कओ ।

निमन्तिया य भोगेहि।त सर्वं मेरिसेहि मे ॥ ५७ ॥

एव थुणित्ताण स।रायसीहो

अणगारसीह।परमाइ भत्तीए ।

सओरोहो।सपरियणे।सवन्धवो

धम्माणुरत्तो।विमलेण।वेयसा ॥ ५८ ॥

उवेहमाणो उऽपरिष्वएज्जा

पियमप्पिय सव्वत्तिक्खएज्जा ।

न सव्व सव्वत्थाऽमिरोयएज्जा

न यावि पूयाऽगरह च संजए ॥ १५ ॥

प्रणेगळ्ळन्दाऽह्ह माणवेहिं

ॐ जे भावओऽसंपगेइ भिक्खू ।

नयमेखा तत्थाऽइन्ति भीमा

दिवा मणुस्साऽअदुवा तिरिच्छ ॥ १६ ॥

रीसहाऽदुविसहाऽअणेगे

सीयन्ति जत्थाऽवहुकायरा नरा ।

से तत्थ पत्ते नऽवाहिज्ज भिक्खू

सगामसीसेऽइव नागराया ॥ १७ ॥

सीओसिणाऽदसमसा य फासा

आयङ्कागविविहाऽफुसन्ति देहं ।

अकुक्कुओऽतर्थाऽहियासएज्जा

स्याइ खेवेज्जऽपुरे कयाइं ॥ १८ ॥

पहाय राग चऽतहेव दोस

मोहं च भिक्खूऽसततऽपवियक्खणो ।

मेरु व वाएणऽअकम्पमाणो

परीसहेऽआण्णुत्तेऽसहेज्जा ॥ १९ ॥

अणुन्नएऽन्नावणए महेसी

न यावि पूयाऽगरह च संजए ।

अह अन्नया कयाइ।पासायालोयणट्टिओ ।
 वज्जमण्डणसोमाग।वज्जं पामइ वज्जगं ॥ ८ ॥
 तं पासिऊण संवेग।समुदपालो इणमव्वी ।
 अहो ङ्गुमाण कम्माण।निज्जाणं पावग इम ॥ ९ ॥
 संबुद्धो सो तहिं भगवां।परमसवेगमागओ ।
 आपुच्छम्मापियरो।पघए'अणगारियं ॥ १० ॥
 जहिउ सगगन्यमहाकिलेसं
 महन्तमोहाकसिण भयावहं ।
 परियायधम्मं च।अभिरोयएज्जा
 वयाणि सीलाणि।परीसहे य ॥ ११ ॥
 अहिंस सच्चं च।अतेरूणं च
 ततो अबम्म।अपरिगहं च ।
 पडिवज्जिया।पच्च महवयाणि
 चरिज्ज धम्मा।जिणेदंसिय विदू ॥ १२ ॥
 सब्वेहि भूएहि।दयाणुकम्पे
 खन्तिक्खमे।असंजयवम्मयारी ।
 सावज्जजोगं।परिवज्जयन्तो ।
 चरिज्ज भिक्खू।सुसमाहिइन्दिए ॥ १३ ॥
 कालेण कालं विहसेज्ज रट्ठे
 वलाक्कलं जाणिय अप्पणो य ।
 सीहो व सहेण।न सतसेज्जा
 वयजोग सुच्चा।न असम्ममाहु ॥ १४ ॥

तस्स भज्जा सिवा नाम्तीसे पुत्तो महायसो ।
 भगव अरिद्धनेमि त्तिःलोगनाहे दमीसरे ॥ ४ ॥
 सो ऽरिद्धनेमिनामो ऽल्लक्खणस्सरसंजुओ ।
 अट्टसहस्सलक्खणधरो ऽणोयमो कालगच्छवी ॥ ५ ॥
 वज्जरिसहसघयणो ऽसमचउरंसो ऽद्दसोयरो ।
 तस्स रायमई कन्न भज्जं जायइ केसवो ॥ ६ ॥
 अह सा रायवरकन्ना सुसीला चारुपेहणी ।
 सवलक्खणमपन्ना विज्जुसोयामणिप्पमा ॥ ७ ॥
 अहाह जणओ तीसे ऽवासुदेवं महिद्धिय ।
 इहागच्छऊ कुमरो जा से कन्नं दलामह ॥ ८ ॥
 सधोसहीहिं ण्हविओ ऽकयकोउयमङ्गलो ।
 दिव्वजुयलपरिहितो ऽआभरणेहिं विभूसितो ॥ ९ ॥
 मत्त च गन्धहत्थिं ऽवासुदेवस्स जेड्डग ।
 आरूढो सोहए अहियसिरे चूडामणी जहा ॥ १० ॥
 अह ऊसिएण छत्तेण ऽचामराहि य सोहिंए ।
 दसारचक्केण य सो ऽस्सवओ परिवारिओ ॥ ११ ॥
 चउरङ्गिणीए सेनाए ऽरुयाए जहकम ।
 तुरियाण सन्निनाएण दिव्वेण ऽगगणफुसे ॥ १२ ॥
 एयारिसीए इट्ठीए ऽजुतीए उत्तमाइ ये ।
 नियगाओ भवणाओ ऽनिज्जाओ वण्हिपुङ्गवो ॥ १३ ॥
 अह सो तत्थ निज्जन्तो ऽदिस्स पाणे भयदुए ।
 वाडेहि पिअरेहि च ऽसन्निरुद्धे ऽसुदुक्खिए ॥ १४ ॥

सउज्जभावाप्रडियज्ज सजए

निषाणमग्गाविरए उवेइ ॥ २० ॥

अइइसहे।पहीणमयवे।विरएआयहिणपहाणव ।

परमट्टपएहि।विट्ठई।छिन्नसोए अममे।अकिंत्रणे ॥२१॥

विवित्तलयणाइ।भएज्ज ताई

निरोवलेवाइ।असंथडाइ ।

इसीहिं चिण्णाइ।महायसेहि

काएण फासेज्ज।परीमहाइ ॥ २२ ॥

सन्नाणनाणोवगए।महेमी अणुत्तरंभ्वरिउं धम्मसंचय ।

अणुत्तरे नाणघरे जससी।ओभासई सूरिए।वन्तल्लिक्खे २

दुविह खवेऊण य।पुण्णपावं निरुज्जे।सवओ विष्णमुक्के

तरित्ता समुह व।महाभवोघ।समुहपाले।अपुणागम गए २

॥ ति वेमि ॥

॥ समुहपालीय ॥

रहनेमिज्जं ब्राह्मिणं अभ्ययनम्

सोरियपुरमि नयरे।आसि राया महिड्डिए ।

वसुदेवो ति नामेणं।शयलक्खणसजुते ॥ १ ॥

तस्स भज्जा दुवे आसी।रोहिणी देवई तहा ।

दितासिं दोण्हं दुवे पुत्ता।इहा रामकेसवा ॥ २ ॥

सोरियपुरमि नयरे।आसी राया महिड्डिए ।

समुहविजए नामं।शयलक्खणसजुए ॥ ३ ॥

नाणेण दसणेण चात्वरित्तेण तद्देव य ।
खन्तीए मुत्तीए^ए वड्डुमाणो भवाहि य ॥ २६ ॥
एव ते रामकेसवाब्दसारा य बहू जणा ।
अरिद्धणेमि वन्दिता^अ अभिगया वारगापुरि ॥ २७ ॥
सोऊण रायकन्ना^अ पवज्ज सा जिणस्स उ ।
नीहासा य निराणन्दा^अ सोगेण उ समुत्थया ॥ २८ ॥
राईमई विचिन्तेइ^अ धिरत्थु मम जीवियं ।
जा हं तेण परिञ्चत्ता^अ सेय पवइउ मम ॥ २९ ॥
अह सा ममरसान्निभो^अ कुञ्चफणगसाहिए ।
सयमेव लुच्चई केसे^अ धिइमन्ता ववस्सिया ॥ ३० ॥
वासुदेवो य ण मणइ^अ लुत्तकेसं जिइन्दिय
संसारसागर घोरा^अ भ्तर कन्ने लहु लहु ॥ ३१ ॥
सा पवइया सन्ती^अ पवावेसी त्तिहिं वहुं ।
सयण परियण चेवा^अ सीलवन्ता बहुस्सुया ॥ ३२ ॥
गिरि सेवत्रय जन्ती^अ वासेणुळा उ अन्तरा ।
वासन्ते अन्धयारमि^अ अन्नो^अ ल्यणस्स सा ठिया ॥ ३३ ॥
चीवराइ विसारन्ति^अ जहा जायं त्ति पासिया ।
रहनेमी भग्गचित्तो^अ पच्छा दिट्ठो य तीइ वि ॥ ३४ ॥
भीया य सा त्तिहिं दड्डु^अ एगन्ते सजयं तय ।
वाहाहिं काउ सगो^अ प्पवेवमाणी निसीयई ॥ ३५ ॥
अह सो वि रायपुत्तो^अ समुदविजयङ्गओ ।
भीयं पवेइय दड्डु^अ इम^अ वक्क उदाहरे ॥ ३६ ॥

जीवियन्त तु सपत्तामसद्वा भस्त्रियवधए ।
 पासेत्ता से महापत्रेऽमारहि इणमन्ववी ॥ १५ ॥
 कस्त अद्वा इमे पाणाप्ते सन्वे सुठेसिणो ।
 वाडेहि पञ्जरेहि चऽमन्निरुद्धा य अच्छहि ॥ १६ ॥
 अह सारही तओ भणइऽएए मद्वा उ पाणिणो ।
 तुज्झ विवाहकज्जमिऽभोयावेउ नहु जणं ॥ १७ ॥
 सोऊण तस्स वयणंऽधुपाणिविणासणं ।
 चिन्तेइ से महापत्रोऽसाणुकोसो जिए हिओ ॥ १८ ॥
 जइ मज्झ कारणा एएहम्मन्ति सुवहू जिया ।
 न मे एय तु निस्सेसापरलोगे भविस्सई ॥ १९ ॥
 सो कुण्डलाण जुयल्लऽसुत्तग च महायसो ।
 आभरणाणि य सधाणिऽसारहिस्स पणामए ॥ २० ॥
 मणपरिणामे य कए देवाऽय जहोइय समोइण्णा ।
 सधेइइ सपरिसाऽनिक्खमण तस्स काउ जे ॥ २१ ॥
 देवमणुस्सपरिवुडोऽक्षीयारयणं तओ समरुद्धो ।
 निक्खमिय वारगाओऽरेवयंयमि द्विओ भगवं ॥ २२ ॥
 उज्जाणं सपत्तोऽओइण्णोऽउत्तमाउ सीयाओ ।
 साहस्सीई परिवुडोऽअहऽनिक्खमई उ चित्ताहिं ॥ २३ ॥
 अह सेऽसुगन्धगन्धिणंऽतुरियं मउकुक्षिय ।
 सयमेव लुच्चई केसेऽपञ्चमुट्ठीहि सयाहिओ ॥ २४ ॥
 वासुदेवो य ण भणइऽसुत्तकेस्स जिइन्दिय ।
 इच्छियमणोहेर तुरियाऽपावेस्स त दमीसरा ॥ २५ ॥

तीसे सो वयण मोच्चाःसजताए सुभासिय ।
 अङ्कुसेण जहा नागोःधम्मे सपडिवाइओ ॥ ४६ ॥
 मणगुत्तो वयगुत्तोःक्कायगुत्तो जिइन्दिओ ।
 सामण्ण निच्चल फासेःजावज्जीव दद्व्वओ ॥ ४७ ॥
 उग्ग तवं चरित्ताणःजायाःदोण्णि वि केवली ।
 सव्व कम्म खवित्तार्णःसिद्धिं पत्ता अणुत्तर ॥ ४८ ॥
 एवं करन्ति सबुद्धाःपण्डिया पवियक्खणा ।
 विणियट्टन्ति भोगेसुःजहा सो पुरिसोत्तमो ॥ ४९ ॥
 ॥॥त्ति वेमिः॥॥

॥ रहनेमिज्जं ॥

केशिगोयमिज्ज त्रयोविंशं अध्वयनम्

जिणे पासे त्ति नामेण अरहा लोगपूइओ ।
 संबुद्धप्पा य सव्वन्नू धम्मतित्ययेरे जिणे ॥ १ ॥
 तस्स लोगपईवस्स आसि सीसे महायसे ।
 केसी कुमारसमणे विज्जाचरणपारगे ॥ २ ॥
 ओहिनाणसुए बुद्धे सीससद्धसमाउले ।
 गामाणुगामं रीयन्ते सावत्थि पुरमागए ॥ ३ ॥
 तिन्दुय नाम उज्जाण तम्मी नगरमण्डले ।
 फासुए मिज्जसंथारे तत्थ वासमुवागए ॥ ४ ॥
 अह तेणेव कालेण धम्मतित्ययेरे जिणे ।
 वद्धमाणो त्ति सबलोगम्मि विस्सुए ॥ ५ ॥

रहनेमी अह भेडा॥मुम्ने चारुमामिणि ।
 मम भयाहि सुयणु॥न ते पीला भविस्मई ॥ ३७ ॥
 एहि ता भुञ्जिमो भोए॥माणुस्स सु सुदुल्लह ।
 भुत्तभोगी पुणो पच्छा॥प्रिणमग्ग त्रिस्समो ॥३८॥
 दट्टण रहनेमि त॥भग्गुज्जोयपराजिय ।
 राईमई असम्भन्ता॥अप्याण मवरे तहि ॥ ३९ ॥
 अह सा रायवस्कन्ना॥भुट्टिया नियमवण ।
 जाई कुल च सील च॥सक्खमाणी तय वदे ॥ ४० ॥
 जइ सि ख्वेण वेसमणो॥ल्लिएण नलक्खरो ।
 तहा वि ते न इच्छामि॥जइ सि सक्ख पुरन्दरो ॥ ४१ ॥
 पक्खन्दे जलिय जोइ॥धूमकेउं दुरासयं ।
 नेच्छन्ति वन्तय भुत्त॥कुले जाया अगन्धणे ॥४१॥
 विरत्थुं ते जसोकामी॥जो त जीवियकरण ।
 वन्त इच्छसि आवेउंसेयं ते मरणं भवे ॥ ४२ ॥
 अह च भोगरायस्स॥तं च सि अन्धगवण्हणो ।
 मा कुले गन्धणा होमो॥सजम निहुओ चर ॥ ४३ ॥
 जइ तं काहिसि भाव॥जा जा दिच्छसि नास्सिओ ।
 वायाइद्धो ष हदो॥अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ४४ ॥
 गोवालो भण्डवालो वा॥जहा तइव्वणिस्सरो ।
 एवं अणिस्सरो तं पि॥सामण्णस्स भविस्ससि ॥ ४५ ॥
 कोह माणं निगिण्हिता॥मार्यं लोभ च सव्वसो ।
 इन्दियाइ वसे क्खअ॥अप्याणं उवसेहेरे ॥ ४५ ॥ [अ]

- पलाल फासुय तत्थ पञ्चमं कुसतणाणि य ।
 गोयमस्स निसिज्जाए खिपं सपणामए ॥ १७ ॥
 केसी कुमारसमंगे गोयमे य महायसे ।
 उभओ निसण्णा सोहन्ति चन्दसूरसमप्पमा ॥ १८ ॥
 समागया बहु तत्थ पासण्हा कोउगेण य ।
 गिहत्थाण च णेगाओ साहस्सीओ समागया ॥ १९ ॥
 देवदाणवगन्धवा जेक्खरक्खसकिन्नरा ।
 अदिस्साणं च भूयाणं आसी तत्थ समागमो ॥ २० ॥
 पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयममव्ववी ।
 तओ केसिं बुवन्तं तु गोयमो इणमव्ववी ॥ २१ ॥
 पुच्छ मन्ते जहिच्छ ते केसी गोयममव्ववी ।
 तओ केसी अणुत्ताए गोयमं इणमव्ववी ॥ २२ ॥
 चाउज्जामो इमो धम्मो जो इमो पञ्चसिक्खिओ ।
 देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥
 एगकज्जपवन्नाण विसेसे किं तु कारण ।
 धम्मे दुविहे मेहावि कहं विप्पच्चओ न ते ॥ २४ ॥
 तओ केसिं बुवन्तं तु गोयमो इणमव्ववी ।
 पन्ना समिक्खिए धम्मतत्तं तत्तविणिच्चियं ॥ २५ ॥
 पुरिमा उज्जुजइ उ वद्धजइ य पच्छिमा ।
 मज्झिमा उज्जुपन्ना उ तेण धम्मे दुहा कए ॥ २६ ॥
 पुरिमाण दुविसोज्झो उ चरिमाण दुरणुपालओ ।
 कप्पो मज्झिमगाण तु सुविसोज्झो सुपालओ ॥ २७ ॥

तस लोपईस्स आनि सीमे महायसे ।
 भगव गोयमे नाम विज्जावरगपारए ॥ ६ ॥
 वारमद्गविऊ बुद्धे सीसमद्दसमाउले ।
 गामाणुगाम रीयन्ते से वि मारत्थिमागए ॥ ७ ॥
 कौट्टग नाम उज्जाणं तम्मी, नगरमण्डले ।
 फासुए मिज्जसथारे तत्थ चाममुवागए ॥ ८ ॥
 केसी कुमारसमणे गोयमे य महायसे ।
 उभओ वि तत्थ विहरिस्सु-अलीणसुसमाहिया ॥ ९ ॥
 उभओ सीससद्दहाण सजयाण तवस्सिण ।
 तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना-गुणवन्ताण ताइण ॥ १० ॥
 केरिसो वा इमो धम्मो इमो धम्मो व केरिसो ।
 आयारधम्मपणिही इमा वा सा व केरिसी ॥ ११ ॥
 चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो, पञ्चसिन्धिसओ ।
 देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ १२ ॥
 अचेत्तओ य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो ।
 एगकज्जपवन्नाण विसेसे किं नु कारणं ॥ १३ ॥
 अह ते तत्थ सीसाण विजाय पवितक्खियं ।
 समागमे क्यमई उभओ, केसिगोयमा ॥ १४ ॥
 गोयमे पडिस्वन्नू सीससद्दसमाउले ।
 जेठ्ठ कुल्लमवेक्खन्तो तिन्दुयं वणमागओ ॥ १५ ॥
 केसी कुमारसमणे गोयमं दिस्समागय ।
 पडिस्वं पडिवत्ति, सम्मं सपडिवज्जई ॥ १६ ॥

गहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
 मन्नो वि समओ मज्झ त मे कहसु गोयमा ॥ ३९ ॥
 गीमन्ति वहवे लोए पासवद्धा सरीरिणो ।
 मुक्कपासो लहुभूओ इह तं विहग्गी मुणी ॥ ४० ॥
 ते पासे सवसो छित्ता निहन्तूण उवायओ ।
 मुक्कपासो लहुभूओ विहरामि अह मुणी ॥ ४१ ॥
 गासा यु इह के वुत्ता केसी गोयममव्ववी ।
 कसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ४२ ॥
 गद्दोसादओ तिष्ठा नेहपासो भयकरो ।
 त्तिन्दित्ता जहानाय विहरामि जहक्कम्मं ॥ ४३ ॥
 गहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे नसओ इमो ।
 मन्नो वि मसओ मज्झ त मे कहसु गोयमा ॥ ४४ ॥
 मन्तोहिययसंभूया लया चिद्धइ गोयमा ।
 ग्लेइ विसमक्खाणि सा उ उद्धरिया कह ॥ ४५ ॥
 लय सवसो छित्ता उद्धरित्ता समूलिय ।
 विहरामि जहानाय मुक्को मि विसमक्खण ॥ ४६ ॥
 थ्या य इह का वुत्ता केसी गोयममव्ववी ।
 कसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ४७ ॥
 भवतण्हा लया वुत्ता भीमा भीमफलोदया ।
 मुद्धरित्तो जहानाय विहरामि जहासुह ॥ ४८ ॥
 गहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
 मन्नो वि समओ मज्झ त मे कहसु गोयमा ॥ ४९ ॥

साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे ममओ इमो ।
 अन्नो विम्मसओ मज्झं तं मे कहसु गोयमा ॥ २८ ॥
 अवेल्लो य जो धम्मो जो इमो मन्तरुत्तरो ।
 देसिओ वद्धमाणेण पामेण य महामुणी ॥ २९ ॥
 एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किं नु कारणं ।
 धम्मे दुविहे मेहावी कह विप्पच्चओ न ते ॥ ३० ॥
 केसिमेव वयन्तं तु गोयमो इणमब्बी ।
 विन्नाणेण समागम्मं धम्मसाहणमिच्छियं ॥ ३१ ॥
 पच्चयत्थं च लोकेस्स नाणाविहविगप्पणं ।
 जत्तत्थं गहणत्थं च लोके लिङ्गपओयणं ॥ ३२ ॥
 अहं भवे पइत्ता उ मोकक्सम्भूयसाहणा ।
 नाणं च दंसणं चरित्तं चैव निच्छए ॥ ३३ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो ।
 अन्नो वि संसओ मज्झं तं मे कहसु गोयमा ॥ ३४ ॥
 अणेगाणं सहस्साणं मज्झे चिट्ठसि गोयमा ।
 ते य ते अहिगच्छन्ति कहं ते निज्जिया तुमे ॥ ३५ ॥
 एगे जिए जिया पञ्च पञ्च जिए जिया दस ।
 दसहा उ जिणित्ताणं सवसत्तू जिणाप्तिहं ॥ ३६ ॥
 सत्तू य इहं के वुत्ते केत्ती गोयममब्बी ।
 केसिमेवं वयन्तं तु गोयमो इणमब्बी ॥ ३७ ॥
 एगप्य अजिए सत्तू कस्ताया इन्दियाणि य ।
 ते जिणित्ता जहानायं विहरामि अहं मुणी ॥ ३८ ॥

जे य मग्गेण गच्छन्ति जे य उम्मग्गपट्टिया ।
 ते सवे पेइया मज्झं त न नस्सामहं मुणी ॥ ६१ ॥
 मग्गे य इइ के वुत्ते केसी गोयममव्ववी ।
 केसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ॥ ६२ ॥
 कुण्वयणपासण्डी सवे उम्मग्गपट्टिया ।
 सम्मग्ग तु जिणक्खाय एस मग्गे हि उत्तमे ॥ ६३ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे समओ इमो ।
 अन्नो वि ससओ मज्झ तं मे कहसु गोयमा ॥ ६४ ॥
 महाउदगवेगेण वुज्झमाणाण पाणिण ।
 सरणं गई पइट्ठा य दीव क मन्नसी मुणी ॥ ६५ ॥
 अत्थि एगो महादीवो वारिमज्झे महालओ ।
 महाउदगवेगस्स गई तत्थ न विज्जई ॥ ६६ ॥
 दीवे य इइ के वुत्ते केसी गोयममव्ववी ।
 केसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ६७ ॥
 जरामरणगे वेगे वुज्झमाणाण पाणिण ।
 घम्मो दीवो पइट्ठा य गई सरणमुत्तम ॥ ६८ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
 अन्नो वि संसओ मज्झ तं मे कहसु गोयमा ॥ ६९ ॥
 अण्णवसि महोहसि नावा विपरिधावई ।
 जसि गोयममारुद्धो कह पार गमिस्ससि ॥ ७० ॥
 जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गामिणी ।
 जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ॥ ७१ ॥

सपञ्जलिया प्रोरा अग्गी चिद्ध गोयमा ।
 जे डहन्ति सरीरत्या कह विज्जापिया तुमे ॥ ५० ॥
 महामेहप्पसूयाओ गिज्झ वारि जलुत्तम ।
 सिञ्चामि सयय देह सित्ता नो य डहन्ति मे ॥ ५१ ॥
 अग्गी य इइ के बुत्ता केमी गोयममब्बवी ।
 केसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमब्बवी ॥ ५२ ॥
 क्कसाया अग्गिणो बुत्ता सुयसीलनवो जलं ।
 सुयधाराभिहया सन्ता भिन्ना हु न डहन्ति मे ॥ ५३ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
 अन्नो वि संसओ मज्झं त मे कहसु गोयमा ॥ ५४ ॥
 अय साहसिओ भीमो दुट्ठासो परिघावई ।
 जंसि गोयम आरुद्धो कह तेण न हीरसि ॥ ५५ ॥
 पहावन्तं निगिण्हामि सुयरस्सीसमाहियं ।
 न मे गच्छइ उम्मग्ग मग्ग च पडिवज्जई ॥ ५६ ॥
 आसे य इइ के बुत्ते केसी गोयममब्बवी ।
 केसिमेवं वयन्त तु गोयमो इणमब्बवी ॥ ५७ ॥
 मणो साहसिओ भीमो दुट्ठासो परिघावई ।
 तं सम्म तु निगिण्हामि घम्मसिक्काह कन्थगं ॥ ५८ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संसओइमो ।
 अन्नो वि ससओ मज्झं त मे कहसु गोयमा ॥ ५९ ॥
 कुप्पहा वहवो लोए जेहि नस्सन्ति जन्तुणो ।
 अडागे कह वट्टन्ते त न नस्ससि गोयमा ॥ ६० ॥

निघाण ति अत्राह ति सिद्धीलोगगमेव य ।
 खेम सिवं अणावाहं जं तरन्ति महेसिणो ॥ ८३ ॥
 त ठाणं सासयवाम लोयर्गामि दुरारुह ।
 ज सपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा मुणी ॥ ८४ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो ।
 नमो ते संसयातीत मधसुत्तमहोयही ॥ ८५ ॥
 एव तु संसए छिन्ने केसी घोरपरक्कमे ।
 अभिवन्दिता सिरसा गोयमं तु महायसं ॥ ८६ ॥
 पञ्चमहवयधम्म पडिवज्जइ भावओ ।
 पुरिमस्स पच्छिममि मग्गे तत्थ सुहावहे ॥ ८७ ॥
 केसी गोयमओ निच्चं तम्मि आसि समागमे ।
 सुयसील्लसमुक्करिसो महत्थत्थविणिच्छओ ॥ ८८ ॥
 तोसिया परिसा सवा सम्मगं समुवट्ठिया ।
 मथुया ते पसीयन्तु भयव केमिगोयमे ॥ ८९ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥

॥ केमिगोयमिज्ज ॥

समिर्इओ चतुर्विंशं अण्ययनम्

अट्ठ पवयणमायाओ समिर्इ गुत्ती तहेव य ।
 पञ्चैव समिर्इओ तओ गुत्तीओ आहिया ॥ १ ॥
 इरियाभासेसणादाणे उच्चारे समिर्इ इय ।
 मणगुत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती य अट्ठमा ॥ २ ॥

नावा य इह का वुत्ता केमी गोयममव्ववी ।
 केसिमेव वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ७२ ॥
 सरीरमाहु नाप त्ति जीवे वुव्वइ नापिओ ।
 समारो अण्णवो वुत्तो ज तरन्ति महेमिणो ॥ ७३ ॥
 माहु गोयम पत्ता ते छिन्नो मे ममओ इमो ।
 अन्नो वि मसओ मज्झ त मे कहमु गोयमा ॥ ७४ ॥
 अन्धयारे तमोघोरे वहु चिद्धन्ति पाणिणो ।
 को करिस्सइ उज्जोय सव्वलोगमि पाणिण ॥ ७५ ॥
 उग्गओ विमलो भाणू सव्वलोयपमकरो ।
 सो करिस्सइ उज्जोय सव्वलोयमि पाणिण ॥ ७६ ॥
 भाणू य इह के वुत्ते केसी गोयममव्ववी ।
 केसिमेवं वयन्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥ ७७ ॥
 उमाओ खीणससारो सव्वन्नू जिण भक्खरो ।
 सो करिस्सइ उज्जोय सव्वलोयमि पाणिण ॥ ७८ ॥
 साहु गोयम पत्ता ते छिन्नो मे ससओ इमो ।
 अन्नो वि ससओ मज्झ त मे कहसु गोयमा ॥ ७९ ॥
 सारीरमागसे दुक्खे वज्झमाणाण पाणिणं ।
 खेमं सिवमणावाह वग किं मन्नसी सुणी ॥ ८० ॥
 अत्थि एगं वुत्तद्वाग लोक्कमि दुरारुह ।
 जत्थ नत्थि जरा मच्चू वेयगा वाहिणो तहा ॥ ८१ ॥
 ठणे य इह के वुत्ते केसी गोयममव्ववी ।
 केसिमेव वयन्त तु गोयमा इणमव्ववी ॥ ८२ ॥

चखुसा पडिलेहिता पाज्जेज्ज जयं जई ।

आइए निखिखवेज्जा वा दुहओ वी समिए सया ॥१४॥

उच्चार पासवण खेल सिद्धाणज छियं ।

आहार उवहि देहं अन्न वावि तइविह ॥ १५ ॥

अणावायमसलोए अणोवाए चेत्र होइ सलोए ।

आवायमसलोए आवाए चेत्र सलोए ॥ १६ ॥

अणावायमसलोए परस्स पुवघाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि अचिरकालक्यमि य ॥ १७ ॥

वित्थिण्णे दूरमोगाढे नासन्ने विलवज्जिए ।

तसपाणवीयरहिए उच्चाराईणि वोसिरे ॥ १८ ॥

एयाओ पच्च समिईओ समासेण विर्याहिया ।

एत्तो तओ य गुत्तीओ वोच्छामि अणुपुषसो ॥ १९ ॥

सच्चा तहेव मोसा य सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य मणगुत्तीओ चउषिहा ॥ २० ॥

सरम्मसमारम्मे आरम्मे य तहेव य ।

मण पवत्तमाण तु नियत्तेज्ज जय जई ॥ २१ ॥

सच्चा तहेव मोसा य सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य वइगुत्ती चउषिहा ॥ २२ ॥

सरम्मसमारम्मे आरम्मे य तहेव य ।

वय पवत्तमाण तु नियत्तेज्ज जय जई ॥ २३ ॥

अणे निसीयणे चेत्र तहेव य तुयट्टणे ।

उल्लङ्घणपल्लङ्घण इन्दियाण य जुञ्जणे ॥ २४ ॥

एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।
 दुवालसङ्गजिणक्खाय माय जत्थ उ पवयण ॥ ३ ॥
 आलम्बणेण कालेण मग्गेण जयणाय ॥ ४ ॥
 चउकारणपरिसुद्ध सजए इरिय रिए ॥ ४ ॥
 तत्थ आलम्बणं नाण दसण चरणं तहा ।
 काले य दिवसे वुत्ते मग्गे उप्पहवज्जिए ॥ ५ ॥
 दवओ खेत्तओ चेव कालओ भावओ तहा ।
 जायणा चउविहा वुत्ता त मे कित्तयओ सुण ॥ ६ ॥
 दवओ चक्खुसा पेहे जुगमित्तं च, खित्तओ ।
 कालओ जाव रीइज्जा उवउत्ते य भावओ ॥ ७ ॥
 इन्दियत्ये विवज्जित्ता सज्जायं चेव पञ्चहा ।
 तम्मुत्ती तप्पुरकारे उवउत्ते रिय रिए ॥ ८ ॥
 कोहे माणे य मायाए लोमे य उवउत्तया ।
 हासे मए मोहरिए विकहासु तद्देव च ॥ ९ ॥
 एयाइ अट्ट ठणाइ परिवज्जित्तु संजए ।
 असावज्जं मिय काले भासं, भासिज्ज पन्नव ॥ १० ॥
 गवेसणाए गहणे य परिभोगेसणा य जा ।
 आहारोवहिसेज्जाए एए तिन्नि वि सोहए ॥ ११ ॥
 उग्गमुप्पायणं पढमे वीए सोहेज्ज एसण ।
 परिमोर्यमि चउक्क विमोहेज्ज जय जई ॥ १२ ॥
 ओहोवहोवग्गहिय भण्ह तु दुविह मुणी ।
 गिण्हन्तो निक्खिन्तो वा पउजेज्ज इमं विहिं ॥ १३ ॥

जे वेयविऊ विष्णा जन्नडा य जिहन्दिया ।
 जोइसङ्गविऊ जे य जन्नधम्मस्स पारगा ॥ ७ ॥
 जे समत्था समुद्धत्तु परमप्पाणमेव य ।
 तेसिं अन्नमिण देयं भो भिक्खु सवकामिय ॥ ८ ॥
 सो तत्थ एव पडिसिद्धो जायगेण महामुणी ।
 न वि रुट्ठो नवि तुट्ठो उत्तमद्दगवेसओ ॥ ९ ॥
 नन्नद्व पाणहेउ वा नवि निघाहणाय वा ।
 तसिं विमोक्खनट्ठाए इण वयणमच्चवी ॥ १० ॥
 नवि जाणसि वेयमुह नवि जन्नाण ज मुह ।
 नक्खत्ताण मुह ज च ज च धम्माण वा मुह ॥ ११ ॥
 जे समत्था समुद्धत्तु परमप्पाणमेव य ।
 न ते तुम वियाणासि अह जाणासि तो भण ॥ १२ ॥
 तस्सक्खेवपमोक्खं तु अवयन्तो तहिं दिओ ।
 अपरिसो पञ्जली होउ पुच्छई त महामुणिं ॥ १३ ॥
 वेयाण च मुह वूहि वूहि जन्नाण ज मुह ।
 नक्खत्ताण मुहं वूहि ज च धम्माण वा मुह ॥ १४ ॥
 जे समत्था समुद्धत्तु परमप्पाणमेव य ।
 एय मे ससय सव साहू कहसु पुच्छिओ ॥ १५ ॥
 अग्गिहोत्तमुहा वेया जन्नट्ठी वेयसा मुहं ।
 नक्खत्ताण मुह चन्दो धम्माण कासवो मुह ॥ १६ ॥
 जहा चन्द गहाईया चिद्धन्ती पञ्जलीउडा ।
 चन्दमाणा नमसन्ता उत्तम मणहारिणो ॥ १७ ॥

सरम्मसमारम्भे आरम्भे य तद्देव य ।
 काय पवत्तगाण तु नियत्तेज्ज जय जई ॥ २५ ॥
 एयाओ पव समिईओ चरगस्म य पवत्तणे ।
 गुत्ती नियत्तणे बुत्ता असुभत्थेसु सवमो ॥ २६ ॥
 एसा पवयणमाया जे मम्म आयरे मुणी ।
 से खिप्पं सवससारा विप्पमुच्चइ पण्हिए ॥ २७ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥
 ॥ समिईओ ॥

जन्मइत्थ पञ्चविंशं अध्ययनम्

माहणकुल्लसंमूओ आसि विप्पो महायमो ।
 जायाई जमजन्मि जयघोसे त्ति नामओ ॥ १ ॥
 इन्दियग्गामनिग्गाही मग्गगामी महामुणी ।
 गामाणुग्गामं रोयन्तो पत्तो वाणारसिं पुरि ॥ २ ॥
 वाणारसीए वहिया उज्जाणंमि मणोरमे ।
 फासुए सेज्जसंयारे तत्थ वासमुवागए ॥ ३ ॥
 अह तेणेव कालेण पुरीए तत्थ माहणे ।
 विजयघोसे त्ति नामेण जन्म जयइ वेयवी ॥ ४ ॥
 अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणे ।
 विजयघोसस्स जन्मि भिक्खट्ठा उववट्ठिए ॥ ५ ॥
 समुवट्ठिय तहि सन्त जायगो पडिसेहए ।
 न ह्नु दाहामि ते भिक्खं भिक्खू जायाहि अन्नओ ॥

जहिता पुषसजोग नातिसङ्गे य बन्धवे ।
 जो न सज्जइ भोगेसु तं वयं बूम माहण ॥ २९ ॥
 पसुयन्था सधवेया य जइ च पावकम्मणा ।
 न तं तायन्ति दुस्सील कम्माणि वल्वन्तिह ॥ ३० ॥
 नवि मुण्हिएण समणो ओंकारेण न वम्मणो ।
 न मुणी रण्णवासेण कुसचीरेण तावसो ॥ ३१ ॥
 समयाए समणो होइ वम्मचेरेण वम्मणो ।
 नाणेण उ मुणी होइ तवेण होइ तावसो ॥ ३२ ॥
 कम्मणा वम्मणो होइ कम्मणा होइ खत्तिओ ।
 वइसो कम्मणा होइ सुदो हवइ कम्मणा ॥ ३३ ॥
 एए पउकरे बुद्धे जेहि होइ सिणायओ ।
 सधकम्मविनिम्मुक्कं तं वयं बूम माहणं ॥ ३४ ॥
 एवं गुणसमाउत्ता जे भवन्ति दिउत्तमा ।
 ते समत्या उ उद्धत्तुं परमप्पाणमेव य ॥ ३५ ॥
 एवं तु संसए छिन्ने विजयघोसे य माहणे ।
 समुदाय तयं त तु जयघोस महामुणिं ॥ ३६ ॥
 बुद्धे य विजयघोसे इणमुदाहु क्यञ्जली ।
 माहणत्त जहाभूय सुट्ठु मे उवदंसिय ॥ ३७ ॥
 तुव्मे जइया जन्नाण तुव्मे वेयविऊ-विऊ ।
 जोइसङ्गविऊ तुव्मे तुव्मे धम्माण पारगा ॥ ३८ ॥
 तुव्मे समत्या उद्धत्तुं परमप्पाणमेव य ।
 तमणुग्गह करेइह्म भिक्खेण भिक्खु उत्तमा ॥ ३९ ॥

अजाणगा जत्रवाइ विज्जामाहणमपया ।
 गूढा सज्जायतवसा भामच्छन्ना इग्गिणो ॥ १८ ॥
 जो लोए नम्भणो वुत्तो अग्गी व महिओ जहा ।
 सया कुसलसदिट्ठ त वय वूम माहण ॥ १९ ॥
 जो न सज्जइ आगन्तु पव्वयन्तो न सोयई ।
 रमइ अज्जवयणमि त वय वूम माहण ॥ २० ॥
 जायख्व जहा मिट्ठ निज्जन्तमलपायग ।
 रागदोसभयाईय त वय वूम माहण ॥ २१ ॥
 तवस्सिय किस दन्त अवचियमससोणिय ।
 सुवय पत्तनिघाण त वय वूम माहण ॥ २२ ॥
 तसपाणे वियाणेत्ता सगहेण य थावरे ।
 जो न हिंसइ तिविहेण त वय वूम माहण ॥ २३ ॥
 कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।
 मुस न वयई जो उ त वय वूम माहण ॥ २४ ॥
 चित्तमन्तमचित्तं वा अप्प वा जइ वा वहुं ।
 न गिण्हइ अदत्त जे तं वय वूम माहणं ॥ २५ ॥
 दिवमाणुसतेरिच्छ जो न सेवइ मेहुणं ।
 मणसा कायवक्केण तं वय वूम माहण ॥ २६ ॥
 जहा पोम जले जाय नोवलिण्णइ वारिणा ।
 एव अलित्तं कामेहि तं वयं वूम माहणं ॥ २७ ॥
 आलोल्लुय मुहाजीवी अणगार अकिञ्चन ।
 अससत्त गिहत्येसु तं वयं वूम माहणं ॥ २८ ॥

अब्भुट्ठाण च नवम दसमा उवसंपदा ।

एसा दसङ्गा साहूण सामायरी पवेइया ॥ ४ ॥

गमणे आवस्सिय कुज्जा टाणे कुज्ज निसीहिय ।

आपुच्छणा मयकरणे परकरणे पडिपुच्छणा ॥ ५ ॥

उन्दणा दवजाएण इच्छाकारो य सारणे ।

मिच्छाकारो य निन्दाए तहकारो पडिस्सुए ॥ ६ ॥

अब्भुट्ठाण गुरुपूया अच्छणे उवसंपदा ।

एव दुपञ्चसजुत्ता सामायारी पवेदिता ॥ ७ ॥

पुषिलमि चउव्माए आइच्चमि समुट्ठिए ।

मण्हय पडिलेहिता वन्दिता य गुरु तओ ॥ ८ ॥

पुच्छिज्ज पञ्जलिउडो किं कायव्व मए इह ।

इच्छ निओइउं भन्ते वेयावव्वे व सज्जाए ॥ ९ ॥

वेयावव्वे निउत्तेण कायव्वं अगिलायओ ।

सज्जाए वा निउत्तेण सव्वदुक्खविमोक्खणे ॥ १० ॥

दिवसस्स चउरो भागे भिक्खू कुज्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुज्जा दिणभागेसु चउसु वि ॥ ११ ॥

पढम पोरिसि सज्जाय वीय द्वाण झियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं पुणो चउत्थीइ सज्जाय ॥ १२ ॥

आसाढे मासे दुपया पोसे मासे चउप्पया ।

चित्तासोएसु मासेसु तिप्पया हवइ पोरिमी ॥ १३ ॥

अङ्गुल सत्तरत्तेण पक्खेणं च दुअङ्गुल ।

वड्डए हायए वावि मासेण चउरङ्गुल ॥ १४ ॥

न कज्ज मज्ज भिक्खेण विष्प निक्खममू दया ।
 मा भादिहिमि भयावट्टे घोरे ममारमागरे ॥ ८० ॥
 उवलेवो होइ भोगेसु अभोगी नोत्रलिप्पई ।
 भोगी भमइ ससारे अभोगी विष्पमुच्चई ॥ ८१ ॥
 उल्लो सुक्को य दो लूद्ध गोलया मट्टियामया ।
 दो वि आवडिया कुट्टे जो उल्लो सो त्य लग्गई ॥ ८२ ॥
 एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा ।
 विरत्ता उ न लग्गन्ति जहा से सुक्कगोलए ॥ ८३ ॥
 एव से विजयघोसे जयघोसस्स अन्तिए ।
 अणगारस्स निक्खन्तो घम्म सोच्चा अणुत्तरं ॥ ८४ ॥
 स्ववित्ता पुषकम्माइ संजमेण तवेण य ।
 जयघोस-विजयघोसा सिद्धिं पत्ता अणुत्तर ॥ ८५ ॥
 ॥ ति वेमि ॥

॥ जन्नइज्ज ॥

सामायारी पइर्विंशतितमं अध्ययनम्
 सामायारि पवक्खामि सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।
 ज चरित्ताण निग्गन्था तिण्णा ससास्सागर ॥ १ ॥
 पढमा आवस्मिया नाम विइया य निसीहिया ।
 आपुच्छणा य तइया चउत्थी पडिपुच्छणा ॥ २ ॥
 पञ्चमा छन्दणा नाम इच्छकारो य छट्ठओ ।
 सत्तमो मिच्छकारो उ तहकारो य अट्ठमो ॥ ३ ॥

आरमडा सम्महा वज्जेयवा य मोसला तइया ।
 पफोडणे चउत्थी विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥ २६ ॥
 पसिदिलपलम्बलोला एगा मोसा अणेगस्वधुणा ।
 कुणइ पमाणिपमायं सङ्खियगणणोवग कुज्जा ॥ २७ ॥
 अणूणाइरित्तपडिलेहा अविवच्चासा तहेव य ।
 पढमं पयं पसत्यं सेसाणि य अप्पसत्याणि ॥ २८ ॥
 पडिलेहणं कुणन्तो मिहोकह कुणइ जणवयकह वा ।
 देइ व पच्चक्खाण वाएइ सयं पडिच्छइ वा ॥ २९ ॥
 पुढवी-आउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।
 पडिलेहणापमत्तो छण्ह पि विराइओ होइ ॥ ३० ॥
 पुढवी-आउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।
 पडिलेहणाआउत्तो छण्हं सरक्खओ होइ ॥ ३१ ॥
 तइयाए पोरिसीए भत्तं पाण गवेसए ।
 छण्हं अन्नयराए कारणमि उवट्ठिए ॥ ३२ ॥
 वेयण^१-वेयावच्चे^२ इरियट्ठाए^३ य संजमट्ठाए^४ ।
 तह पाणवत्तियाए^५ छट्ठ पुण धम्मचिन्ताए^६ ॥ ३३ ॥
 निगगन्थो धिइमन्तो निगगन्थी वि न करेज्ज छहि चेव ।
 थाणेहि उ इमेहि अणतिकम्मणाइ से होइ ॥ ३४ ॥
 आयंङ्के उवसग्गे तित्तिक्खया वम्भचेरगुत्तीसु ।
 पाणिदया तवहेउ सरीरवोच्छेयणट्ठाए ॥ ३५ ॥
 अवसेस भण्हग गिज्झ चक्खुसा पडिलेहए ।
 परमद्धजोयणाओ विहारं विहरे मुणी ॥ ३६ ॥

आसाढ्वहुलरफ्ले भद्वए कृत्तिण य पोसे य ।
 फग्गुगवाइसाहेसु य नोद्धवा ओमरत्ताओ ॥ १५ ॥
 जेड्डामूले आसाढ्मात्रणे उहि अङ्गुलेहि पडिलेहा ।
 अड्डहि वीयतयमि तइए दस अड्डहिं चउत्थे ॥ १६ ॥
 रत्तिं पि चउरो भागे कुज्जा भिक्खू वियक्खणो ।
 तओ उत्तरगुणे कुज्जा राइभाएसु चउसु वि ॥ १७ ॥
 पढम पोरिसि सज्झाय वितिय द्वाण झियायई ।
 तइयाए निदमोक्ख तु चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं ॥ १८ ॥
 जं नेइ जया रत्तिं नक्खत्त तमि नमचउम्भाए ।
 सपत्ते विरमेज्जा सज्झाय पओसक्खलम्मि ॥ १९ ॥
 तम्मेव य नक्खत्ते गयणचउम्भागसावसेसमि ।
 वेरत्तियं पि काल पडिलेहित्ता मुणी कुज्जा ॥ २० ॥
 पुषिलंमि चउम्भाए पडिलेहित्ताण भण्डयं ।
 गुरु वन्दित्तु सज्झायं कुज्जा दुक्खविमोक्खणं ॥ २१ ॥
 पोरिसीए चउम्भाए वन्दिताण तओ गुरु ।
 अपडिक्कमित्ता कालस्स भायणं पडिलेहए ॥ २२ ॥
 मुहपत्तिं पडिलेहित्ता पडिलेहिज्ज गोच्छ्रं ।
 गोच्छ्रगलइयमुलिओ वत्याइं पडिलेहए ॥ २३ ॥
 उट्ठं यिरं अत्तरियं पुष ता वत्यमेव पडिलेहे ।
 तो विइय पण्णोडे तइयं च पुणो पमज्जिज्ज ॥ २४ ॥
 अणच्चावियं अवलिय अणाणुवन्धिममोसलिं ।
 छप्पुरिमा नव खोडा पाणीपाणिविसोहण ॥ २५ ॥

राइय च अईयार चिन्तिज्ज अणुपुवसो ।
 नाणमि दसणमि य चरित्तमि तवमि य ॥ ४८ ॥
 पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 राइय तु अतीचार आलोएज्ज जहक्कम ॥ ४९ ॥
 पडिक्कमितु निस्सल्लो वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 काउस्सग्ग तओ कुज्जा सवदुक्खविमोक्खण ॥ ५० ॥
 किं तवं पडिवज्जामि एवं तत्थ विचिन्तए ।
 काउस्सग्ग तु पारित्ता वन्दई य तओ गुरु ॥ ५१ ॥
 पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुरुं ।
 तव तु पडिवज्जेज्जा करिज्ज सिद्धाण संथव ॥ ५२ ॥
 एसा सामायारी समासेण वियाहिया ।
 ज चरित्ता वहू जीवा तिण्णा संसारसागर ॥ ५३ ॥
 ॥ ति वेमि ॥

॥ सामायारी ॥

खलुङ्किज्ज सप्तविंशतितम अण्ययनम्

थेरे गणहरे गग्गे मुणी आसि विसारए ।
 आइण्णे गणभावम्मि समाहि पडिसधए ॥ १ ॥
 वहणे वहमाणस्म कन्तार अइवत्तई ।
 जोगे वहमाणस्म ससार अइवत्तई ॥ २ ॥
 खलुङ्के जो उ जोएइ विहम्माणो किलिस्सई ।
 असमाहि च वेएइ तोत्तओ से य भज्जई ॥ ३ ॥

चउत्थीए पोरिसीए निक्खित्ताण भायण ।
 सज्जाय तओ कुज्जा सव्वभाप्रविभावण ॥ ३७ ॥
 पोरिसीए चउव्भाए वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 पडिक्कमित्ता कालस्स सेज्ज तु पडिलेहए ॥ ३८ ॥
 पासवणुच्चारभूमिं च पडिलेहिज्ज जय जई ।
 काउस्सग्ग तओ कुज्जा सव्वदुक्खविमोक्खण ॥ ३९ ॥
 देवसिय च अतीचार चिन्तिज्जा अणुपुषसो ।
 नाणमि दसणे चेव चरित्तम्मि तहेव य ॥ ४० ॥
 पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 देसिय तु अतीचार आलोएज्ज जहक्कम ॥ ४१ ॥
 पडिक्कमित्तु निस्सल्लो वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 काउस्सग्ग तओ कुज्जा सव्वदुक्खविमोक्खण ॥ ४२ ॥
 पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुरु ।
 थुइमङ्गलं च काऊण काल संपडिलेहए ॥ ४३ ॥
 पढमं पोरिसि सज्जायं वितियं झाणं झियायई ।
 तइयाए निइमोक्खं तु सज्जायं तु चउत्थिए ॥ ४४ ॥
 पोरिसीए चउत्थीए कालं तु पडिलेहए ।
 सज्जाय तु तओ कुज्जा अबोहन्तो असंजए ॥ ४५ ॥
 पोरिसीए चउव्भाए वन्दिऊण तओ गुरु ।
 पडिक्कमित्तु कालस्स काल तु पडिलेहए ॥ ४६ ॥
 आगए कायवोस्सग्गे सव्वदुक्खविमोक्खणे ।
 काउस्सग्गं तओ कुज्जा सव्वदुक्खविमोक्खण ॥ ४७ ॥

अह सारही विचिन्तेइ खलुद्धेहिं समागओ ।
 किं मज्झ दुट्ठसीसेहि अप्पा मे अवसीयई ॥ १५ ॥
 जारिसा मम सीसाओ तारिसा गलिगइहा ।
 गलिगइहे जहित्ताण दढ पगिण्हई तव ॥ १६ ॥
 मिदुमइवसंपन्नो गम्भीरो सुसमाहिओ ।
 विहरइ महि महप्पा सीलभूएण अप्पणा ॥ १७ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥ ।

॥ खलुद्धिज्ज ॥

मोक्षमार्ग अष्टाविंशतितमं अध्ययनम्

मोक्षमार्गइ तच्च सुणेह जिणभासिय ।
 उकारणमजुत्तान्नाणदसणलक्षण ॥ १ ॥
 ण च दसण चेव चरित्तं च तवो तहा ।
 स मग्गो त्ति पन्नत्तो जिणेहिं वरदस्मिदि ॥ २ ॥
 ण च दसण चेव चरित्तं च तवा तहा ।
 यमग्गमणुप्यत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥ ३ ॥
 त्य पञ्चविह नाण सुय आमिनिवोहिय ।
 मोहिनाणं तु तइय मणुनाण च केवल ॥ ४ ॥
 य पञ्चविहं नाण दद्याण य गुणाण य ।
 ज्जवाण य सव्वेसिं न्नाण नाणीहि दसिय ॥ ५ ॥
 गुणाणमासओ दव्व एगदव्वस्सिया गुणा ।
 अस्सण पज्जवाण तु उमओ अस्सिया भवे ॥ ६ ॥

एग डसइ पुच्छमि एग विन्धइ भिक्खण ।
 एगो भञ्जइ समिल एगो उण्हपट्टिओ ॥ ४ ॥
 एगो पडइ पासेण निवेसइ निज्जई ।
 उक्कुवइ उण्हडइ सढे वालगवी वए ॥ ५ ॥
 माई मुद्धेण पडइ कुद्धे गच्छे पडिण्ह ।
 मयलक्खेण चिद्धई य वेगेण य पहावई ॥ ६ ॥
 छिन्नाले छिन्दइ सेलिं दुहन्तो भञ्जए जुग ।
 से वि य सुस्सुयाइत्ता उज्जहिता पलायए ॥ ७ ॥
 खलुक्का जारिसा जोज्जा दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
 जोइया घम्मजाणम्मि भज्जन्ती धिइदुव्वला ॥ ८ ॥
 इह्ठीगारविए एगे एगे त्य रसगारवे ।
 सायागारविए एगे एगे सुचिरकोहणे ॥ ९ ॥
 भिक्खालसिए एगे एगे ओमाणमीरुए ।
 थद्धे एग च अणुसासम्मी हेज्जहि कारणेहि य ॥ १० ॥
 सो वि अन्तरभासिल्लो दोसमेव पकुवई ।
 आयरियाणं तु वयण पडिक्खेइ अभिक्खणं ॥ ११ ॥
 न सा ममं वियाणाइ न य सा मज्झ दाहिई ।
 निग्गया होहिई मन्ने साहू अन्नो त्य वच्चउ ॥ १२ ॥
 पेसिया पलिउंचन्ति ते परियन्ति समन्तओ ।
 रायवेट्ठि च मन्नन्ता करेन्ति भिउडि मुहे ॥ १३ ॥
 वाइया सगहिया चैव मत्तपाणेण पोसिया ।
 जायपक्खा जहा हसा पक्कमन्ति दिमो दिसिं ॥ १४ ॥

जो जिणदिहे भावे॥चउधिहे सहधाइ सयमेव ।
 एमेव नन्नह त्तिय॥सनिंसगंरुइ॥त्ति नायवो ॥ १८ ॥
 एए चेव उ भावे॥उवइहे॥जो॥परेण॥सहधई ।
 छउमत्थेण जिणेण वा॥उवएंसरुइ॥त्ति॥नायवो ॥ १९ ॥
 रागो दोसो मोहो अन्नाण॥जस्स अवगय होइ ।
 आणाए रोयन्तो सो॥खलु आणारुई नाम ॥ २० ॥
 जो सुत्तमहिज्जन्तो॥सुएण॥ओगाहई उ सम्मत्त ।
 अङ्गेण वाहिरेण व सो॥सुत्तरुइ त्ति नायवो ॥ २१ ॥
 एणेण अणेगाइ पयाणि॥जो पसरई उ सम्मत्त ।
 उदए व तेलुविन्दू॥सो॥वीयरुइ त्ति नायवो ॥ २२ ॥
 सो होइ॥अभिगमरुइ॥सुयनाण॥जेण॥अत्यओ॥दिइ ।
 एकारस अङ्गाइ॥पइण्णगा॥दिइवाओ य ॥ २३ ॥
 द्वाण॥भसवभावा॥भसवपमाणेहि॥जस्स॥उवलद्धा ।
 मवाहि नयविहीहि॥वित्थाररुइ त्ति॥नायवो ॥ २४ ॥
 दसणनाणचरित्ते॥त्तवविणए॥सव्वसमिइगुत्तीसु ।
 जो किरियाभावरुई॥सो॥खलु॥किरियारुई नाम ॥ २५ ॥
 अणभिग्गहियकुदिइही॥भसखेवरुइ॥त्ति॥होइ नायवो ।
 अविसारओ पवयणे॥अणभिग्गहिओ॥य सेमेसु ॥२६॥
 जो अत्थिकायधम्मा॥सुयधम्मा॥खलु॥चरित्तधम्म च॥ ।
 सहइ जिणामिहिय मो॥धम्मरुइत्ति॥नायवो॥ ॥ २७ ॥
 परमत्थमथवो वा॥सुदिइपरमत्थसेवण॥वा॥वि । —
 वावन्नकुदसणवज्जणा य॥सम्मत्तसइहणा ॥ २८ ॥

धम्मो अहम्मो आगासः फालो पुग्गल-जन्तवे ।
 एस लोगो त्ति पन्नत्तो जिणेहि वरं दसिहि ॥ ७ ॥
 धम्मो अहम्मो आगासः द्व्व इक्किक्कं माहिय ।
 अणन्ताणि य दवाणि कालो पुग्गल-जन्तवे ॥ ८ ॥
 गहलक्खणो उ धम्मो अहम्मो ठणलक्खणो ।
 भायण सर्वदवाणा न्ह ओगाहलक्खण ॥ ९ ॥
 वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवओगलक्खणो ।
 नाणेण दसणेण चा सुहेण य दुहेण य ॥ १० ॥
 नाण च दसण चेक्क चरित्त च तवो तहा ।
 वीरिय उवओगो या एय जीवस्स लक्खण ॥ ११ ॥
 सहन्धयार-उज्जोओ प्रहा छाया तवे इ वा ।
 वण्णोरसगन्धफासा पुग्गलाण तु लक्खणं ॥ १२ ॥
 एगत्त च पुहत्त चा म्भखा सठणमेव य ।
 सजोगा य विभागा य पज्जवाणं तु लक्खण ॥ १३ ॥
 जीवाजीवा य बन्धो य पुण्णं पावासवो तहा ।
 सवरो निज्जरा मोकखो म्भन्तेए तहिया नव ॥ १४ ॥
 तहियाणं तु भावाणं सन्भावे उवएसण ।
 भावेण सदहन्तंस्मा सम्मत्त त वियाहिय ॥ १५ ॥
 निसग्गुवएसरुई आणरुई सुत्तं वीयरुई मेव ।
 अभिगम वित्थाररुई किरिया म्भस्वेव धम्मरुई ॥ १६ ॥
 भूयत्थेणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
 सहमंमुइयासवंसवरो यारोएइ उ निस्सग्गो ॥ १७ ॥

महावीरेण॥कासवेण॥पवेइयः॥ज सम्म॥सद्वहिता॥पत्तइ-
 ता॥रोयइत्ता॥फासित्ता॥पालइत्ता॥तीरित्ता॥कित्तइत्ता॥सो-
 दइत्ता॥आराहित्ता॥आणाए॥अणुपालइत्ता॥बहवे॥जीवा॥सि-
 ज्जन्ति॥बुज्जन्ति॥मुच्चन्ति॥परिनिव्वायन्ति॥सव्वदुक्खा-॥
 णमन्त॥करेन्ति॥॥तस्स ण॥अयमट्ठे॥एवमाहिज्जेइ॥ त
 जहा॥ सवेगे ११, निव्वेए १२, धम्मसद्ध १३, गुत्साहम्मि-
 यसुरसूसणया १४, अलोयणया १५, निन्दणया १६, गर-
 हणया १७, सामाइए १८, चउव्वीसत्थए १९, वन्दणे १०, १
 पडिक्कमणे ११, काउरसग्गे १२, पच्चक्खाणे १३, थयथुई-
 मङ्गले १४, कालपडिलेहणया १५, पायच्छित्तकरणे १६, १
 स्वभावयणे १७, सज्झाए १८, वायणया १९, पडिपुच्छ-
 णया २०, पडियट्टणया २१, अणुप्पेहा २२, धम्मकहा
 २३, सुत्तरस आराहणया २४, एगग्गमणसनिवेसणया
 २५, सजमे २६, तवे २७, वोदाणे २८, सुहसाए २९, १
 अप्पडिवद्धया ३०, विचित्तसयणासणसेवणया ३१, वि-
 णियट्टणया ३२, समोगपच्चक्खाणे ३३, उवहिपच्चक्खाणे
 ३४, आहारपच्चक्खाणे ३५, कसायपच्चक्खाणे ३६, जो-
 गपच्चक्खाणे ३७, सरीरपच्चक्खाणे ३८, सहायपच्चक्खा-
 णे ३९, भत्तपच्चक्खाणे ४०, सव्वभावपच्चक्खाणे ४१, १
 पडिरूवणया ४२, वेयावच्चे ४३, सव्वगुणसपुण्णया ४४, १
 वीयरगया ४५, खन्ती ४६, मुत्ती ४७, महव्वे ४८, १
 अज्जवे ४९, भावमच्चे ५०, करणसच्चे ५१, जोगसच्चे

नत्थि चरित्त सम्मत्तविहण।दुसणे उ भइयव्व ।
 सम्मत्तचरित्ताइ।जुगव।पुव्व।च।सम्मत्त ॥ २९ ॥
 नादमणिस्स।नाण।नाणेण।विणा।न।हुन्ति।चरणगुणा
 अगुणिस्स नत्थि मोक्खो।नत्थि अमोक्खस्स।निज्जाणं।३०
 निस्सद्धिय।निकद्धिय।निव्वितिगिच्छ।अमूढदिट्ठी य
 उव्वूह।थिरीकरणे।वच्छल्ल।पभावणे।अट्ट ॥ ३१ ॥
 सामाइयत्थ पढमा।छेओवट्ठावण।भवे वीयं ।
 परिहारविसुद्धीय।सुहुमा।तहा।सपरायं च ॥ ३२ ॥
 अकसाय-अहक्खाय।उउमत्थस्स।जिणस्स वा ।
 एय चयरित्तकर।चारित्त।होइ।आहिय ॥ ३३ ॥
 तवो य दुविहो वुत्तो।वाहिरव्वन्तरो तहा ।
 वाहिरो छव्विहो वुत्तो।एमेवव्वन्तरो तवो ॥ ३४ ॥
 नाणेण जाणई भावे।दंसणेण य सहहे ।
 चरित्तेण य गिण्हाइ।तवेण परिसुज्झई ॥ ३५ ॥
 खवेत्ता पुव्वरुम्माइ।सजमेण तवेण य ।
 सव्वदुक्खपहीणट्ठा।मकमन्ति।महेसिणो ॥ ३६ ॥
 ग।त्ति वेमि ॥
 ॥ मुक्खमग्गगई ॥

सम्मत्तपरकमे एकोनत्रिंश अव्ययनम् ।

सुय मे आउसं तेण।मगयया एवमक्खाय ॥ ३६ ॥ इ
 खल्लु।सम्मत्तपरकमे।नाम।अज्झयणे।समणेण।

ममच्छाए णमायासोक्खेसु। रज्जमाणे। वरज्जइ। आ-
 गारवम्म च ण चयइ। अणगारिए ण जीवे। सारीरमा-
 णमाग। दुक्खाण। छेयणमेयणमंजोगार्इणं। वोच्छेय करेइ
 अन्वावाह चा। म्हुह निव्वत्तेइ। ॥३॥

गुरुसाहम्मियसुस्सूमणाए ण भन्ते जीवे कि ज-
 णयइ ? गुरुसाहम्मियसुस्सूमणाए ण विणयपडिवत्ति ज-
 णयइ। विणयपडिवत्ते य ण जीवे। अणुच्चासायणसीले
 नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ। निरुम्भइ,
 वणणसजलणमत्तिउहुमाणयाए। मणुस्सदेवगईओ निव-
 न्इ सिद्धि सोग्गइ च विसोहेइ। पसत्थाइ च ण विणय-
 मूलाइ सव्वकज्जाइ। माहेइ। अन्ने य वहवे जीवे विणि-
 इत्ता भवइ ॥ ४ ॥

५ आलोयणाए णं भन्ते जीवे कि जणयइ ?
 आलोयणाए णं मायानियाणमिच्छादरिसणसल्लाण मो-
 क्खमग्गविग्घाण। अणन्तससारवन्धणाण। उद्धरण करेइ,
 उज्जुभाव च जणयइ। उज्जुभापडिवत्ते। य ण जीवे
 अमाई इत्थीवेयनपुसगवेर्यं च। न वन्धइ। पुव्ववट्ठ च ण
 निज्जरेइ ॥ ५ ॥

६ निन्दणयाए ण भन्ते जीवे कि जणयइ ? नि-
 न्दणयाए णं पच्छागुताव जणयइ। पच्छाणुतावेणं विरज्ज-
 माणे ऋणगुणत्तेहि पडिवज्जइ। ऋणगुणसेढीपडिवत्ते य
 ण अणगार मोह्मिउत्त कम्म उग्घारइ ॥ ६ ॥

॥५२॥ मणगुत्तया ॥५३॥ वयगुत्तया ॥५४॥ कायगुत्तया ॥
 मणसमाधारणया ॥५६॥ वयसमाधारणया ॥५७॥ कायसमा
 धारणया ॥५८॥ नाणसपन्नया ॥५९॥ दमणसपन्नया ॥६०॥
 चरित्तसपन्नया ॥६१॥ साईन्दर्यानिग्गहे ॥६२॥ च
 यनिग्गहे ॥६३॥ प्राणिन्दियनिग्गहे ॥६४॥ जिन्धि
 निग्गहे ॥६५॥ फासिन्दियनिग्गहे ॥६६॥ कोहविजए ॥६७॥
 माणविजए ॥६८॥ मायाविजए ॥६९॥ लोहविजए ॥७०॥
 पेज्जदोसमिच्छादसणविजए ॥७१॥ सेलेसी ॥७२॥
 म्मया ॥७३॥

संवेगेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ संवेगेण अणु
 उत्तरधम्मसत्ता जणयइ ॥ अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेग ह
 व्वमागच्छइ ॥ अणन्ताणुवन्धिकोहमाणमायालोमे ॥ स्ववे
 कम्म न वन्धइ ॥ तप्पच्चइय च ण ॥ मिच्छत्तविसोहि काऊ
 दसणाराहए ॥ भवइ ॥ दंसणविसुद्धाए ॥ ण ॥ अत्येगई ॥ ते
 भवग्गहणेण ॥ सिज्जई ॥ सोहीए य ॥ ण ॥ विसुद्धाए ॥
 पुणो भवग्गहण नाइक्कमइ ॥ १ ॥

५२ ॥ निव्वेदेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ १ ॥ निव्वे
 ण दिव्वमाणुमतेरिच्छिएसु ॥ काममोगेसु ॥ निव्वेय ॥ ह
 मागच्छइ ॥ तव्वविमएसु विरज्जइ ॥ सन्वविमएसु ॥ विर
 ज्जमाणे आरम्भपरिचय करेइ ॥ आरम्भपरिचय करेमा
 णे समारमग्ग ॥ वोच्छिन्दइ ॥ सिद्धिमग्गपडिवन्ने भवइ ॥ २ ॥

१३ ॥ धम्मसद्धाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ १ ॥ ५

मसद्धाए ण भन्तायासोक्खेसु। रज्जमाणे।। वरज्जइ।। आ-
 गारम्म च ण चयइ।। अणगारिए ण जीवे।। सारीरमा-
 णमाग।। दुस्खाणा।। छेयणभेयणमंजोगाईणा।। वोच्छेय करेइ
 अजावाहं चा।। मुह निव्वनेइ।। ३।।

गुरुसाहम्मियसुस्सुसणाए ण भन्ते जीवे कि ज-
 णयइ ? गुरुसाहम्मियसुस्सुसणाए ण विणयपडिवत्ति ज-
 णयइ।। विणयपडिवत्ते य ण जीवे।। अणुच्चासायणसीले
 नेइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ।। निरुम्भइ,
 वण्णसजलणमत्तिवहुमाणयाए।। मणुस्सदेवगईओ निव-
 न्पइ सिद्धि।। सोग्गइ च विसोद्वेइ।। पसत्थाइ च ण विणय-
 मूलाइ सव्वकज्जाइ।। माद्वेइ।। अन्ने य वहेवे जीवे विणि-
 हत्ता भवइ ॥ ४ ॥

५ आलोयणाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
 आलोयणाए ण मायानियाणमिच्छादरिसणसल्लाण मो-
 खमग्गविग्घाण।। अणन्तससारवन्धणाण।। उद्धरण करेइ,
 उज्जुभाव च जणयइ।। उज्जुभावपडिवत्ते।। य ण जीवे
 अमाई इत्थीवेयनपुसगवेयं च।। न क्वइ।। पुव्ववद्ध च ण
 निज्जरेइ ॥ ५ ॥

६ निन्दणयाए ण भन्ते। जीवे कि जणयइ ? नि-
 न्दणयाए ण पच्छागुताव जगयइ।। पच्छाणुतावेगं विरज्ज-
 माणे ऋणगुणसेट्ठि पडिवज्जइ।। ऋणगुणसेट्ठीपडिवत्ते य
 ण अणगाउं मोहमिज्ज कम्म उग्घाएइ ॥ ६ ॥

७ गरहणयाए णाः भन्ते जीवे किं जणयइ ।

गरहणयाए अपुरेकार जणयइ । अपुरेकारगए ण जीवे
अप्पसत्येहितो । जोगेहितो । नियत्तेइ । पसत्ये य पत्ति
ज्जइ । पसत्यजोगपडिवन्ने य ण अणगारे . . .
वे खवेइ ॥ ७ ॥

८ सामाइएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? सामा
इएण सावज्जजोगविर्द्धं । जणयइ ॥ ८ ॥

९ चउधीसत्यएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? च^२ दं
सणविसोद्धिं । जणयइ ॥ ९ ॥

१० वन्दणएणं भन्ते जीवे किं जणयइ ? व^० नी
यागोय कम्म खवेइ । उचागोय कम्म निबन्धइ ।
च णं । अपडिहय आणाफलं निवत्तेइ । दाहिणभावं च
जणयइ ॥ १० ॥

११ पडिक्कमणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? प^०
छिदाणि पिहेइ । पिहियच्छिदे पुण जीवे । निरुद्धासवे
सक्कलचरित्ते । अट्टसु पवयणमायासु । उवउत्ते अपुहत्ते सु
प्पणिहिणं । विहरइ ॥ ११ ॥

१२ काउस्सग्गेणं भन्ते जीवे किं जणयइ ? का^०
तीयपडुप्पन्नपायच्छित्तं विमोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य
जीवे । निवृत्तयहियए । ओहरियमरो ष भारवहे । पसत्यज्जा
णोवगए सुह सुहेणं निहरइ ॥ १२ ॥

१३ पत्रकखाणेणं भन्ते जीवे किं जणयइ ? प^० आ

सवदाराइं निरुम्भइ, पच्चक्खाणेण इच्छानिरोह जणयइ,
इच्छानिरोह गए य ण जीवे सवदब्बेसु विणीयतण्हे सी-
यलभूए विहरइ ॥ १३ ॥

१४ थयथुइमङ्गलेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? थं
नाणदसणचरित्तवोहिलामं जणयइ, नाणदसणचरित्तवो-
हिलामसपन्ने य णं जीवे अन्तकिरिय, कप्पविमाणोवव-
त्तिगं, आराहण आराहेइ ॥ १४ ॥

१५ कालपडिलेहणयाए णं भन्ते जीवे किं जण-
यइ ? कां, नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ ॥ १५ ॥

१६ पायच्छित्तकरणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? पां
पावविसोहिं जणयइ, निरइयारे वावि भवइ, सम्म च णं
पायच्छित्तं, पडिवज्जमाणे, मग्गं च, मग्गफलं च विसो-
हेइ, आयाफलं च आराहेइ ॥ १६ ॥

१७ खमावणयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? खं
पल्हायणभाव जणयइ, पल्हायणभावमुवगए य, सवपाण-
भूयजीवसत्तेसु मेत्तीभावमुप्पाएइ, मेत्तीभावमुवगए या-
वि जीवे भावविसोहि काऊण निब्भए भवइ ॥ १७ ॥

१८ सज्जाएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? सं
नाणावरणिज्जं, कम्म खवेइ ॥ १८ ॥

१९ वायणाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? वां
निज्जर जणयइ, सुयस्स य अणासायणाए वट्टए, सुयस्स
अणामायणाए वट्टमाणे, तित्थधम्मं अवलम्बइ, तित्थध-

म्म अवलम्बमाणे महानिज्जरे, भवमहापज्जवमाने म
वइ ॥ १९ ॥

२० पडिपुत्तणयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
प^२ सुत्तत्थतदुमयाइ ॥ विमोद्वेइ ॥ क्लामोहणिज्ज ॥ कम्म
वोच्छिन्दइ ॥ २० ॥

२१ परियट्टणाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? प
वज्जणाइ जणयइ ॥ वज्जणलद्धिं चाउप्पाएइ ॥ २१ ॥

२२ अणुप्पेहाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? अ
आउयवज्जाओ ॥ सत्तकम्मप्पगडीओ ॥ धणियवन्धणवद्धाओ ॥
सिदिलवन्धणवद्धाओ पकरेइ ॥ दीहकालद्विइयाओ ॥ ह
स्सकालद्विइयाओ पकरेइ ॥ तिष्ठाणुभावाओ ॥ भन्दाणुमा
वाओ पकरेइ ॥ बहुपएसग्गाओ ॥ अप्पएसग्गाओ ॥ पक
रेइ ॥ आउय च ण ॥ कम्म सिया वन्धइ ॥ सिया नो वन्धइ
असायावेयणिज्ज च ण ॥ कम्म नो भुज्जो ॥ मुज्जो उव
चिणाइ ॥ अणाइय च ण अणवदग्ग दीहमद्ध चाउर
ससारकन्तार खिप्पामेव वीइवयइ ॥ २२ ॥

२३ धम्मकहाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? ध
निज्जर जणयइ ॥ धम्मकहाए ण पवयण पभावेइ ॥ पवय
णपभावेण जीवे आगमेसस्स भइत्ताए कम्मं निव
न्धइ ॥ २३ ॥

२४ सुयस्स आराहणयाए ण भन्ते जीवे किं
जणयइ ? सु अन्नाण खवेइ ॥ म्म य सफिलिस्सइ ॥ २४ ॥

२५ एगग्गमणमनिवेसणयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? ए° चित्तनिरोहं करेइ ॥ २५ ॥ च्युत्ति

२६ सजमएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? स° अणु-
ण्हयत्तं जणयइ ॥ २६ ॥

२७ तवेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? तवेण वोदाणं
जणयइ ॥ २७ ॥

२८ वोदाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? वो° अकिरि-
यं जणयइ ; अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा मिज्झइ
वुज्झइ मुच्चइ परिनिघायइ ; सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ ॥ २८ ॥

२९ सुहसाएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? सु° अणु-
स्सुयत्तं जणयइ ; अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकम्पए अ-
णुव्वभट्ठे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ ॥ २९ ॥

३० अप्पडिपद्धयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
अ° निस्सङ्गत्तं जणयइ ; निस्सङ्गत्तेण जीवे एगे एगग्गचित्ते
दिया य। राओ य असज्जमाणे ॥ अप्पडिपद्धे ॥ यावि
विहरइ ॥ ३० ॥

३१ विवित्तमयणामणयाए ण भन्ते जीवे किं ज-
णयइ ? वि° चरित्तगुत्तिं जणयइ, चरित्तगुत्ते य ण जीवे
विवित्ताहारे दट्ठचरित्ते एगन्नरए मोक्खभावपडिवन्ने अ-
ट्ठविहकम्मगण्ठिं निज्जरेइ ॥ ३१ ॥

३२ विनियट्ठयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? वि°
पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्ठेइ, पुष्ववद्धाणं य निज्ज-

रणयाए त नियत्तेइ, तओ पच्छ चाउरन्तं ससारक्न्ता
रं वीइवयइ ॥ ३२ ॥

३३ समोगपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ? सं^०
आलम्बणाइ खवेइ, निरालम्बणस्स य आयतट्टिया योगा
भवन्ति, सएण लामेण सतुस्सइ, परलाम नो आसादेइ,
परलाम नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिल
सइ, परलामं अणस्सायमाणे अतक्केमाणे अपीहमाणे
अपत्थेमाणे अणभिलसमाणे दुच्चं सुहसेज्ज उवसप-
ज्जित्ता ण विहरइ ॥ ३३ ॥

३४ उवहीपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? उ^०
अपलिमन्थं जणयइ, निरुवहिए णं जीवे निक्कळ्ही उवहि-
मन्तरेण य न संकिलिस्सई ॥ ३४ ॥

३५ आहारपच्चक्खाणेणं भन्ते जीवे कि जणयइ ? आ^०
जीवियाससप्पओग वोच्छिन्दइ, जीवियासंसप्पओगवो
च्छिन्दित्ता जीवे आहारमन्तरेण न संकिलिस्सइ ॥ ३५ ॥

३६ कसायपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ?
क^० वीयरागभाव जणयइ, वीतरागभावपडिवन्ने वि य णं
जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ ३६ ॥

३७ जोगपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे कि जणयइ ?
जो अजोगत्त जणयइ, अजोगी ण जीवे नव कम्म न
वन्थइ पुष्पल निज्जरेइ ॥ ३७ ॥

३८ सरीरपञ्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? स^०
सिद्धातिसयगुणकित्तण निवत्तेइ, सिद्धातिसयगुणसपन्ने
य ण जीवे लोगगमुवगए परमसुही भवइ ॥ ३८ ॥

३९ सहायपञ्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? स^०
एगीभाव जणयइ, एगीभावभूए वि य णं जीवे एगगं
भावेमाणे अप्पझञ्जे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्पतु-
तुमे सजमवहुले सवरवहुले समाहिए यावि भवइ ॥ ३९ ॥

४० भत्तपञ्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? म^०
अणेगाइ वसयाइ निरुम्भइ ॥ ४० ॥

४१ सम्भावपञ्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? स^०
अनियट्ठि जणयइ, अनियट्ठिपडिवन्ने य अणगारे च-
त्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, त जहा वेयणिज्ज आउय
नाम गोय, तओ पच्छा सवहुक्खाणमन्त करेइ ॥ ४१ ॥

४२ पडिख्वयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? प^०
लाघविय जणयइ, लघुभूए ण जीवे अप्पमत्ते पागडलिङ्गे
पमत्थलिङ्गे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिडमत्ते सवपाणभू-
पजीवसत्तेसु वांससणिज्जख्वे अप्पडिलेहे जिइन्दिए
विउलनयममिडमनागए यावि भवइ ॥ ४२ ॥

४३ वेयावच्चेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? वे^० तित्थ-
परनामगोत्त कम्म निवन्धइ ॥ ४३ ॥

४४ सव्वगुणमपन्नयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
म^० अपुणरावत्तिं जणयइ, अपुणरावत्ति पत्तए य ण जीवे

रणयाए त नियत्तेइ, तओ पच्छ चाउरन्तं संसारकन्ता
र वीइवयइ ॥ ३२ ॥

३३ समोगपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? सं
आलम्बणाइ खवेइ, निरालम्बणस्स य आयतट्ठिया योगा
भवन्ति, सएणं लामेण सतुस्सइ, परलाम नो आसादेइ,
परलामं नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्येइ, नो अभिल
सइ, परलामं अणस्सायमाणे अतक्केमाणे अपीहमाणे
अपत्येमाणे अणभिलसमाणे दुच्च सुहसेज्ज उवसप-
ज्जित्ता ण विहरइ ॥ ३३ ॥

३४ उवहीपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? उ
अपलिमन्यं जणयइ, निरुवहिए ण जीवे निक्कही उवहि-
मन्तरेण य न सकिलिस्सई ॥ ३४ ॥

३५ आहारपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? आ
जीवियाममप्पओग वोन्दिन्दइ, जीवियाममप्पओगवो
न्दिन्दिता जीवे आहारमन्तरेण न सकिलिस्सइ ॥ ३५ ॥

३६ इमायपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
इ^० गीयगमाय जणयइ वीतगगमायपडिपत्ते पि य ण
जीवे ममसुहसुत्ते भरइ ॥ ३६ ॥

३७ जोगपच्चक्खाणेण भन्त जीवे किं जणयइ ?
जो अजोगत्त जणयइ अजोगी ण जीवे नय इम्म न
यन्त पुनरइ निज्जयेइ ॥ ३७ ॥

५१ करणसञ्चेण भन्ते जीवे किं जणयइ, ? कं
करणसत्तिं जणयइ करणसञ्चे विट्टमाणे जीवे जहा वाई
तहा कारीयावि भवइ ॥ ५१ ॥

५२ जोगसञ्चेण भन्ते जीवे किं जणयइ ? जों
जोगं विसोहेइ ॥ ५२ ॥

५३ मणगुत्तयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ? मं
जीवे एगग जणइ, एगगचित्ते ण जीवे मणगुत्ते सं-
जमाराहए भवइ ॥ ५३ ॥

५४ वयगुत्तयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? वं
निधियारत्त जणयइ, निधियारे णं जीवे वइगुत्ते अज्झ-
पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ॥ ५४ ॥

५५ कायगुत्तयाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ ?
कां सवर जणयइ, संवरेण कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोह
करेइ ॥ ५५ ॥

५६ मणसमाहारणयाए ण भन्ते जीवे किं जण-
यइ ? मं एगग जणयइ, एगग जणइत्ता नाणपज्जवे
जणयइ, नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्त विसोहेइ मिच्छत्तं
च निज्जरेइ ॥ ५६ ॥

५७ वयममाहारणयाए भन्ते जीवे किं जणयइ ?
वं वयमाहारेणदंसणपज्जवे विसोहेइ, वयसाहारणदसण-
पज्जवे विमोहिता सुलहवोहियत्तं निवत्तेइ, दुल्लहवो-
हियत्तं निज्जरेइ ॥ ५७ ॥

सारीरमाणसाण दुक्खाणं नो भागी भवइ ॥ ४४ ॥

४५ वीयरागयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? वी^०
नेहाणुबन्धणाणि तण्हाणुबन्धणाणि य वोच्छिन्दइ, मनु
नामणुत्तेसु सह-फरिस-ख्व-गन्धेसु चेव विरज्जइ ॥४५॥

४६ खन्तीए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? ख^०
परीसहे जिणइ ॥ ४६ ॥

४७ मुत्तीए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? मु^०
अकिचण जणयइ, अकिचणे य जीवे अत्यलोलाण
अपत्यणिज्जो भवइ ॥ ४७ ॥

४८ अज्जवयाए ण भन्ते जीवे कि जणयइ ? अ^०
काउज्जुयय भावुज्जुयय भासुज्जुयय अविस्वायण ज
णयइ, अविमंवायणमपन्नयाए ण जीवे धम्मस्स आ
राहए भवइ ॥ ४८ ॥

४९ मद्दवयाए ण भन्ते जीवे कि जणयइ ? म^०
अगुम्मियत्त जगयइ, अगुम्मियत्तेण जीवे मिउमद्दवम
पन्ने अद्द मयट्ठाणाड निट्ठायेइ ॥ ४९ ॥

५० भावमयेण भन्ते जीवे कि जणयइ ? भा^०
भावमिओहिं जणयइ, भावमिओहीण वट्ठमाणे जीवे
अग्दन्तपन्नतम्म धम्मम्म आगहणयाण अच्चुट्ठेइ,
अग्दन्तपन्नतम्म धम्मम्म आगहणयाण अच्चुट्ठिता
दग्गोपधम्मन्म आगहण भवइ ॥ ५० ॥

६३ चक्खिन्दियनिग्गहेण भन्ते जीवे किं जणयइ ?

च° मणुत्तामणुत्तेसु रूवेसु रागदोसनिग्गह जणयइ, तप्पच्चइय कम्म न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६३ ॥

६४ घाणिन्दियनिग्गहेण भन्ते जीवे किं जणयइ ?

घा° मणुत्तामणुत्तेसु गन्धेसु रागदोसनिग्गह जणयइ, तप्पच्चइय कम्म न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६४ ॥

६५ जिष्मिन्दियनिग्गहेण भन्ते जीवे किं जण-

यइ ? जि° मणुत्तामणुत्तेसु रसेसु रागदोमनिग्गह जणयइ, तप्पच्चइय कम्म न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६५ ॥

६६ फासिन्दियनिग्गहेण भन्ते जीवे किं जणयइ ?

फा° मणुत्तामणुत्तेसु फासेसु रागदोसनिग्गह जणयइ, तप्पच्चइय कम्म न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६६ ॥

६७ कोहविजएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? को°

तन्ति जणयइ, कोहवेयणिज्ज कम्मं न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६७ ॥

६८ माणविजएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? मा°

वव जणयइ, माणवेयणिज्ज कम्मं न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६८ ॥

६९ मायाविजएणं भन्ते जीवे किं जणयइ ? मा°

ज्जव जणयइ, मायावेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुष्ववद्ध च निज्जरेइ ॥ ६९ ॥

५८ कायसमाहारणयाए ण भन्ते जीवे किं ज
 का° चरित्तपज्जवे विसोद्देइ चरित्तपज्जवे विसो
 अहक्खायचरित्तं विसोद्देइ, अहक्खायचरित्तं वि
 ता चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तओ पञ्च सि
 बुज्झइ मुच्चइ परिनिवायइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ

५९ नाणसपन्नयाए ण भन्ते जीवे किं
 ना जीवे सद्वभावाहिगमं जणयइ, नाणसपन्ने ण
 चाउरन्ते संसारकन्तारे न विणस्सइ, जहा सुई स
 न विणस्सइ तथा जीवे ससुत्ते ससारे न विणस्सइ
 विणयतवचरित्तजोगे सपाउणइ ससमयपरममयवि
 य असघायणिज्जे भवइ ॥ ५९ ॥

६० दमणसपन्नयाए ण भन्ते जीवे किं जण
 द° भवमिच्छत्तछेयण करेइ, पर न विज्जायइ, अणु
 नाणदमणेण अण्णाण सजोएमाणे मम्म भावेमाणे
 हरइ ॥ ६० ॥

६१ चरित्तमपन्नयाए ण भन्ते जीवे किं जण
 च° मेलेसीभाव जणयइ, मेलेमिं पडिण्णे य अण
 चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तओ पञ्चा सिज्झ
 ज्जइ मुच्चइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ ॥ ६१ ॥

६२ मोटन्टियनिग्गहेण भन्ते जीवे किं जण
 मो° मणुन्नामणुन्नेसु महेसु गगन्तोमनिग्गट्ट जण
 नयमइय रम्म न फण्ड पुववट्टं च निज्जरेइ ॥ ६२ ॥

गोतं च, एण चत्तारि कम्मसे जुगवं खवेइ ॥ ७२ ॥

७३ तओ ओरालियकम्माइ सवार्हि विप्पजहणाहिं
विप्पजहिता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुसमाणगई उट्टु एगसमएण
अविग्गहेण तत्थ गन्ना सागारोवउत्ते सिज्झइ वुज्झइ
जाव अन्तं करेइ ॥ ७३ ॥

एम खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे स-
मणेण भगवया महावीरेण आघविए पन्नविए परुविए
दसिए उवदंसिए ॥ त्ति वेमि ॥

॥ सम्मत्तपरक्कमे ॥

तत्रमग्न त्रिंशं अध्ययनम्

जहा उ पावगं कम्मं रागदोससमज्जिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू तमेगगमणो सुण ॥ १ ॥

पाणवहमुसावायांअदत्तमेहुणपरिग्गहो विरओ ।

राईभोयणविरओ जीवो होइ अणासवो ॥ २ ॥

पञ्चसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइन्दिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥

एएसिं तु विवच्चासे रागदोससमज्जिय ।

जहा य खवई भिक्खू त मे एगमणो सुण ॥ ४ ॥

जहा महातलायस्म सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिञ्चणाए तवणाए इमेण गोमणा भवे ॥ ५ ॥

एव तु सजयम्सावि पापकम्मनिगमन ।

७० लोभविजएण भन्ते जीवे कि जणयइ ? लो सतोस
जणयइ, लोभवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुक्खवड
च निज्जरेइ ॥ ७० ॥

७१ पिज्जदोसमिच्छादसणविजएण भन्ते जीवे कि
जणयइ ? पि^० नाणदसणचरित्तराहणयाए अब्भुट्ठेइ अ
ट्ठविहस्सं कम्मस्स कम्मगण्ठिविमोयणयाए तप्पढमया
ए जहाणुपुष्पीए अट्ठवीसविह मोहणिज्ज कम्म उग्घ
एइ, पञ्चविह नाणावरणिज्ज नवविह दसणावरणिज्जं
पञ्चविह अन्तराइय, एए तिन्नि वि कम्मसे जुगव ख्वेइ
तओ पच्छा अणुत्तर कसिण पडिपुण्ण निरावरण वि
तिमिर विमुत्त लोगालोगप्पभाव केवल्लवरनाणदमण
यमुण्णाडेइ, जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहिय क
म्म निबन्धइ सुहफरिम दुसमयट्ठिय, तं पम्मसमए क्ख
विइयसमए वेइय तइयसमए निज्जिण्णं, त वट्ठ पुट्ठ
उदीगिय वेइय निज्जिण्ण मेयाले य अकम्म चावि
भव ॥ ७१ ॥

७२ अह आउय पालइत्ता अन्तोमुहत्तद्रावमेमा
ण जोगनिगेह ररेमाणे मुहमकिरिय अप्पडिवाइ मुक्क
ज्जाण धायमाणे तप्पम्मयाण मणजोग निरुग्घइ, वड
चोग निरुग्घइ आणपाणनिगेहं ररेट्ठ, ईमि पन्नरहम्म
सयरचाण्णद्राण य णं अणगारे ममुच्छिन्नकिरिय अ
नियट्ठिसुक्कज्जाण धियायमाणे वेयणिज्जं आउय नामं

गोत्तं च, एण चत्तारि कम्मसे जुगव खवेइ ॥ ७२ ॥

७३ तओ ओरालियकम्माइ सवाहिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहित्ता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुममाणगई उट्ट एगसमएण
अविग्गहेण 'तत्थ गन्ती' सागारोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ
जाव अन्तं करेइ ॥ ७३ ॥

एम खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे स-
मणेण भगवया महावीरेण आघविए पन्नविए परुविए
दसिए उवदंसिए ॥ त्ति वेमि ॥

॥ सम्मत्तपरक्कमे ॥

तवमग्गं त्रिंश अध्ययनम्

जहा उ पावग'कम्म रागदोससमज्जिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू तमेगंगमणो सुण ॥ १ ॥

पाणवहमुसावीयाअदत्तमेहुणपरिग्गहो विरओ ।

राईभोयणविरओ जीवो होइ अणासवो ॥ २ ॥

पञ्चसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइन्दिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥

एएसिं तु विवच्चासे रागदोससमज्जिय ।

जहा य खवेइ भिक्खू त मे एगमणो सुण ॥ ४ ॥

जहा महातलायस्म मन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिञ्चणाए तवणाए इमेण रोमणा भवे ॥ ५ ॥

एव तु सजयम्मावि पावकम्मनिगमव ।

गोर्त्तं च, एणं चत्तारि कम्मसे जुगव खवेइ ॥ ७२ ॥

७३ तओ ओरालियकम्माइ सघाहिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहिता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुसमाणगई उट्ठु एंगसमएणं
अविग्गहेण तत्थ गन्तां मागारोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ
जाव अन्तं करेइ ॥ ७३ ॥

एम खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे स-
मणेण भगवया महावीरेण आघविए पन्नविए परूविए
दसिए उवदंसिए ॥ त्ति वेमि ॥

॥ सम्मत्तपरक्कमे ॥

तवमग्न त्रिंश अध्ययनम्

जहा उ पावग'कम्मं रागदोससमज्जिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू तमेगग्गमणो सुण ॥ १ ॥

पाणवहमुसावायाअदत्तमेहुणपरिग्गहो विरओ ।

राईमोयणविरओ जीवो होइ अणासवो ॥ २ ॥

पञ्चसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइन्दिओ ।

अगारवो य निस्संल्लो जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥

एएसि तु विवच्चासे रागदोससमज्जिय ।

जहा य खवई भिक्खू त मे गग्गमणो सुण ॥ ४ ॥

जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिञ्चणाए तवणाए दमेण गोमणा भवे ॥ ५ ॥

एव तु सजयम्मावि पावइम्मानिगभव ।

७० लोभविजएण भन्ते जीवे किं जणयइ ? लो सतोस
जणयइ, लोभवेयणिज्ज कम्म न बन्धइ पुष्वक्ख
च निज्जरेइ ॥ ७० ॥

७१ पिज्जदोसमिच्छादसणविजएण भन्ते जीवे कि
जणयइ ? पि^२ नाणदसणचरित्ताराहणयाए अब्भुट्ठेइ अ
ट्ठविहस्सं कम्मस्स कम्मगण्ठिविमोयणयाए तप्पढमया
ए जहाणुपुट्ठीए अट्ठवीसविह मोहणिज्ज कम्म उग्घा
एइ, पञ्चविह नाणावरणिज्ज नवविह दसणावरणिज्ज
पञ्चविह अन्तराइय, एए तिन्नि वि कम्मसे जुगव ख्वेइ
तओ पच्छा अणुत्तर कसिण पडिपुण्णं निरावरण वि
तिमिग्ग विमुत्त लोगालोगप्पभाव केवल्लवरनाणदसण
यमुण्णाडेइ जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहिय क
म्म निबन्धइ सुहफग्गि दुममयट्ठिइय, तं पअमसमए ब्रह्म
विइयसमाग्ग वेइय तइयसमाग्ग निज्जिण्ण त ब्रह्म पुट्ठ
उदीग्गिय वेइय निज्जिण्ण मेयाले य अक्कम्म चावि
नेव ॥ ७१ ॥

७२ अह आउय पालइत्ता अन्तोमुहुत्तट्ठावसेमा
ग नोगनिगेहं रग्गमाणे सुहमसिग्गिय अण्णडिवाइ सुक्क
त्त्याग्ग द्धापमाणे तप्पअयाग्ग मणजोग निग्गमट्ठ. बइ
नोग निग्गमट्ठ आणपागनिगेहं रग्गट्ठ. इमि पअग्गम्म
स्सग्गयाग्गट्ठाग्ग य णं आग्गार ममुच्छिन्नसिग्गिय अ
निपट्ठिसुक्कत्ताग्ग शिपायमाणे यपणिग्गं आउयं नामं

गोत्त च, एण चत्तारि कम्मसे जुगव खवेइ ॥ ७२ ॥

७३ तओ ओरालियकम्माइ सवार्हिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहिंत्ता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुममाणगई उट्ठं एगसमएणं
अविग्गहेण तत्थ भन्ता भागारोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ
जाव अन्तं करेइ ॥ ७३ ॥

एस खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे स-
मणेण भगवया महावीरेणं आघविए पन्नविए परुविए
दसिए उवदंसिए ॥ त्ति वेमि ॥

॥ सम्मत्तपरक्कमे ॥

तथमग त्रिंश अध्ययनम्

जहा उ पावग'कम्मं रागदोससमज्जिय ।
खवेइ तवसा भिक्खू तमेगग्गमणो'सुण ॥ १ ॥
पाणवहमुसावीयाअदत्तमेहुणपरिग्गहां विरओ ।
राईभोयणविरओ जीवो होइ अणासवो ॥ २ ॥
पञ्चसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइन्दिओ ।
अगारवो य निस्सँल्लो जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥
एएसिं तु विवच्चासे रागदोससमज्जिय ।
जहा य खवई भिक्खू त मे एगमणो सुण ॥ ४ ॥
जहा महातलायस्म सन्निरुद्धे जलागमे ।
उस्मिञ्चनाए तवणाए रुमेण गोमणा भवे ॥ ५ ॥
एव तु सजयम्मापि पावक्कम्मनिरामव ।



गोत्तं च, एण चत्तारि कम्मसे जुगवं खवेइ ॥ ७२ ॥

७३ तओ ओरालियकम्माइ सवाहिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहिता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुममाणगई उट्ठ एंगसमएणं
अविग्गहेण तत्थ गन्ता सागारोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ
जाव अन्तं करेइ ॥ ७३ ॥

एस खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज्झयणस्स अट्ठे स-
मणेण भगवया महावीरेण आघविए पन्नविए परूविए
दसिए उवदंसिए ॥ त्ति वेमि ॥

॥ सम्मत्तपरक्कमे ॥

तथमगं त्रिंशं अभ्ययनम्

जहा उ पावग'कम्मं रागदोससमज्जिय ।
खवेइ तवसा भिक्खू' तमेगंगमणो' सुण ॥ १ ॥
पाणवहमुसावायाअदत्तमेहुणपरिग्गहो विरओ ।
रईभोयणविरओ जीवो होइ अणासवो ॥ २ ॥
पञ्चसमिओ तिगुत्तो अक्खाओ जिह्ण्दिओ ।
अगाखो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥
एएसि तु विवच्चासे रागदोससमज्जिय ।
जहा य खवई भिक्खू त मे एगमणो सुण ॥ ४ ॥
जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।
उस्सिञ्चणाए तवणाए इमेण रोमणा भवे ॥ ५ ॥
एव तु सजयम्मापि पावक्कम्मनिगमव ।

१) योगिजगत्तं भवेत्तीति जगत्तं १२१ मंत्रानं
 जगत्तं योगिजगत्तं कर्म न कर्मत्तं पुनरु
 १ निज्जगत्तं ॥ १७० ॥

२) पिञ्जयोगिजगत्तं मन्त्रानं भन्तं जगत्तं
 जगत्तं १ पि० नाणत्तं मन्त्रानं मन्त्रानं अन्तुष्टे अ
 द्दिहन्तं मन्त्रानं मन्त्रानं मन्त्रानं मन्त्रानं मन्त्रानं
 १ नदणुपुगी १ अद्वीमन्त्रं मोलपिञ्जं मन्त्रं उन्ना
 १६ पन्त्रिह नाणत्तं मन्त्रानं मन्त्रानं मन्त्रानं मन्त्रानं
 पन्त्रिह अन्तगद्य ११ निनि वि मन्त्रानं जुगत्तं मन्त्रं
 तओ पन्त्रा अणुत्तं मन्त्रानं पन्त्रिह निगत्तं वि
 निमिह मन्त्रानं लोपालो गणभात्र केवल्यन्नाणत्तं मन्त्र
 मन्त्रानं ३ जात्र मजोगी भन्त्रं, तात्र इगियावहिय क
 म्म निवन्धत्तं मुहफग्नि दुममयत्तं, तं पन्त्रमन्त्रं वत्त
 म्त्रिह मन्त्रानं वेह्य तद्वयमन्त्रं निज्जिण्णं, तं वत्त पुत्त
 उत्तीरिय वेह्य निज्जिण्णं सेयाले य अक्म चवि
 मन्त्रं ॥ १७१ ॥

७२ अह आउय पालइत्ता अन्तोमुहुत्तद्धावसेमा
 ए जोगनिरोह करेमाणे सुहूमकिरिय अप्पडिवाइ सुक्क
 ज्झाणं क्षायमाणे तप्पठ्ठमयाए मणजोग निरुम्भइ, वइ-
 जोग निरुम्भइ, आणपाणनिरोह करेइ, ईसि पञ्चरहस्स-
 क्खरुच्चारणद्वाए य णं अणगारे समुच्छिन्नकिरिय अ
 नियट्टिसुक्कज्झाणं क्षियायमाणे वेयणिज्जं आउय नाम

थलिसेणाखन्धारे सत्ये संवट्टकोट्टे य ॥ १७ ॥
 वाडेसु व रच्छामु व घरेसु वा एवमित्थिय खेत्तं ।
 कप्पइ उ एवमाई एव खेत्तेण ऊ भवे ॥ १८ ॥
 पेहा य अद्धपेहा गोमुत्तिपयङ्गवीहिया चेव ।
 सम्बुक्कावट्टाययगन्तुंपच्चागया छट्ठा ॥ १९ ॥
 दिवसस्स पोरुसीण चउण्ह पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एव चरमाणो खलु कालोमाण मुणेयव्व ॥ २० ॥
 अहवा तइयाए पोरिसीए ऊणाइ घासमेसन्तो ।
 चउभागूणाए वा एव कालेण ऊ भवे ॥ २१ ॥
 इत्थी वा पुस्सिओ वा अलक्खिओ वा नलक्खिओ वा वि ।
 अन्नयस्वयत्थो वा अन्नयरेणं व वत्थेण ॥ २२ ॥
 अन्नेण विसेसेणं वण्णेण भावमणुमुयन्ते उ ।
 एव चरमाणो खलु भावोमाणं मुणेयव्व ॥ २३ ॥
 दधे खेत्ते काले भावम्मि य आहिया उ जे भावा ।
 एएहि ओमचरओ पज्जवचरओ भवे भिक्खू ॥ २४ ॥
 अट्टविहगोयरग्ग तु तहा सत्तेव एसणा ।
 अभिग्गहा य जे अत्ते भिक्खायस्सिमाहिया ॥ २५ ॥
 खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयणं ।
 परिवज्जण रमाण तु भणिय रमविवज्जण ॥ २६ ॥
 दाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।
 उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायकिल्लेसं तमाहियं ॥ २७ ॥
 एगन्तमणावाए इत्थीपसुविवज्जिए ।

भयङ्गोडीमत्रिय कम्म तत्रमा निज्जग्ज्जड ॥ ६ ॥
 सो तवो दुविहो वुत्तो गहिरुम्भन्तरो तहा ।
 गहिरो छविहो वुत्तो एमम्भन्तरो तवो ॥ ७ ॥
 अणसणमृणोयरिया भिस्सवायगिया य स्तपरिञ्चाओ ।
 कायकिलेसो सलीणया य उज्जो तवो होइ ॥ ८ ॥
 इत्तरिय मरणकाला य अणसणा दुविहा भवे ।
 इत्तरिय सावकङ्खा निस्वकङ्खा उ विइज्जिया ॥ ९ ॥
 जो सो इत्तरियतवो सो समासेण छविहो ।
 सेढिनवो पयरतवो घणो य तह होइ वग्गो य ॥ १० ॥
 तत्तो य वग्गवग्गो पञ्चमो छट्ठओ पइण्णतवो ।
 मणइच्छियचित्तत्यो नायवो होइ इत्तरिओ ॥ ११ ॥
 जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा वियाहिया ।
 सवियारमवियारा कायचिद्ध पई भवे ॥ १२ ॥
 अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया ।
 नीहारिमनीहारी आहारच्छेओ दोसु वि ॥ १३ ॥
 ओमोयरण पञ्चहा समासेण वियाहियं ।
 दव्वओ खेत्तकालेणं भावेणं पज्जवेहि य ॥ १४ ॥
 जो जस्स उ आहारो तत्तो ओमं तु जो करे ।
 जहन्नेणेगसित्याई एवं दव्वेण ऊ भवे ॥ १५ ॥
 गामे नगरे तह रायहाणिनिगमे य आगरे पल्ली ।
 खेढे कव्वडदोणमुहपट्टणमडम्बसंवाहे ॥ १६ ॥
 आसमपए उहारे सन्निवेसे समायघोसे य ।

थलिसेणाखन्धारे सत्ये संवट्टकोट्टे य ॥ १७ ॥
 वाडेसु व रच्छासु व घरेसु वा एवमित्थिय खेत्त ।
 कप्पइ उ एवमाई एव खेत्तेण ऊ भवे ॥ १८ ॥
 पेढा य अद्धपेढा गोमुत्तिपयङ्गवीहिया चेव ।
 सम्बुक्कावट्टाययगन्तुपच्चागया छट्टा ॥ १९ ॥
 दिवसरस पोरुत्तीण चउण्ह पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एव चरमाणो खल्लु कालोमाणं मुणेयव्व ॥ २० ॥
 अहवा तइयाए पोरिसीए ऊणाइ घासमेसन्तो ।
 चउमागूणाए वा एव कालेण ऊ भवे ॥ २१ ॥
 इत्थी वा पुरिसो वा अलक्खिओ वा नलक्खिओ वा वि ।
 अन्नयस्वयत्थो वा अन्नयरेण व वत्थेण ॥ २२ ॥
 अन्नेण विसेसेण वण्णेण भावमणुमुयन्ते उ ।
 एव चरमाणो खल्लु भावोमाणं मुणेयव्व ॥ २३ ॥
 दधे खेत्ते काले भावम्मि य आहिया उ जे भावा ।
 एएहि ओमचरओ पज्जवचरओ भवे भिक्खू ॥ २४ ॥
 अट्टविहगोयरग्ग तु तहा सत्तेव एसणा ।
 अभिग्गहा य जे अन्ने भिक्खायरियमाहिया ॥ २५ ॥
 खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणमोयणं ।
 परिवज्जण रसाण तु भणिय रसविवज्जण ॥ २६ ॥
 ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।
 उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायकिलेस तमाहिय ॥ २७ ॥
 एगन्तमणावाए इत्थीपसुविवज्जिण्ण ।

सयणासणसेवणया विवित्तयणामण ॥ २८ ॥
 एमो वाहिरगतवो ममामेण प्रियाहिओ ।
 अविमन्तरो तवो एत्तो वुच्छामि अणुपुवमो ॥ २९ ॥
 पायच्छित्त विणओ वेयावच्च तद्देव मज्झाओ ।
 ज्ञाण च विओसग्गो एसो अविमन्तरो तवो ॥ ३० ॥
 आलोयणारिहाईय पायच्छित्त तु दमविह ।
 ज भिक्खू वहई सम्म पायच्छित्त तमाहियं ॥ ३१ ॥
 अब्भुट्ठाण अञ्जलिकरण तद्देवामणदायण ।
 गुरुमत्तिभावसुस्सूसा विणओ एम वियाहिओ ॥ ३२ ॥
 आयरियमाईए वेयावच्चम्मि दमविहे ।
 आसेवण जहायामं वेयावच्च तमाहियं ॥ ३३ ॥
 वायणा पुच्छणा चैव तद्देव परियट्टना ।
 अणुपेहा धम्मकहा सज्झाओ पञ्चहा भवे ॥ ३४ ॥
 अट्टरुक्षाणि वज्जित्ता ज्ञाएज्जा सुसमाहिण ।
 धम्मसुक्काइ ज्ञाणाइ ज्ञाणं तं तु बुहा वए ॥ ३५ ॥
 सयणासणठणणे वा जे उ भिक्खू न वावरे ।
 कायस्स विउस्सग्गो छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥ ३६ ॥
 एव तव तु दुविहं जे सम्म आयरे मुणी ।
 सो खिप्यं मव्वससारा विप्पमुच्चइ पण्हिओ ॥ ३७ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥

॥ तवमग्ग ॥

चरणविही एकत्रिंश अध्ययनम्

- चरणविहिं पवक्खामि जीवस्स उ सुहावह ।
ज चरित्ता वद्द जीवा तिण्णा ससारसागर ॥ १ ॥
एगओ विरइ कुज्जा एगओ य पवत्तण ।
असजमे नियत्तिं च सजमे य पवत्तण ॥ २ ॥
रागदोसे य दो पावे पावकम्मपवत्तणे ।
जे भिक्खू रुम्मए निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ३ ॥
दण्हाण गाखाण च सल्लाण च तिय तिय ।
जे भिक्खू रुम्मए निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ४ ॥
दिव्वे य जे उवसग्गं तहा तेरिच्छमाणुसे ।
जे भिक्खू सहई सम्म से न अच्छइ मण्डले ॥ ५ ॥
विगहाकमायमन्नाण आणाण बहुय तहा ।
जे भिक्खू वज्जए निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ६ ॥
वएसु इन्द्रियत्थेसु ममिईसु किरियासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ७ ॥
लेमासु छसु काएसु छके आहारकारणे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ८ ॥
पिण्होग्गहपडिमासु भयट्ठाणेसु सत्तसु ।
जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ ९ ॥
मटेसु वम्मगुत्तीसु भिक्खुधम्मामि दसविहे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छइ मण्डले ॥ १० ॥
उवासगाण पडिमासु भिक्खूण पडिमासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ ११ ॥

किरियासु भूयगामेसु परमाहम्मिणसु य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १२ ॥

गाहासोलसएहि तहा अस्सजमम्मि य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १३ ॥

वम्भम्मि नायज्झयणेसु ठाणेसु य समाहिए ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १४ ॥

एगवीसाए सवले वावीसाए परीमहे ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १५ ॥

तेवीसाइ सूयगढे रूवाहिएसु सुरेसु अ ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १६ ॥

पणवीसमावणेहि उद्देसेसु दसाइण ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १७ ॥

अणगाग्गुणेहि च पकप्पम्मि तहेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १८ ॥

पावसुयपसङ्गेसु मोहठाणेसु चेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ १९ ॥

सिद्धाइग्गुण-जोगेसु तेत्तीसासायणासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मण्डले ॥ २० ॥

इय एणसु ठाणेसु जे भिक्खू जयई सया ।

स्विप्प सो सधससारा विप्पमुच्चइ पण्डिओ ॥ २१ ॥

॥ त्ति वेमि ॥

॥ चरणविही ॥

पमायहाण द्वारिंश अध्ययनम्

अचन्तकालस्स समूलगस्स

सवस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।

तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता

सुणेह एगन्तहिय हियत्थ ॥ १ ॥

नाणस्स सवस्स पगासणाए

अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखएण

एगन्तसोक्ख समुवेइ मोक्खं ॥ २ ॥

तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा

विवज्जणा वालजणस्स दूरा ।

सज्झायएगन्तनिसेवणा य

सुत्तत्थमचिन्तणया धिई य ॥ ३ ॥

आहारमिच्छे मिथमेसणिज्ज

सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धिं ।

निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग

समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ ४ ॥

न वा लभेज्जा निउण सहायं

गुणाहिय वा गुणओ सम वा ।

एगो वि पावाइ विवज्जयन्तो

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ ५ ॥

जहा य अण्डप्पभवा वलागा

अण्ड वलागप्पभव जहा य ।
 एमेव मोहायतण खु तण्हा
 मोह च तण्हायतण वयन्ति ॥ ६ ॥
 रागो य दोसो वि य कम्मवीय
 कम्मं च मोहप्पभव वयन्ति ।
 कम्म च जाइमरणस्स मूल
 दुक्खं च जाइमरण वयन्ति ॥ ७ ॥
 दुक्ख ह्य जस्स न होइ मोहो
 मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
 तण्हा हया जस्स न होइ लोहो
 लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥ ८ ॥
 राग च दोस च तहेव मोह
 उद्धत्तुकामेण समूलजाल ।
 जे जे उवाया पडिवज्जियघा
 ते कित्तइस्सामि अहाणुपुषि ॥ ९ ॥
 रसा पगामं न निसेवियघा
 पाय रसा दित्तिकरा नराण ।
 दित्तं च कामा समभिह्वन्ति
 दुम जहा साउफल व पक्खी ॥ १० ॥
 जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे
 समारुओ नोवंसमं उवेइ ।
 एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो

न वम्भयारिस्स हियाय कस्सइ ॥ ११ ॥

विवित्तसेज्जासणजन्तियाण

ओमासणाण दमिइन्दियाण ।

न रागसत्तू घरिसेइ चित्त

पराइओ वाहिरिवोसहेहि ॥ १२ ॥

जहा विरालावसहस्स मूले

न मूसगाण वसही पसत्था ।

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे

न वम्भयारिस्स स्वमो निवासो ॥ १३ ॥

न रूवलावण्णविलासहास

न जपिय इङ्गियपेहिय वा ।

इत्थीण चित्तसि निवेसइत्ता

दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४ ॥

अदसण चेव अपत्थण च

अचिन्तण चेव अकित्तण च ।

इत्थीज्जणस्सारियक्खाणजुग्गं

हिय सया वम्भचेरे रयाण ॥ १५ ॥

कामं तु ढेवीहि विभूसियाहिं

न चाइया खोभइउ तिगुत्ता ।

तद्दा वि एगन्तहिय ति नच्चा

विवित्तवासो मुणिण पसत्थो ॥ १६ ॥

मोक्खाभिकइस्स उ माणवस्स

ससारभीरुस्त डिग्रस्त धम्मे ।
 नेयारिस दुत्तरमत्थि लोए
 जहित्थिओ वालमणोहराओ ॥ १७ ॥
 एए य सङ्गे समइक्कमित्ता
 सुउत्तरा चैव भवन्ति सेसा ।
 जहा महासागरमुत्तरित्ता
 नई भवे अवि गङ्गासर्माणा ॥ १८ ॥
 कामाणुगिद्धिप्पभव खु दुक्ख
 सबस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
 ज काइयं माणसिय च किंचि
 तस्सन्तग गच्छइ वीयरंगो ॥ १९ ॥
 जहा य किंपागफला मणोरमा
 रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।
 ते खुइए जीविय पच्चमाणा
 एओवमा कामगुणा त्रिवागे ॥ २० ॥
 जे इन्दियाण विसया मणुत्ता
 न तेसु भावं निसिरे कयाइ ।
 न यामणुत्तेसु मणं न कुज्जा
 समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २१ ॥
 चक्खुस्स रूवं गहण वयन्ति
 त रागहेउं तु मणुत्तमाहु ।
 त दोसहेउं अमणुत्तमाहु

समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ २२ ॥

खस्स चक्खु गहण वयन्ति

चक्खुस्स ख्व गहणं वयन्ति ।

रागस्स हेउ समणुन्नमाहु

दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ २३ ॥

ख्वेसु जो गिद्धिमुवेइ तिष्ठं

अकालिय पावइ से विणास ।

रागाउरे से जह वा पयङ्गे

आलयलोले समुवेइ मच्चु ॥ २४ ॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिष्ठं

तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।

दुहन्तदोसेण सएण जन्तू

न किंचि ख्वं अवरुज्झई से ॥ २५ ॥

एगन्तरत्ते ख्वरसि ख्वे

अतालिसे से कुणई पओस ।

दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ २६ ॥

ख्वाणुगासाणुगए य जीवे

चराचरे हिंसइ णेगख्वे ।

चित्तेहि ते परितावेइ बाले

पीलेइ अत्तइगुरू किलिठ्ठे ॥ २७ ॥

ख्वाणुवाएण परिग्गहेण

उष्णायणे रक्त्वणसन्निओगे ।
 वए विओगे य वह सुह मे
 समोगकाले य अतित्तलामे ॥ २८ ॥
 ख्वे अतित्ते य परिग्गहे य
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
 लोभाविले आययई अदत्त ॥ २९ ॥
 तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो
 ख्वे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढइ लोमदोसा
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ३० ॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
 पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एव अदत्ताणि समाययन्तो
 ख्वे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ३१ ॥
 स्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं
 कत्तो सुह होज्ज क्याइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख
 निवत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ ३२ ॥
 एमेव ख्वम्मि गओ पओसं
 उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं

ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ३३ ॥
रुवे विरत्तो मणुओ विसोगो
एणण दुक्खोत्परपरेण ।
न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ३४ ॥
सोयस्स सह गहण वयन्ति
त रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
त दोसहेउ अमणुन्नमाहु
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ ३५ ॥
सहस्स सोय गहण वयन्ति
सोयस्स सह गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु
दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ ३६ ॥
सहेसु जो गिद्धिमुवेइ तिष्ठ
अकालिय पावइ से विणासं ।
रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे
सहे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥ ३७ ॥
जे यावि दोस समुवेइ तिष्ठ
तंसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुहन्तदोसेण सएण जन्तु
न किंचि सह अवरुज्झइ से ॥ ३८ ॥
एगन्तरत्ते रुहरसि सहे

अतालमे मे कुण्डं पओम ।

दुक्खस्स सपीलमुवेइ ऱाले

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ३९ ॥

सद्दाणुगासाणुगए य जीवे

चराचरे हिंसइ णेगरुवे ।

चित्तेहि ते परितावेइ ऱाले

पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिट्ठे ॥ ४० ॥

सद्दाणुवाएण परिग्गहेण

उत्थायणे रक्खगसन्निओगे ।

वए विओगे य कहं सुहं से

संभोगकाले य अत्तलामे ॥ ४१ ॥

सद्दे अत्तित्ते य परिग्गहे य

सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।

अत्तुट्ठिदोसेण दुही परस्स

लोमाविले आययई अदत्तं ॥ ४२ ॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो

सद्दे अत्तित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा

तत्यावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ४३ ॥

मोसस्स पञ्च य पुरत्यओ य

पओगकाले य दुही दुरन्ते ।

एवं अदत्ताणि समाययन्तो

सहे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ४४ ॥
 सदाणुरत्तस्स नरस्म एवं
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख
 निवत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥ ४५ ॥
 एमेव सद्दम्मि गओ पओस
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं
 जं से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ४६ ॥
 सहे विरत्तो मणुओ विसोगो
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो
 जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ४७ ॥
 घाणस्स गन्ध गहणं वयन्ति
 त रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउ अमणुन्नमाहु
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ ४८ ॥
 गन्धस्स घाण गहण वयन्ति
 घाणस्स गन्ध गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु
 दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥ ४९ ॥
 गन्धेसु जो गिद्धिमुवेइ तिघ

अकालिय पावइ मे त्रिणाम ।

रागाउरे ओसहगन्धगिछे

सण्पे त्रिलाओ त्रि निस्खमन्ते ॥ ५० ॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिब

तसि कखणे से उ उवेइ दुक्ख ।

दुद्धन्तदोसेण सएण जन्वू

न किचि गन्ध अवरुज्झई से ॥ ५१ ॥

एगन्तरत्ते रुद्धरसि गन्धे

अताल्लिसे से कुणई पओसं ।

दुक्खस्स सपीलमुवेइ वाले

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ५२ ॥

गन्धाणुगासाणुगए य जीवे

चराचरे हिसइ णेगरूवे ।

चित्तेहि ते परितावेइ वाले

पीलेइ अत्तट्टगुरू किलिठ्ठे ॥ ५३ ॥

गन्धाणुवाएण परिग्गहेण

उप्पायणे स्वखणसन्निओगे ।

वए विओगे य कइ सुह से

सभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ५४ ॥

गन्धे अतित्ते य परिग्गहे य

सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स

लोमाविले आययई अदत्तं ॥ ५५ ॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो
गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुस वड्ढइ लोमदोसा
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ५६ ॥

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
पओगकाले य दुही दुरन्ते ।

एव अदत्ताणि समाययन्तो
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ५७ ॥

गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एव
कत्तो सुह होज्ज क्याइ किंचि ।

तत्थोवमोगे वि किलेसदुक्ख
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ ५८ ॥

एमेव गन्धम्मि गओ पओस
उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।

पदुड्ढचित्तो य चिणाइ कम्म
जं से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ५९ ॥

गन्धे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरपरेण ।

न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो ।
जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ६० ॥

जीहाए रस गहण वयन्ति --

त रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
 त दोसहेउ अमणुन्नमाहु
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ ६१ ॥
 रसस्स जीह गहण वयन्ति
 जीहाए रस गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु
 दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ ६२ ॥
 रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिघ
 अकालिय पावइ से विणासं ।
 रागाउरे वडिसविभिन्नकाए
 मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ ६३ ॥
 जे यावि दोस समुवेइ तिघ
 तसि कवणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 दुइन्तदोसेण सएण जन्तू
 न किंचि रस अवरुज्झई से ॥ ६४ ॥
 एगन्तरत्ते खरंसि रसे
 अतालसे से कुणई पओर्म ।
 दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले
 न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ६५ ॥
 स्साणुगासाणुगए य जीवे
 चराचरे हिसइ भोगस्से ॥
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले

पीलेइ अत्तइगुरु किलिङ्गे ॥ ६६ ॥
 रसाणुवाएण परिग्गहेण
 उप्पायणे स्वखणसन्निओगे ।
 चए विओगे य कह सुह से
 मभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ६७ ॥
 रसे अतित्ते य परिग्गहे य
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
 लोभाविले आययई अदत्त ॥ ६८ ॥
 तण्हाभिमूयस्स अदत्तहारिणो
 रसे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढइ लोभदोमा
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ६९ ॥
 मोसस्स पच्छ य पुरत्यओ य
 पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एव अदत्ताणि समाययन्तो
 रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ७० ॥
 रमाणुरत्तस्स नरस्स एव
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं
 निवत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ ७१ ॥
 एमेव रसम्मि गओ पओस

उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पटुट्टचित्तो य चिणाइ कम्म
 ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ७२ ॥
 स्से विरत्तो मणुओ विसोगो
 एएण दुक्खोहपरपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो
 जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ७३ ॥
 कायस्स फास गहण वयन्ति
 त राग्हेउ तु मणुन्नमाहु ।
 त दोसहेउ अमणुन्नमाहु
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ ७४ ॥
 फासस्स कायं गहणं वयन्ति
 कायस्स फासं गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु
 दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ ७५ ॥
 फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व
 अकालिय पावइ से विणासं ।
 रागाउरे सीयजलावसन्ने
 गाहग्गिहीए महिसे विवन्ने ॥ ७६ ॥
 जे यावि दोस समुवेइ तिव्वं
 तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 दुहन्तदोसेण सएण जन्तू

न किंचि फास अवरुज्झइ से ॥ ७७ ॥

एगन्तरत्ते रुहरसि फासे

अतालिसे से कुणई पओसं ।

दुक्खस्स सपीलमुवेइ वाले

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ७८ ॥

फासाणुगासाणुगए य जीवे

चराचरे हिसइ णेरुवे ।

चित्तेहि ते परितावेइ वाले

पीलेइ अत्तइगुरू किलिठ्ठे ॥ ७९ ॥

फासाणुवाएण परिग्गहेण

उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।

चए विओगे य कह सुह से

सभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ८० ॥

फासे अतित्ते य परिग्गहे य

सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स

लोमाविले आययई अदत्त ॥ ८१ ॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो

फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुस वड्ढइ लोभदोमा

तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ८२ ॥

मोसस्स पच्छा य पुरत्यओ य

पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एव अदत्ताणि समाययन्तो
 फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ८३ ॥
 फासाणुरत्तस्स नरस्स एव
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख
 निवत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥ ८४ ॥
 एयेव फासम्मि गओ पओसं
 उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्म
 ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ८५ ॥
 फासे विरत्तो मणुओ विसोगो
 एएण दुक्खोहपरएण ।
 न लिप्पए मवमए ज्ञे वि सन्तो
 जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ८६ ॥
 मणस्स भाव गहणं वयन्ति
 त रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
 त दोसहेउ अमणुन्नमाहु
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥ ८७ ॥
 भावत्त मर्णं गहण वयन्ति
 मणस्स भाव गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु

दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ ८८ ॥

मावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं

अकालिय पावइ से विणास ।

सगाउरे कामगुणेषु गिद्धे

करेणुमग्गावहिण्ण ष नागे ॥ ८९ ॥

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं

तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुइन्तदोसेण सएण जन्तु

न किंचि भाव अवरुज्झई से ॥ ९० ॥

एगन्तरत्ते रूइरसि भावे

अतालिसे से कुणई पओस ।

दुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ९१ ॥

भावाणुगासाणुगए य जीवे

चराचरे हिसइ णेगरूवे ।

चित्तेहि ते परितावेइ वाले

पीलेइ अत्तइगुरू किलिद्धे ॥ ९२ ॥

भावाणुवाएण परिग्गहेण

उप्पायणे रक्खण सन्निओगे ।

वए विओगे य कह सुह से

सभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ९३ ॥

भावे अतित्ते य परिग्गहेय

सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्टि ।
 अतुट्टिदोसेण दुही परस्स
 लोभाविले आययई अदत्त ॥ ९४ ॥
 तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो
 भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चईसे ॥ ९५ ॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य
 पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एवं अदत्ताणि समाययन्तो
 भावे अतित्तो दुट्टिओ अणिस्सो ॥ ९६ ॥
 भावाणुरत्तस्स नरस्स एव
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किल्लेसदुक्खं
 निवत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ ९७ ॥
 एमेव भावम्मि गओ पओस
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्म
 ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥ ९८ ॥
 भावे विरत्तो मणुओ विसोगो
 एएण दुक्खोहपरपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि मन्तो

जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ ९९ ॥
एविन्दियत्था य मणस्स अत्था
दुक्खस्स हेऊ मणुयस्स रागिणो ।
ते चेव योव पि कयाइ दुक्ख
न वीयरागस्स करेन्ति किंचि ॥ १०० ॥
न कामभोगा समय उवेन्ति
न यावि भोगा विगइ उवेन्ति ।
जे तप्पओसी य परिग्गही य
सो तेसु मोहा विगई उवेइ ॥ १०१ ॥
कोह च माण च तहेव माय
लोह दुगुच्छ अरइ रइ च ।
हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं
नपुसवेय विविहे य भावे ॥ १०२ ॥
आवज्जई एवमणेगस्खे
एवंविहे कामगुणेषु सत्तो ।
अन्ने य एयप्पभवे विसेसे
कारुण्णदीणे हरिमे वइस्से ॥ १०३ ॥
कप्प न इच्छिज्ज सहायलिच्छू
पच्छाणुतावेण तवप्पभाव ।
एव विघारे अमियप्पघारे
आवज्जई इन्दियचोरवस्से ॥ १०४ ॥
तओ से जायन्ति पओयणाइ

निमज्जिउ मोहमहण्णवम्मि ।
 सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा
 तप्पच्चय उज्जमए य रागी ॥ १०५ ॥
 विरज्जमाणस्स य इन्दिद्यत्था
 सदाइया तावइयप्पगारा ।
 न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा
 निवत्तयन्ती अमणुन्नय वा ॥ १०६ ॥
 एव ससकप्पविकप्पणासुं
 सजायई समयमुवट्ठियस्स ।
 अत्थे असंकप्पयओ तओ-से
 पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥ १०७ ॥
 स वीयरगो कयसव्वकिच्चो
 ख्वेइ नाणावरणं-ख्वणेण ।
 तहेव जं दंसणमावरेइ
 जं चन्तरायं पकरेइ कम्मं ॥ १०८ ॥
 सव्व तओ जाणइ पासए य
 अमोहणे होइ निरन्तराए ।
 अणासवे ज्ञाणसमाहिज्जुत्ते
 आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥ १०९ ॥
 सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को
 ज वाहई सयय जन्तुमेयं ।
 दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो

तो होइ अचन्तसुही क्यत्यो ॥ ११० ॥

अणाइकालप्पभवस्स एसो

सवस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।

वियाहिओ ज समुविच्च सत्ता

कमेण अचन्तसुही भवन्ति ॥ १११ ॥

॥ पमायडानं ॥

कम्मप्पयही त्रयस्त्रिंशं अध्वयनम्

अट्ठ कम्माइ वोच्छमि आणुपुल्लिं जहाकम्मं ।

जेहि वद्धो अय जीवो ससारे पस्विट्ठई ॥ १ ॥

नाणस्सावरणिज्ज दसणावरण तहा ।

वेयणिज्ज तहा मोहं आउकम्म तहेव य ॥ २ ॥

नामकम्म च गोत्तं च अन्तरायं तहेव य ।

एवमेयाइ कम्माइ अट्ठेव उ-समासओ ॥ ३ ॥

नाणावरणं पञ्चविह सुयं आभिणिवोहिय ।

ओहिनाण त्व-तइय-मणनाण च-केवल ॥-४॥

निहा तहेव-पयला निहानिहा पयलपयला य ।

तत्तो-य-थीणगिद्धी उ पञ्चमा-होइ नायवा ॥ ५ ॥

चक्खुमचक्खुओहिस्स दसणे केवले-य आवरणे ।

एव तु नवविगप्प-नायव दसणावरण ॥-६॥

वेयणिय पि य दुविहं सायमसाय-च-आहिय ।

सायस्स क्हू-मेया एमेव असायस्स वि ॥ ७ ॥

मोहणिज्ज पि दुविह दसणे चरणे तथा ।
 दसणे तिविह वुत्त चरणे दुविह भये ॥ ८ ॥
 सम्मत्त चेव मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तमेव य ।
 एयाओ तिन्नि पयडीओ मोहणिज्जस्म दसणे ॥ ९ ॥
 चरित्तमोहण कम्मं दुविह त वियाहिय ।
 कसायमोहणिज्ज तु अकसाय तहेव य ॥ १० ॥
 सोलसविहमेणं कम्म तु कसायज ।
 सत्तविह नवविह वा कम्म नोकसायज ॥ ११ ॥
 नेरुइयतिरिक्खाउ मणुस्साउ तहेव य ।
 देवाउयं चउत्थं तु आउं कम्म चउच्चिह ॥ १२ ॥
 नामकम्म दुविह सुहमसुहं च आहिय ।
 सुमस्स उ क्हू मेया एमेव असुमस्स वि ॥ १३ ॥
 गोय कम्म दुविह उच्च नीय च आहिय ।
 उच्च अट्टविहं होइ एव नीय पि आहिय ॥ १४ ॥
 दाणे लामे य भोगे य उवभोगे वीरिए तथा ।
 पञ्चविहमन्तराय समासेण वियाहियं ॥ १५ ॥
 एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओ य आहिया ।
 पएसग्गं खेत्तकाले य भावं च उत्तरं सुण ॥ १६ ॥
 सधेसिं चेव कम्माण पएसग्गमणन्तगं ।
 गण्ठियसत्ताइय अन्तो सिद्धाण आहिय ॥ १७ ॥
 सधजीवाण कम्म तु संगहे छडिसागर्यं ।
 सञ्जेसु वि पएससेसु सच्च सच्चेण वट्ठग ॥ १८ ॥

उदहीसरिसनामाण तोसई कोडिकोडीओ ।

उकोसिया ठिई होइ अन्नोमुहुत्त जहन्निया ॥ १९ ॥

आवरणिज्जाण दुण्ह पि वेयणिज्जे तहेव य ।

अन्तराए य कम्ममि ठिई एसा वियाहिया ॥ २० ॥

उदहीसरिमनामाण सत्तरि कोडिकोडीओ ।

मोहनिज्जस्म उकोसा अन्नोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २१ ॥

तेत्तीसमागरोवमा उकोसेण वियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स अन्नोमुहुत्त जहन्निया ॥ २२ ॥

उदहीसरिसनामाण वीमई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्तार्णं उकोसा अट्ट मुहुत्ता जहन्निया ॥ २३ ॥

सिद्धाणगन्तभागो य अणुभागा हवन्ति उ ।

सत्वेसु वि पएमग्ग सव्वजीवे अइज्झिय ॥ २४ ॥

तम्हा एएसि कम्माण अणुभागा वियाणिया ।

एएसि सवरे चेव खव्वगे य जए बुहो ॥ २५ ॥

॥ त्ति वेमि ॥

॥ कम्मप्पयडी ॥

लेसज्जयणं चतुस्त्रिंशं अध्ययनम्

लेसज्जयणं पवक्खामि अणुपुषि जहक्कम ।

उण्ह पि कम्मलेसाण अणुमावे सुणेह मे ॥ १ ॥

नामाइ वण्णरसगन्धकासपरिणामलक्खण ।

अण ठिई गई चाउ लेसाण तु सुणेह मे ॥ २ ॥

मोहणिज्ज पि दुविह दंसणे चरणे तहा ।
 दसणे तिविह वुत्त चरणे दुविह भये ॥ ८ ॥
 सम्मत चेव मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तमेव य ।
 एयाओ तिन्नि पण्डीओ मोहणिज्जस्स दमणे ॥ ९ ॥
 चरित्तमोहण कम्मं दुविह त वियाहिय ।
 क्सायमोहणिज्ज तु अक्साय तहेव य ॥ १० ॥
 सोलसविहमेएण कम्म तु क्सायज ।
 सत्तविह नवविह वा कम्म नोकसायज ॥ ११ ॥
 नेरुइयतिरिक्खाउ मणुस्साउ तहेव य ।
 देवाउय चउत्थ तु आउ कम्म चउविह ॥ १२ ॥
 नामकम्म दुविह सुहमसुहं च आहिय ।
 सुमस्स उ क्हु मेया एमेव असुमस्स वि ॥ १३ ॥
 गोय कम्म दुविह उच्च नीय च आहिय ।
 उच्चं अट्टविहं होइ एवं नीय पि आहियं ॥ १४ ॥
 दाणे लामे य भोगे य उवभोगे वीरिए तहा ।
 पञ्चविहमन्तराय समासेण वियाहियं ॥ १५ ॥
 एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओ य आहिया ।
 पएसग्ग खेत्तकाले य भावं च उत्तर सुण ॥ १६ ॥
 सवेसिं चेव कम्माणं पएसग्गमणन्तर्गं ।
 गण्ठियसत्ताइय अन्तो सिद्धाण आहियं ॥ १७ ॥
 सव्वजीवाण कम्म तु संगहे छहिसागयं ।
 सव्वेसु वि पएसेसु सव्वं सव्वेण वद्धग ॥ १८ ॥

वरवारुणीए व रमो विविहाण व आमवाण जारिसओ ।
 महुमेर्यरए व रसो एत्तो पम्हाए परएणं ॥ १४ ॥
 खज्जूरमुद्दियरसो खीररसो खण्डककररसो वा ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो रसो उ सुक्काए नायवो, ॥ १५ ॥
 जह गोमडस्स गन्धो सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो लेसाण अप्पसत्थाणं ॥ १६ ॥
 जह सुरहिकुसुमगन्धो गन्धवासाण पिस्ममाणाण ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥ १७ ॥
 जह करगयस्स फासो गोजिब्भाए य सागपत्ताण ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो लेसाण अप्पमत्थाणं ॥ १८ ॥
 जह वूरस्स व फासो नवणीयस्स व सरीसकुसुमाण ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥ १९ ॥
 तिविहो व नवविहो वा सत्तावीमइविहेक्खसीओ वा ।
 दुसओ तेयालो वा लेसाण होइ परिणामो ॥ २० ॥
 पञ्चासवप्पवत्तो तिहिं अगुत्तो छसु अविरओ य ।
 तिघारम्भयरिगओ खुट्ठो साहसिओ नरो ॥ २१ ॥
 निद्धन्वसपरिणामो निस्ससो अजिइन्दिओ ।
 एयजोगसमाउत्तो किण्हलेस तु परिणमे ॥ २२ ॥
 ईसा अमरिस अतवो अविज्जमाया अहीरिया ।
 गिद्धी पओसे य सढे पमत्ते रसलोलुए ॥ २३ ॥
 सायगवेसए य आरम्भाओ अविरओ खुट्ठोसाहसिओनरो
 एयजोगसमाउत्तो नील्लेस तु परिणमे ॥ २४ ॥

किण्हा नीला काऊ य तेऊ पम्हा तहेव य ।
 सुकलेसा य छट्टा य नामाई तु जहकम ॥ ३ ॥
 जीमूयनिद्धसकासा गवलरिद्धगसन्निभा ।
 खञ्जणनयणनिभा किण्हलेसा उ वण्णओ ॥ ४ ॥
 नीलासोगसकासा चासपिच्छसमप्पभा ।
 वेरुलियनिद्धसकासा नीललेसा उ वण्णओ ॥ ५ ॥
 अयसीपुप्फसकासा कोइलच्छदसन्निभा ।
 पारेवयगीवनिभा काओलेसा उ वण्णओ ॥ ६ ॥
 हिङ्गुलघाउसंकासा तरुणाइच्चसन्निभा ।
 सुगतुण्डपर्ईवनिभा तेओलेसा उ वण्णओ ॥ ७ ॥
 हरियालमेदसंकासा हलिहामेयसमप्पभा ।
 सणासणकुसुमनिभा पम्हलेसा उ वण्णओ ॥ ८ ॥
 सङ्गकुन्दसकासा खीरपूरसमप्पभा ।
 रययहारसकासा सुकलेसा उ वण्णओ ॥ ९ ॥
 जह कड्डुगतुम्बगरसो निम्बरसो कड्डुगरोहिणिरसो वा ।
 एत्तो वि अणन्नगुणो रसो य किण्हाए नायव्वो ॥१०॥
 जह तिगड्डयस्स य रसो तिकखो जह हत्थिपिप्पलीए वा ।
 एत्तो वि अणन्नगुणो रसो उ नीलाए नायव्वो ॥ ११ ॥
 जह तरुणअम्बगरसो तुवरकपिद्धस्स वावि जारिसओ ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो रसो उ काऊए नायव्वो ॥ १२ ॥
 जह परिणियम्बगरसो पक्कविद्धस्स वावि जारिसओ ।
 एत्तो वि अणन्तगुणो रसो उ तेओए नायव्वो ॥१३॥

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना तिण्णुदही पलियमसखभागमव्महिया
 उक्कोसा होइ ठिई नायव्वा काउलेसाए ॥ ३६ ॥
 मुहुत्तद्धं तु जहन्ना दोण्णुदही पलियमसखभागमव्महिया
 उक्कोसा होइ ठिई नायव्वा तेउलेसाए ॥ ३७ ॥
 मुहुत्तद्धं तु जहन्ना दस होन्ति य सागरा मुहुत्तहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई नायव्वा पम्हलेसाए ॥ ३८ ॥
 मुहुत्तद्धं तु जहन्ना तेत्तीम सागरा मुहुत्तहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई नायव्वा सुक्कलेसाए ॥ ३९ ॥
 एसा खलु लेसाणं ओहेण ठिई वण्णिया होइ ।
 चउसु वि गईसु एत्तो लेसाणं ठिई तु वोच्छामि ॥४०॥
 दस वाससहस्साइ काऊए ठिई जहन्निया होइ ।
 तिण्णुदही पलिओवम असङ्गभागं च उक्कोसा ॥ ४१ ॥
 तिण्णुदही पलिओवम सखभागो जहन्नेण नीलठिई ।
 दसउदही पलिओवम असङ्गभागं च उक्कोसा ॥ ४२ ॥
 दसउदही पलिओवम असङ्गभागं जहन्निया होइ ।
 तेत्तीससागराउ उक्कोसा होइ किण्हाए ॥ ४३ ॥
 एमा नेरइयाणं लेसाणं ठिई उ वण्णिया होइ ।
 तेण पर वोच्छामी तिरियमणुस्साणं देवाण ॥ ४४ ॥
 अन्तोमुहुत्तमद्धं लेसाणं जहि जहि जाउ ।
 तिरियाणं नराणं वा वज्जिता केवलं लेस ॥ ४५ ॥
 मुहुत्तद्धं तु जहन्ना उक्कोमा होइ पुषकोठीओ ।
 नवहि वरिमेहि ऊणा नायव्वा सुक्कलेसाए ॥ ४६ ॥

वङ्गे वङ्गसमायारे नियदिल्ले अणुज्जुए ।
 पल्लिउचगओवहिए मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥ २५ ॥
 उप्फासगदुड्ढवाइ य तेण यावि य मच्छरी ।
 एयजोगसमाउत्तो काउल्लेसं तु परिणमे ॥ २६ ॥
 नीयावत्ती अचवले अमाइ अकुतूहले ।
 विणीयविणए दन्ते जोगव उवहाणवं ॥ २७ ॥
 पियधम्मे दढधम्मे वज्जमीरू हिएसए ।
 एयजोगसमाउत्तो तेओलेस तु परिणमे ॥ २८ ॥
 पयणुकोहमाणे य मायालोमे य पयणुए ।
 पसन्तचित्ते दन्तप्पा जोगवं उवहाणव ॥ २९ ॥
 तहा पयणुवाइ य उवसन्ते जिइन्दिए ।
 एयजोगसमाउत्तो पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ३० ॥
 अट्टरुहाणि वज्जित्ता धम्मसुक्काइ श्चायए ।
 पसन्तचित्ते दन्तप्पा समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥ ३१ ॥
 सरागे वीयरगे वा उवसन्ते जिइन्दिए ।
 एयजोगसमाउत्तो सुक्कलेसं तु परिणमे ॥ ३२ ॥
 अंसक्खिज्जाणोसप्पिणीण उस्सप्पिणीण जे समया ।
 संस्वाइया लोगा लेसाण हवन्ति त्रणाइ ॥ ३३ ॥
 मुहुत्तद्ध तु जहन्ना तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया ।
 उक्कोसा होइ त्तिं नायवा किण्हलेसाए ॥ ३४ ॥
 मुहुत्तद्ध तु जहन्ना दस उदही पलि
 उक्कोसा होइ त्तिं नायवा नील्लेसाए ॥ ३५ ॥

लेसाहि सघाहिं पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
 न हु कस्सइ उववाओ परमवे अत्थि जीवस्स ॥ ५८ ॥
 लेसाहिं सघाहि चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
 न हु कस्सइ उववाओ परमवे होइ जीवस्स ॥ ५९ ॥
 अन्तमुहुत्तम्मि गए अन्तमुहुत्तम्मि समए चेत्त ।
 लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छन्ति परलोय ॥ ६० ॥
 तम्हा एयासि लेसाण आणुभावे वियाणिया ।
 अप्पसत्थाओ वज्जित्ता पसत्थाओ हिट्ठिए मुणि ॥ ६१ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥

॥ लेसज्जयण ॥

अणगारज्जयणं पञ्चत्रिंश अध्ययनम्

सुणेह मे एगम्मामणा मग्गं बुद्धेहि देसिय ।
 जमायरन्तो भिक्खू दुक्खाणन्तकरे भवे ॥ १ ॥
 गिहवास परिच्चज्ज पवज्जामरिसए मुणी ।
 इमे सङ्गे वियाणिज्जा जेहिं सज्जन्ति माणवा ॥ २ ॥
 तद्देव हिंसं अलिय चोज्ज अव्वम्ममेवण ।
 इच्छा काम च लोभ च संजओ परिवज्जए ॥ ३ ॥
 मणोहर चित्तहरं मल्लघूवेण वासिय ।
 सकवाड पण्हुरुत्थोव मणसा वि न पत्थए ॥ ४ ॥
 इन्दियाणि उ भिक्खुरस तारिसम्मि उवस्सए ।
 हुक्कराइ निवारेउ कामरागविवट्ठणे ॥ ५ ॥

एसा तिरियनराणं लेसाए ठिई उ वणिण्या होइ ।
 तेण परं वोच्छामी लेसाण ठिई उ देवाण ॥ ४७ ॥
 दस वाससहस्साइ किण्हाए ठिई जहन्निया होइ ।
 पलियमसंखिज्ज इमो उकोसो होइ किण्हाए ॥ ४८ ॥
 जा किण्हाए ठिई खलु उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।
 जहन्नेण नीलाए पलियमसख च उकोसा ॥ ४९ ॥
 जा नीलाए ठिई खलु उकोसा मा उ समयमब्भहिया ।
 जहन्नेण काऊए पलियमसंख च उकोसा ॥ ५० ॥
 तेण पर वोच्छामी तेऊलेसा जहा सुरगाणं ।
 भवणवइवाणमन्तरजोइसवेमाणियाण च ॥ ५१ ॥
 पलिओवमं जहन्न उकोसा सागराओ दुन्नहिया ।
 पलियमसखेज्जेणं होइ भागेण तेऊए ॥ ५२ ॥
 दस वाससहस्साइं तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।
 दुञ्चुदही पलिओवम असङ्गभाग च उकोसा ॥ ५३ ॥
 जा तेऊए ठिई खलु उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।
 जहन्नेण पम्हाए दस उ मुहुत्ताहियाइ उकोसा ॥ ५४ ॥
 जा पम्हाए ठिई खलु उकोसा सा उ समयमब्भहिया ।
 जहन्नेणं सुक्काए तेत्तीस मुहुत्तमब्भहिया ॥ ५५ ॥
 किण्हा नीला काऊ तिन्नि वि एयाओ अहमलेसाओ
 एयाहि तिहि वि जीवो दुग्गइं उववज्जइ ॥ ५६ ॥
 तेऊ पम्हा सुक्का तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो सुग्गइं उववज्जइ ॥ ५७ ॥

लमालामम्मि मतुट्टे पिण्डवाय चरे मुणी ॥ १६ ॥
 अलोले न रसे गिळे जिब्भादन्ते अमुच्छिए ।
 न रसट्टाए भुञ्जिज्जा भवणट्टाए महासुणी ॥ १७ ॥
 अन्नण रयण चैव वन्दण पूयण तहा ।
 इट्ठीसकारसम्माण मणसा वि न पत्यए ॥ १८ ॥
 सुक्कजाण त्रियाएज्जा अणियाणे अकिञ्चणे ।
 वोसट्टकाए विहरेज्जा जाव कालस्स पज्जओ ॥ १९ ॥
 निज्जूहिऊण आहारं कालधम्मे उवट्टिए ।
 जहिऊण माणुस वोन्दि पहू दुक्खे पमुच्चई ॥ २० ॥
 निम्ममे निरहकारे वीयरगो अणासवो ।
 मपत्तो केवल नाणं सामय परिणिव्वुए ॥ २१ ॥
 ॥ त्ति वेमि ॥

॥ अणगारञ्जयणं ।

जीवाजीवविभर्त्ता पद्त्रिंश अष्टयनम्

जीवाजीवविभर्त्ति।सुणेह मे एगमणा इओ ।
 जं जाणिऊण मिक्खू'सम्म जयइ सजमे ॥ १ ॥
 जीवा चैव अजीवा य'एस लोए वियाहिए ।
 अजीवडेसमागासे अलोगे से' वियाहिए ॥ २ ॥
 दवओ खेत्तओ चैव कालओ' भावओ तहा ।
 परूवणा तेसि भवे'जीवाणमजीवाण य ॥ ३ ॥
 खविणो चैवखवी य अजीवा दुविहा भवे ।

सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व एगओ ।
 पइरिक्के परकढे वा वाम तथाभिरोयए ॥ ६ ॥
 फासुयम्मि अणावाहे इत्थीहि अणभिद्दुए ।
 तत्थ सकप्पए वास भिक्खू परममजए ॥ ७ ॥
 न सय गिहाइ कुव्विज्ज नो वि अन्नेहि कारण ।
 गिहकम्मसमारम्भे भूयाण दिस्सए वहो ॥ ८ ॥
 तसाण थावरारणं च सुद्धमाण वादराण य ।
 तम्हा गिहसमारम्म सजओ पस्विज्जए ॥ ९ ॥
 तद्देव भत्तपाणेषु पयणे पयावणेषु य ।
 पाणभूयदयद्वाए न पये न पयावये ॥ १० ॥
 जलधन्ननिग्गिया जीवा पुढवीकायनिस्सिया ।
 हम्मन्ति भत्तपाणेषु तम्हा भिक्खू न पयावए ॥ ११ ॥
 विसप्पे सवओ घारे बद्ध पाणे विणासणे ।
 नत्थि जोइममे सत्थे तम्हा जोइं न दीवए ॥ १२ ॥
 हिरण्ण जायख्व च मणमा वि न पत्थए ।
 समलेद्धु-कञ्चणे भिक्खू विरए कयविक्रए ॥ १३ ॥
 किणन्तो कइओ होइ विक्किणन्तो य वाणिओ ।
 कयविक्रयम्मि वट्टन्तो भिक्खू न भवइ तारिसो ॥ १४ ॥
 भिक्खिक्खय व न केयव्व भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा ।
 कयविक्रओ महादोमो भिक्खवत्ती सुहावहा ॥ १५ ॥
 ममुयाण उज्जमेसिज्जा जहासुत्तमणिन्दियं ।

अजीवाण य र्वीणः अन्तरेयं वियाहियं ॥ १५ ॥
 वण्णओ गन्धओ चैव रसओ फासओ तहा ।
 सठाणओ य विन्नेओ परिणामो तेसि पञ्चहा ॥ १६ ॥
 वण्णओ परिणया जे उ पञ्चहा ते पकित्तिया ।
 किण्हा नीला लोहिया हलिदा सुक्किला तहा ॥ १७ ॥
 गन्धओ परिणया जे उ दुविहा ते वियाहिया ।
 सुन्मिगन्धपरिणामो दुन्मिगन्धो तद्देव य ॥ १८ ॥
 रसओ परिणया जे उ पञ्चहा ते पकित्तिया ।
 तित्तकडुयकसाया अम्बिला महुरा तहा ॥ १९ ॥
 फासओ परिणया जे उ अड्डहा ते पकित्तिया ।
 कक्खहा मउया चैव गरुया लहुया तहा ॥ २० ॥
 सीया उण्हा य निद्धा य तहा लुक्खा य आहिया ।
 इय फासपरिणया एण पुग्गला समुदाहिया ॥ २१ ॥
 सठाणओ परिणया जे उ पञ्चहा ते पकित्तिया ।
 परिमण्डला य वट्टा य तसा चउरसमायया ॥ २२ ॥
 वण्णओ जे भवे किण्हे भइए से उ गन्धओ ।
 रसओ फासओ चैव भइए सठाणओ विय ॥ २३ ॥
 वण्णओ जे भवे नीले भइए से उ गन्धओ ।
 रसओ फासओ चैव भइए सठाणओ विय ॥ २४ ॥
 वण्णओ जे भवे लोहिए भइए से उ गन्धओ ।
 रसओ फासओ चैव भइए सठाणओ विय ॥ २५ ॥
 वण्णओ जे भवे पीए भइए से उ गन्धओ ।

अरुवी दसहा वुता।रुविणो य चउव्विहा ॥ ४ ॥
 धम्मत्थिकाए तद्देसे 'तप्पएसे य आहिए ।
 अहम्मे तस्स देसे य 'तप्पएसे य आहिए ॥ ५ ॥
 आगासे तस्स देसे य 'तप्पएसे य आहिए ।
 अद्धासमए चेव।अरुवी दसहा भवे ॥ ६ ॥
 घम्माधम्मे दो चेव 'लोगमित्ता वियाहिया ।
 लोगालोणे य आगासे समए समयस्वेत्तिए ॥ ७ ॥
 घम्माग्ग्मागासा।तिन्नि वि एए अणाइया ।
 अपज्जवसिया चेव।सव्वद्धं तु वियाहिया ॥ ८ ॥
 समए वि सन्तइ 'पप्प'एवमेव वियाहिए ।
 आएसं पथ मईए।सपज्जवसिए वि य ॥ ९ ॥
 खन्धा य खन्धदेसा य।तप्पएसा य तद्देव य ।
 परमाणुणो य बोद्धवा।रुविणो वि चउव्विहा ॥ १० ॥
 एगत्तेण पुहुत्तेण 'खन्धा य परमाणुणो ।
 लोएगदेसे लोए य 'भइयवा ते उ खेत्तओ ॥ ११ ॥
 सुहुमा सव्वलोगम्मि।लोगदेसे य वायरा ।
 इत्तो कालविभागं तु तेसिं वुच्छ चउव्विह ॥ १२ ॥
 संतइं पप्पते नई 'अपज्जवसिया वि य ।
 डिइ पडुच्च साईया 'सपज्जवसिया वि य ॥ १३ ॥
 असखकालमुक्कोसं 'एको समओ जहन्नय ।
 अजीवाण य रूवीण।'डिई एसा वियाहिया ॥ १४ ॥
 अणन्तकालमुक्कोसमेफो समओ जहन्नय ।

- गन्धओ रसओ चेव भइए संठाणओ विय ॥ ३७ ॥
 फासओ लहुए जे उ भइए मे उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए मठाणओ विय ॥ ३८ ॥
 फासओ सीयए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए सत्राणओ विय ॥ ३९ ॥
 फामओ उण्हए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए मठाणओ विय ॥ ४० ॥
 फासओ निद्धए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए संठाणओ विय ॥ ४१ ॥
 फासओ लुक्खए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए सत्राणओ विय ॥ ४२ ॥
 परिमण्हलसठाणे भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए से फासओ विय ॥ ४३ ॥
 संठाणओ भवे वट्टे भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए से फासओ विय ॥ ४४ ॥
 सठाणओ भवे तसे भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए से फासओ विय ॥ ४५ ॥
 मठाणओ भवे चउरसे भइए मे उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए से फासओ विय ॥ ४६ ॥
 जे आययमठाणे भइए मे उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए मे फामओ विय ॥ ४७ ॥
 एसा अजीवविभक्ती ममासेण वियाहिया ।

- रसओ फासओ चेव'भइए संठणओ विय ॥ २६ ॥
 वण्णओ जे भवे सुक्किले'भइए मे उ गन्धओ ।
 रसओ फासओ चेव'भइए सठणओ विय ॥ २७ ॥
 गन्धओ जे भवे सुव्भी'भइए से उ वण्णओ ।
 रसओ फासओ चेव भइए सठणओ विय ॥ २८ ॥
 गन्धओ जे भवे दुव्भी'भइए से उ वण्णओ ।
 रसओ फासओ चेव'भइए सत्रणओ विय ॥ २९ ॥
 रसओ तित्तए जे उ भइए मे उ वण्णओ ।
 गन्धओ फासओ चेव भइए सठणओ विय ॥ ३० ॥
 रसओ कड्डए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ फासओ चेव'भइए सठणओ विय ॥ ३१ ॥
 रसओ कसाए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ फासओ चेव'भइए सठणओ विय ॥ ३२ ॥
 रसओ अम्बिले जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ फासओ चेव भइए संठणओ विय ॥ ३३ ॥
 रसओ महुरए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ फासओ चेव'भइए संठणओ विय ॥ ३४ ॥
 फासओ कक्खडे जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव भइए सत्रणओ विय ॥ ३५ ॥
 फासओ मउए जे उ भइए से उ वण्णओ ।
 गन्धओ रसओ चेव'भइए सत्रणओ विय ॥ ३६ ॥
 फासओ गुरुए जे उ भइए मे उ वण्णओ ।

पणयालसयसहस्ता जोयणाण तु आयया ।
 तावइय चेवं विथिण्णा तिगुगो साहियपरिओ ॥ ५९ ॥
 अट्टजोयणवाहुला सा मज्झमि वियाहिया ।
 परिहायन्ती चरिमन्ते मच्छिपत्ताउ तंगुयरी ॥ ६० ॥
 अज्जुणसुवण्णगमई सा पुढवी निम्मला सहावेण ।
 उत्ताणगच्छतगसंठिया य भणियां जिणवरेहि ॥ ६१ ॥
 सङ्खङ्कुन्दसकासा पण्डुरा निम्मला सुहा ।
 सीयाए जोयणे ततो लोयन्तो उ वियाहिओ ॥ ६२ ॥
 जोयणस्म उ जो तत्य कोसो उवरिमो भवे ।
 तस्स कोसस्स छम्भाए सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६३ ॥
 तत्य सिद्धा महाभागा लोगगम्मि पइट्टिया ।
 भवपपञ्चओ मुक्का सिद्धि वरगइ गया ॥ ६४ ॥
 उस्मेहो जस्स जो होइ भवम्मि चरिमम्मि उ ।
 तिभागहीणो ततो य सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६५ ॥
 एगत्तेण माईया अपज्जवसिया वि य ।
 पुहुत्तेण अणाइया अपज्जवसिया वि य ॥ ६६ ॥
 अरूविणो जीवघणा नाणदमणसन्निया ।
 अतुल सुहसंपन्ना उवमा जस्स नत्थि उ ॥ ६७ ॥
 लोगेगदेसे ते सधे नाणदसणसन्निया ।
 ससारपारनित्थिण्णा सिद्धि वरगइ गया ॥ ६८ ॥
 ससारत्था उ जे जीवा दुविहा ते वियाहिया ।
 तसा य थावरा चेव थावरा तिविहा तर्हि ॥ ६९ ॥

इतो जीवविमत्तिं वुच्छामि अणुपुषमो ॥ ४८ ॥
 संसारत्था य सिद्धा य दुविहा जीवा वियाहिया ।
 सिद्धा णेगविहा वुत्ता त मे कित्तयओ सुण ॥ ४९ ॥
 इत्थी पुरिससिद्धा यं तहेव य नपुंसगा ।
 सल्लिङ्गे अन्नलिङ्गे य गिहिलिङ्गे तहेव य ॥ ५० ॥
 उक्कोसोगाहणाए य जहन्नमज्झिमाए य ।
 उह्ठ अहे य तिरिय च समुद्धम्मि जलम्मि य ॥ ५१ ॥
 दस य नपुसएसु वीस इत्थियासु य ।
 पुस्सेसु य अट्टमय समएणेगेण सिज्झई ॥ ५२ ॥
 चत्तारि य गिहिलिङ्गे अन्नलिङ्गे दसेव य ।
 सल्लिङ्गेण अट्टसय समएणेगेण सिज्झई ॥ ५३ ॥
 उक्कोसोगाहणाए य सिज्झन्ते जुगव दुवे ।
 चत्तारि जहन्नाए मज्जे अट्टुत्तर सय ॥ ५४ ॥
 चउरुह्ठलोए य दुवे समुद्धे तओ जले वीसमहे तहेव य ।
 सय च अट्टुत्तर तिरियलोए समएणेण सिज्झई धुवम् ॥ ५५ ॥
 कहि पडिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पइट्ठिया ।
 कहिं वोन्दि चइत्ताण कत्थ गन्नूण मिज्झई ॥ ५६ ॥
 आलोए पडिहया मिट्ठा लोयग्गे य पइट्ठिया ।
 इह वोन्दि चइत्ताण तत्थ गन्नूण मिज्झई ॥ ५७ ॥
 वारसहि जोयणेहि मधट्टस्सुवरिं भवे ।
 ईसिपन्मारनामा उ पुद्वी छत्तमट्ठिया ॥ ५८ ॥

वावीसंसह'स्साइ वासाणुक्कोसिया भवे ।
आउट्ठिं पुढवीणं अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ ८१ ॥
असखकालमुक्कोम'अन्तोमुहुत्तं जहन्नगं ।
कायट्ठिं पुढवीण'त कायं तु अमुञ्चओ ॥ ८२ ॥
अणन्तकालमुक्कोस'अन्नोमुहुत्त जहन्नग ।
विजढमि सए काए'पुढविजोवाण अन्तर ॥ ८३ ॥
एएसिं वण्णओ चेव'गन्धओ रसफामओ ।
सअणदेसओ वावि'विहाणाइं सहस्समो ॥ ८४ ॥
दुविहा आऊजीवा उ सुहुमा वायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता'एवमेए दुहा पुणो ॥ ८५ ॥
वायरा जे उ पज्जत्ता'पञ्चहा ते पक्कित्तिया ।
सुद्धोदए य उस्से हरतगू महिया हिमे ॥ ८६ ॥
एगविहमणाणत्ता'सुहुमा तत्थ वियाहिया ।
सुहुमा सबलोगम्मि'लोगदेसे य वायरा ॥ ८७ ॥
सन्तइ पण्य नाईया'अपज्जवसिया वि य ।
ट्ठिं पडुच्च साईया सपज्जवसिया वि य ॥ ८८ ॥
मत्तेव महम्साइं वासाणुक्कोसिया भवे ।
आउट्ठिं आऊण'अन्नोमुहुत्त जहन्निया ॥ ८९ ॥
असखकालमुक्कोम'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
कायट्ठिं आऊण त काय तु अमुञ्चओ ॥ ९० ॥
अणन्तकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नगं ।
विजढमि सए काए'आऊजीवाण अन्तर ॥ ९१ ॥

पुढवी आजजीवा य'तहेव य वणस्सई ।
 इच्चेव थावरा तिविहा'तेसिं मेए सुणेइ मे ॥ ७० ॥
 दुविहा उ पुढवीजीवा'सुहुमा वायरा तहा ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता'एवमेए दुहा पुणो ॥ ७१ ॥
 वायरा जे उ पज्जत्ता'दुविहा ते वियाहिया ।
 सण्हा खरा य बोद्धवा'सण्हा मत्तविहा तहिं ॥ ७२ ॥
 किण्हा नीला य रुहिरा य हलिदा सुक्किला तहा ।
 पण्हुपणगमट्टिया'खरा छत्तीसईविहा ॥ ७३ ॥
 पुढवी य सक्करा वालुया य उवले सिला य लोप्पसे ।
 अय-त्तउय-त्तम्ब-सीमर्ग-रूप-सुवण्णे य वइरे य ॥ ७४ ॥
 हरियाले हिङ्गुलए मणोसिला सासगंजण-पवाले ।
 अब्भपडल्लमंवालय-वायस्काए मणिविहाणे ॥ ७५ ॥
 गोमेज्जए य रुयगे'अङ्गे'फलगे य लोहियक्खे य ।
 मरगय-मसारगळे'भुयमोयग-इन्दनीले य ॥ ७६ ॥
 चन्दण गेरुय-इंसगव्भ'पुलए सोगन्धिए य बोद्धवे ।
 चन्दप्पहवेरुलिए'जलकन्ते'सूरकन्ते य ॥ ७७ ॥
 एए खरपुढवीए'भेया छत्तीसमाहिया ।
 एगविहमंनाणत्ता'सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥ ७८ ॥
 सुहुमा सव्वलोगम्मि'लोगदेसे य वायरा ।
 इत्तो कालविभाग तु तेमिं बुच्छ चउच्चिह ॥ ७९ ॥
 संतइ पप्प नाईया'अपज्जवसिया वि य ।
 त्तिड पड्डच्च साईया'सपज्जवसिया वि य ॥ ८० ॥

दस चैव सहस्साइ 'वामाणुकोसिया पणगाणं' ॥
 वणस्सईण आउ अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १०३ ॥
 अणन्तकालमुकोस 'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 कायठिई पणगाण त काय तु अमुच्चओ ॥ १०४ ॥
 असखकालमुकोस 'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजठमि सए काए 'पणगजीवाण अन्तर ॥ १०५ ॥
 एएसिं वण्णओ चैव गन्धओ रसफासओ ।
 सठाणदेमओ वावि विहाणाइ सहस्ससो ॥ १०६ ॥
 इच्चए थावरा तिविहा समासेण वियाहिया ॥
 इत्तो उ तसे तिविहे बुच्छामि अणुपुवसो ॥ १०७ ॥
 तेऊ वाऊ य बोधवा 'ओराला य तसा तहा ।
 इच्चए तसा तिविहा तेसिं मेए सुणेह मे ॥ १०८ ॥
 इविहा तेऊजीवा उ सुहुमा वायरा तहा ।
 रज्जत्तमपज्जत्ता 'एवमेए दुहा पुणो ॥ १०९ ॥
 वायरा जे उ पज्जत्ता 'णेगहा ते वियाहिया ।
 इङ्गले मुम्मुरे अगणी अच्चिजाला तहेव य ॥ ११० ॥
 उक्को विज्जू य बोधवा 'णेगहा एवमायओ ।
 एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्य वियाहिया ॥ १११ ॥
 सुहुमा सधलोगम्मि लोगदेसे य वायरा ।
 इत्तो कालविभाग तु तेसिं बुच्छं चउच्चिह ॥ ११२ ॥
 मंतइ पण्य नाईया अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च सईया 'सपज्जवसिया वि य ॥ ११३ ॥

एएसिं वण्णओ चेव गन्धओ रसफामओ ।
 सअणदेसओ वावि विहाणाइ सहस्ससो ॥ ९२ ॥
 दुविहा वणस्सईजीवा सुहुमा वायरा तहा ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता एवमेए दुहा पुणो ॥ ९३ ॥
 वायरा जे उ पज्जत्ता दुविहा ते वियाहिया ।
 साहारणसरीरा यं पत्तेगा य तहेव य ॥ ९४ ॥
 पत्तेगसरीराओ णेगहा ते पकित्तिया ।
 स्वखा गुच्छा य गुम्मा यं लया वली तणा तहा ॥ ९५ ॥
 वलया पवगा कुहणा जलरुहा ओसही तहा ।
 हरिकाया बोद्धवा पत्तेया इइ आहिया ॥ ९६ ॥
 साहारणसरीराओ णेगहा ते पकित्तिया
 आलुए मूलए चेव मिङ्गवेरे तहेव य ॥ ९७ ॥
 हरिली सिरिली सस्सिरिली जावई केयकन्दली ।
 पलण्डुलसणकन्दे य कन्दली य कुडुवए ॥ ९८ ॥
 लोहिणीहूय झीहूय तुहरा य तहेव य ।
 कण्हे य वज्जकन्दे य कन्दे मूरणए तहा ॥ ९९ ॥
 अस्सकण्णी य वोघ्रवा सीहकण्णी तहेव य ।
 मुसुण्डी य हलिहा य णेगहा एवमायओ ॥ १०० ॥
 एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्थ वियाहिया ।
 सुहुमा सवल्लोगम्मि लोगढेसे य वायरा ॥ १०१ ॥
 सतइं पप्प नाईया अपज्जवमिया वि य ।
 त्तिइ पडुच्च साईया मपज्जवमिया वि य ॥ १०२ ॥

अणन्तकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजदमि सए काए'वाऊजीवाण अन्तरं ॥ १२५ ॥
 एएसिं वण्णओ चेव'गन्धओ रसफासओ ।
 सठाणदेसओ वावि'विहागाइ सहस्ससो ॥ १२६ ॥
 ओराला तसा जे उ चउहा ते पकित्तिया ।
 वेइन्दिय-तेइन्दिय-चउरो-पश्चिन्दिया चेव ॥ १२७ ॥
 वेइन्दिया उ, जे जीवा'दुविहा ते पकित्तिया ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता'एवमेए दुहा पुणो ॥ १२८ ॥
 किमिणो सामङ्गला चेव अलसा माइवाहया ।
 वासीमुहा य सिप्पीया सङ्घा सङ्घणगा तहा ॥ १२९ ॥
 पलोया णुलया चेव'तहेव य वराडगा ।
 जल्लगा जालगा त्वेव चन्दणा य तहेव य ॥ १३० ॥
 इइ वेइन्दिया एए णेगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते सव्वे'न सव्वत्थ वियाहिया ॥ १३१ ॥
 सतइं पप्प नाईया अपज्जवसिया, वि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया'सपज्जवसिया, वि य ॥ १३२ ॥
 वासाइ वारसा चेव'उक्कोसेण वियाहिया ।
 वेइन्दियआउठ्ठीं अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १३३ ॥
 संखिज्जकालमुक्कोम'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 वेइन्दियकायठ्ठीं त काय तु अमुक्कोओ ॥ १३४ ॥
 अणन्तकालमुक्कोम'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 वेइन्दियजीवाण अन्तर च वियाहिय ॥ १३५ ॥

तिण्णेन अहोरत्ता उक्कोमेण वियाहिया ।
 आउठिडे तेऊण'अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ ११४ ॥
 असखकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 कायठिई तेऊण'त काय तु अमुच्चओ ॥ ११५ ॥
 अणन्तकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजढमि सए काए'तेऊजीवाण अन्तर ॥ ११६ ॥
 एएसि वण्णओ चेव गन्धओ रसफामओ ।
 सटाणदेसओ वावि'विहाणाइ सहस्मत्तो ॥ ११७ ॥
 दुविहा वाउजीवा उ'सुहुमा वायरा तहा ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता'एवमेए दुहा पुणो ॥ ११८ ॥
 वायरा जे उ पज्जत्ता पच्चहा ते पकित्तिया ।
 उक्कलिया मण्हलिया घणगुञ्जा सुद्धवाया य ॥११९॥
 सबट्टगवाते वा'ण्णेगहा एवमायओ ।
 एगविहमणाणत्ता'सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥ १२० ॥
 सुहुमा नवलोगम्मि'लोगदेमे य वायरा ।
 इत्तो कालविभाग तु तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥ १२१ ॥
 मंतइ पप्प नाइया'अपज्जवसित्तिया वि य ।
 ट्ठिइ पड्डच्च माईया'सपज्जवमिया वि य ॥ १२२ ॥
 तिण्णेव महस्माइ'वामागुक्कोमिया भवे ।
 आउठिई वाऊण'अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १२३ ॥
 असखकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 कायठिई वाऊण त काय तु अमुच्चओ ॥ १२४ ॥

अणन्तकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजढमि सए काए'वाऊजीवाण अन्तरं ॥ १२५ ॥
 एएसिं वण्णओ जेव'गन्धओ रसफासओ ।
 सठाणदेसओ वावि'विहाणाइ सहस्ससो ॥ १२६ ॥
 ओराला तसा जे उ चउहा ते पकित्तिया ।
 वेइन्दिय-तेइन्दिय-चउरो-पञ्चिन्दिया चेव ॥ १२७ ॥
 वेइन्दिया उ, जे जीवा'दुविहा ते पकित्तिया ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता'एवमेए दुहा पुणो ॥ १२८ ॥
 किमिगो सामङ्गला चेव अलसा माइवाहया ।
 वासी'मुहा, य सिप्याया सङ्घा सङ्घणगा तहा ॥ १२९ ॥
 पलोया णुलया चेव'तहेव य वराडगा ।
 जलूगा जालगा चेव'चन्दणा, य तहेव य ॥ १३० ॥
 इइ वेइन्दिया एए णेगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते मधे'न सवत्थ, वियाहिया ॥ १३१ ॥
 सतइ पप्प नाइया'अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च माइया'सपज्जवसिय, वि य ॥ १३२ ॥
 वासाइ वारसा चेव'उक्कोसेण वियाहिया ।
 वेइन्दियआउठिई अन्नोमुहुत्त जहन्निया ॥ १३३ ॥
 सखिज्जकालमुक्कोम'अन्नोमुहुत्त जहन्नग ।
 वेइन्दियकायठिई त काय तु अमुञ्चओ ॥ १३४ ॥
 अणन्तकालमुक्कोस'अन्नोमुहुत्त जहन्नग ।
 वेइन्दियजीवाण अन्नर च वियाहिय ॥ १३५ ॥

एषिं वण्णओ च्चव गन्धओ रसफामओ ।
 सअणदेसओ वावि विहाणाइ महस्ससो ॥ १३६ ॥
 तेइन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पक्कित्थिया ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता एवमेए दुहा पुणो ॥ १३७ ॥
 कुन्थुपिवीलिउइं सा उक्कलुद्धेहिया तहा ।
 तणहारकट्टहारा भ्य माद्धगपत्तहारा ॥ १३८ ॥
 कप्पासट्ठिमि जायन्ति दुगा उत्तस्समिअगा ।
 सदावरी य गुम्मी य बोद्धवा इन्दगाइया ॥ १३९ ॥
 इन्दगोवगमाइया णेगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते संवेध्न सवत्थ वियाइया ॥ १४० ॥
 सतइ पप्य नाइया अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइं पडुच्च साइया सपज्जवसिया वि य ॥ १४१ ॥
 एगूणवन्नहोरत्ता उक्कोसेण वियाइया ।
 तेइन्दियआउठिइं अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १४२ ॥
 संखिज्जकालमुक्कोसं अन्तोमुहुत्तं जहन्नं ।
 तेइन्दियकययठिइं तं कय तु अमुअओ ॥ १४३ ॥
 अणन्तकालमुक्कोसं अन्तोमुहुत्तं जहन्नं ।
 तेइन्दियजीवाणं अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १४४ ॥
 एषिं वण्णओ च्चव गन्धओ रसफासओ ।
 सअणदेसओ वावि विहाणाइं सहस्ससो ॥ १४५ ॥
 चउरिन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पक्कित्थिया ।
 पज्जत्तमपज्जत्ता एवमेए दुहा पुणो ॥ १४६ ॥

अन्धिया पोत्तिया-चेवःमच्छिया भसगा तहा ।
 ममरे कीडययङ्गे य'द्विङ्गणे'कङ्गणे तहा ॥ १४७ ॥
 कुक्कुडे सिङ्गरीडी य नन्दावत्ते' य' विच्छिण् ।
 ढोले भिङ्गारी य विरली अच्छिवेहण् ॥ १४८ ॥
 अचेहिळे साहण्'अच्छिरोहण्' विचित्ते'चित्तपत्तण् ।
 उहिंजलिया जलकारी य नीया तन्तवगाइया ॥ १४९ ॥
 इय चउरिन्दिया एण गेगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे'ते सवे-न'सवत्थ'वियाहिया' ॥ १५० ॥
 सतइ पण्य नाईया'अपज्जवसिया वि'य' ।
 ठिं पडुच्च साईया भसपज्जवसिया वि'य' ॥ १५१ ॥
 छवेव मासाऊ उक्कोसेण वियाहिया ।
 चउरिन्दियआउठिई अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १५२ ॥
 संसिज्जकालमुक्कोस'अन्तोमुहुत्त' जहन्नगं ।
 चउरिन्दियकायठिई त काय तु अमुच्चओ ॥ १५३ ॥
 अणन्तकालमुक्कोस अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 चउरिन्दियजीवाण अन्तर च वियाहिय ॥ १५४ ॥
 एणसिं वण्णओ चेव गन्धओ'रसफासओ ।
 संअणदेसओ वावि विहाणाइं सहस्ससो ॥ १५५ ॥
 पश्चिन्दिया उ जे जीवा'चउविहा ते वियाहिया ।
 नेरइय तिरिक्खा य'मणुया देवा य आहिया ॥ १५६ ॥
 नेरइया सत्तविहा'पुठवीसू सत्तसू भवे ।
 रयणाभ सक्करामा'वाल्लयाभा य आहिया ॥ १५७ ॥

पद्माभा धूमाभा तमा तर्मतमा तहा ।

इइ नेरुया एए सत्तहा परिक्कित्तिया ॥ १५८ ॥

लोगस्स एगडेसम्मि ते सधे वियाहिया ।

एत्तो कालविभाग चउविहा ते वियाहिया ॥ १५९ ॥

सतइ, पण्ण नाइया अपज्जवमिया वि य ।

ठिइ पडुच्च साइया सपज्जवमिया वि य ॥ १६० ॥

सागरोवममेग तु उक्कोसेण वियाहिया ।

पढमाए जहन्नेण दमवाससहास्सिया ॥ १६१ ॥

तिण्णेव सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

दोच्चाए जहन्नेण एगं तु सागरोवम ॥ १६२ ॥

सत्तेव सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

तइयाए जहन्नेण निन्नेव सागरोवमा ॥ १६३ ॥

दससागरोवमाऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

चउत्थीए जहन्नेण सत्तेव सागरोवमा ॥ १६४ ॥

सत्तरससागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

पञ्चमाए जहन्नेण दस चव नागरोवमा ॥ १६५ ॥

बावीससागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

छट्ठीए जहन्नेण सत्तरस नागरोवमा ॥ १६६ ॥

तेत्तीससागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहन्नेण बावीस नागरोवमा ॥ १६७ ॥

जा चव य आउठिई नेरुयाण वियाहिया ।

सा तेसिं कार्याठिई जहन्नुक्कोसिया भवे ॥ १६८ ॥

अणन्तकालमुक्कोस 'अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजढमि सए काए नेरइयाणं अन्तर ॥ १६९ ॥
 एएसिं वण्णओ चेव गन्धओ रसफासओ ।
 अणढेसओ वावि 'विहाणाइ सहस्सओ ॥ १७० ॥
 च्चिन्दियतिरिक्खाओ 'दुविहा ते वियाहिया ।
 मुच्छिम्मतिरिक्खाओ गम्भवक्कन्तिया तहा ॥ १७१ ॥
 विहा ते भवे तिपिहा 'जलयरा थलयरा तहा ।
 ह्यरा य बोधवा 'तेसि भेदे सुणेह मे ॥ १७२ ॥
 च्छा य कच्छभा य गाहा य मगरा तहा ।
 सुमारा य बोधवा 'पञ्चहा जलयराहिया ॥ १७३ ॥
 एएगढेसे ते सवे न सवत्थ वियाहिया ।
 त्तो कालविभाग चउविहा ते वियाहिया ॥ १७४ ॥
 तइ पप्प नाईया अपज्जवसिया वि य ।
 इ पडुच्च साईया 'सपज्जवसिया वि य ॥ १७५ ॥
 गाओ पुव्वकोडीओ उक्कोसेण वियाहिया ।
 भाउट्ठिई जलयराण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १७६ ॥
 व्वकोट्टिपुहुत्त तु उक्कोसेण वियाहिया ।
 गायट्ठिई जलयराण 'अन्तोमुहुत्तं जहन्नग ॥ १७७ ॥
 अणन्तकालमुक्कोस 'अन्तोमुहुत्त जहन्नगं ।
 विजढमि मए काए जलयराण अन्तर ॥ १७८ ॥
 उप्पया य परिसप्पा दुावेहा थलयरा भवे ।
 उप्पया चउविहा ते मे कित्तयओ सुण ॥ १७९ ॥

एगखुरा दुखुरा चैव गण्डीपय मणप्यया ॥
 ह्यमाइ गोणमाइ गयमाइ सोहमाइगो ॥ १८० ॥
 भुओरग परिसप्या य परिमप्या दुग्गिहा भवे ।
 गोहाइ अहिमाइ य एकेका णेगहा भवे ॥ १८१ ॥
 लोएगदेसे ते सवे न मवत्य वियाहिया ।
 एत्तो कालविभागं चउविहा ते वियाहिया ॥ १८२ ॥
 सतइ पप्य नाइया अपज्जवमिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साइया मपज्जवमिया वि य ॥ १८३ ॥
 पलिओवमाइ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया ।
 आउठिइ थलयराण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १८४ ॥
 पुव्वकोटिपुहुत्तेण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ।
 कायठिइ जलयराण अन्तर तेसिमें भवे ॥ १८५ ॥
 कालमणन्तमुक्कोस अन्तोमुहुत्त जहन्नग ॥
 विजढम्मि सए काए थलयराण तु अन्तर ॥ १८६ ॥
 चम्मे उ लोमपक्खीया तइया समुग्गपक्खिया ।
 विययपक्खी य बोधवा पक्खिणो य चउविहा ॥ १८७ ॥
 लोगेगदेसे ते सवे न मवत्य वियाहिया ।
 इत्तो कालविभागं तु तेसिं बुच्छ चउविहं ॥ १८८ ॥
 संतइ पप्य नाइया अपज्जवमिया वि य ।
 ठिइ पडुच्च साइया मपज्जवमिया वि य ॥ १८९ ॥
 पलिओवमस्स भागो असखेज्जमो भवे ।
 आउठिइ स्वहयराण अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ १९० ॥

- असखभाग पलियस्स उकोसेण उ माहिया ।
 पुषकोडीपुहुत्तेण अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १९१ ॥
 विई खहराण अन्तरे तेसिमे भवे ।
 कालं अणन्तमुकोस अन्तोमुहुत्तं जहन्नग ॥ १९२ ॥
 एएसिं वण्णओ चेव गन्धओ रसफासओ ।
 सठाणदेसओ वावि विहाणाइ सहस्ससो ॥ १९३ ॥
 मणुया द्विविहमेया उ ते मे कित्तयओ सुण ।
 समुच्छिमा य मणुया गवमवकन्तिया तथा ॥ १९४ ॥
 गवमवकन्तिया जे उ तिविहा ते वियाहिया ।
 कम्मअकम्ममूमा य अन्तरहीवया तथा ॥ १९५ ॥
 पन्नरस तीसविहा मेया अट्टवीसइ ।
 सखा उ कमसो तेसि इइ एसा वियाहिया ॥ १९६ ॥
 समुच्छिमाण एसेव मेओ होइ वियाहिओ ।
 लोगस्स एगदेसम्मि ते सवे त्रि वियाहिया ॥ १९७ ॥
 संतइ पप्प नाईया अपज्जवसिया वित्त्य ।
 ठिइ पहुच्च साईया सपज्जवसिया वित्त्य ॥ १९८ ॥
 पलिओवमाउ तिन्नि वि असखेज्जइमो भवे ।
 आउट्टिई मणुयाण अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १९९ ॥
 पलिओवमाइं तिन्नि उ उकोसेण उ साहिया ।
 पुषकोडिपुहुत्तेण अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २०० ॥
 कायठिई मणुयाण अन्तर तेसिम भवे ।
 काल्मणन्तमुकोस अन्तोमुहुत्तं जहन्नगं ॥ २०१ ॥

एणमि वण्णओ चेत्रगन्धओ स्मफामओ ।
 सठणढेसओ वावि विहागाइ महस्समो ॥ २०२ ॥
 देवा चउविहा वुत्ताते मं कित्तयओ सुण ।
 भोमिज्ज वाणमन्तर।जोइम वेमाणिया तहा ॥ २०३ ॥
 दमहा उ भवणवामी।अट्टहा वगच्चारिणो ।
 पञ्चविहा जोइमिया'दुविहा वेमाणिया तहा ॥ २०४ ॥
 असुरा नागसुवण्णा विज्जू अग्गी वियाहिया ।
 दीवेदहि दिसा वायाः यणिया भवगवासिणा ॥ २०५ ॥
 पिसाय भूय जक्खा यः रक्खत्ता किन्नरा किंपुरिसा
 महोरगा य गन्धवाः अट्टविहा वाणमन्तरा ॥ २०६ ॥
 चन्दा सूरा य नक्खत्ता गहा तारागणा तहा ।
 दिसाविचारिणो चेत्रपञ्चहा जे इसालया ॥ २०७ ॥
 वेमाणिया उ जे देवाः दुविहा ते वियाहिया ।
 कप्पोवगा य बोधवाः कप्पाईया तेहव य ॥ २०८ ॥
 कप्पोवगा वारसहाः सोहम्मीसाणगा तहा ।
 सणकुमार माहिन्दा बम्मलोगा य लन्नगा ॥ २०९ ॥
 महासुक्का सहस्मारा आणया पाणया तहा ।
 आरणा अच्चुया चेत्र इइ कप्पोवगा सुरा ॥ २१० ॥
 कप्पाईया उ जे देवाः दुविहा ते वियाहिया ।
 गेविज्जा णुत्तरा चेत्रगेविज्जा नवविहा तहि ॥ २११ ॥
 हेट्ठिमा हेट्ठिमा चेत्रहेट्ठिमा मज्झिमा तहा ।
 हेट्ठिमा उवरिमा चेत्रमज्झिमा हेट्ठिमा तहा ॥ २१२ ॥

मज्झिमा मज्झिमा चैव । मज्झिमा उवरिमा तहा ।
 उवरिमा हेट्टिमा चैव । उवरिमा मज्झिमा तहा ॥ २१३ ॥
 उवरिमा उवरिमा चैव । इय गेविज्जगा सुरा ।
 विजया वेजयन्ता यः जयन्ता अपराजिया ॥ २१४ ॥
 सवत्थसिद्धगा चैव । पञ्चहा णुत्तरा सुरा ।
 इय वेमाणिया एण । णेगहा एवमायओ ॥ २१५ ॥
 ओगस्स एगदेसम्मि । ते सव्वे वि वियाहिया ।
 त्तो कालविभाग तु । तेसि बुच्छं चउविह ॥ २१६ ॥
 संतइं पप्प नईया । अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पड्डच्च सईया । सपज्जवसिया वि य ॥ २१७ ॥
 साहियं सागर एक्क उक्कोसेण ठिइ भवे ।
 मोमेज्जाण जहन्नेण दसवाससहस्सिया ॥ २१८ ॥
 पलिओवम दोऊणा । उक्कोसेण वियाहिया ।
 असुरेन्दवज्जेताण । जहन्ना दस हिस्सगा)
 पलिओवममेग तु । उक्कोसेण ठिइ भवे ।
 वन्तराण जहन्नेण । दसवाससहस्सिया ॥ २१९ ॥
 पलिओवममेग तु । वामलक्खेण साहियं ।
 पलिओवमड्डभागो । जोइसेसु जहन्निया ॥ २२० ॥
 दो चैव सागराइ । उक्कोसेण वियाहिया ।
 सोहम्ममि जहन्नेण । एग च पलिओवम ॥ २२१ ॥
 सागरा साहिया दुन्नि उक्कोसेण वियाहिया ।
 साणम्मि जहन्नेण साहिय पलिओवम ॥ २२२ ॥

सागराणि य सत्तेव उक्कोसेण ढिई भवे ।

सण कुमारे जहन्नेणं दुन्नि ऊ मागरोवमा ॥ २२३ ॥

साहिया सागरा सत्त उक्कोसेण ढिई भवे ।

माहिन्दम्मि जहन्नेणं माहिया दुन्नि सागरा ॥ २२४ ॥

दस चैव सागराई उक्कोसेणं ढिई भवे ।

वम्मलोए जहन्नेण मत्तं ऊ सागरोवमा ॥ २२५ ॥

चउदस सागराई उक्कोसेणं ढिई भवे ।

लन्तगम्मि जहन्नेणं दस उ सागरोवमा ॥ २२६ ॥

सत्तरस सागराई उक्कोसेणं ढिई भवे ।

महासुक्के जहन्नेण चउदस सागरोवमा ॥ २२७ ॥

अट्टारस सागराई उक्कोसेणं ढिई भवे ।

सहस्सारम्मि जहन्नेण सत्तरस सागरोवमा ॥ २२८ ॥

सागरा अउणवीसं तु उक्कोसेण ढिई भवे ।

आणयम्मि जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमा ॥ २२९ ॥

वीस तु सागराई उक्कोसेणं ढिई भवे ।

पाणयम्मि जहन्नेण सागरा अउणवीसई ॥ २३० ॥

सागरा इक्कीसं तु उक्कोसेण ढिई भवे ।

आरणम्मि जहन्नेण वीसई सागरोवमा ॥ २३१ ॥

बावीसा सागराई उक्कोसेण ढिई भवे ।

अच्चुयम्मि जहन्नेण सागरा इक्कीसई ॥ २३२ ॥

तेवीस सागराई उक्कोसेण ढिई भवे ।

पदमम्मि जहन्नेण बावीसं सागरोवमा ॥ २३३ ॥

चउवीस सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 विइयम्मि नहन्नेण तेवीस सागरोवमा ॥ २३४ ॥
 पणवीस सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 तइयम्मि जहन्नेण चउवीस सागरोवमा ॥ २३५ ॥
 छवीस सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउत्यम्मि जहन्नेण सागरा पणुवीसई ॥ २३६ ॥
 सागरा सत्तवीस तु उक्कोसेण ठिई भवे ।
 पञ्चमम्मि जहन्नेण सागरा उ छवीसई ॥ २३७ ॥
 सागरा अट्टवीस तु उक्कोसेण ठिई भवे ।
 छट्ठम्मि जहन्नेण सागरा सत्तवीसई ॥ २३८ ॥
 सागरा अउणतीस तु उक्कोसेण ठिई भवे ।
 सत्तमम्मि जहन्नेण सागरा अट्टवीसई ॥ २३९ ॥
 तीस तु सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 अट्ठमम्मि जहन्नेण सागरा अउणतीसई ॥ २४० ॥
 सागरा इक्कीस तु उक्कोसेण ठिई भवे ।
 नवमम्मि जहन्नेण तीसई सागरोवमा ॥ २४१ ॥
 तेत्तीसा सागराइ उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउसु पि विजयईसु जहन्नेणेक्कीसई ॥ २४२ ॥
 अजहन्नमणुक्कोसा तेत्तीस सागरोवमा ।
 महाविमाणे सषट्ठे ठिई एसा वियाहिया ॥ २४३ ॥
 जा चेव उ आउठिई देवाण तु वियाहिया ।
 सा तेसिं कायठिई जहन्नमुक्कोसिया भवे ॥ २४४ ॥

अणन्तकालमुफोसं अन्तोमुहुत्त जहन्नग ।
 विजठमि मए काए देवाण हुज्ज अन्तरं ॥ २४५ ॥
 एएसि वण्णओ चेव गन्धओ रमफासओ ।
 सत्ताणढेसओ वापि विहाणाइ महस्ममो ॥ २४६ ॥
 ससारत्था य मिच्छा इय जीवां वियाहिया ।
 रुविगो चेवरूयी य अजीवा दुविहा वि य ॥ २४७ ॥
 (अगन्नकालमुफोम वासपुहुत्त जहन्नग ।
 आणयाइण कप्पाणगेविज्जाण तु अन्तर ॥
 सखिज्जसागरुकोसं वासपुहुत्त जहन्नग ।
 अणुत्तराण य देवाण अन्तर तु वियाहिया ॥)
 इय जीवमजीवे य सोच्चा सहहिज्जण य ।
 सधनयाणमणुमए रमेज्ज सजमे सुणी ॥ २४८ ॥
 तओ वट्टाणि वासाइ सामण्णमणुपालिय ।
 इमेण कम्मजोगेण अप्पाणं सलिहे सुणी ॥ २४९ ॥
 वारसेव उ वासाइ संलेहुक्कोमिया भवे ।
 संवच्छर मज्झिमिया च्छम्मासा य जहन्निया ॥ २५० ॥
 पदमे वासचउक्कमि विगई निज्जूहणं करे ।
 विइए वासचउक्कमि विचित्त तु तवं चरे ॥ २५१ ॥
 एगन्तरमायामं कट्टु संवच्छरे दुवे ।
 तओ संवच्छरद्धं तु नाइविगिट्ठ तव चरे ॥ २५२ ॥
 तओ संवच्छरद्धं तु विगिट्ठं तु तव चरे ।
 परिमिय चेव आगाम तमि संवच्छरे करे ॥ २५३ ॥

कोडीसहियमायाम'कट्टु संवच्छरे मुणी ।

मासद्धमासिण तु । आहारेण तव चरे ॥ २५४ ॥

कन्दप्पमामिओग च'किधिसिय मोहमासुरत्त च ।

एयाउ दुग्गईओ'मरणम्मि'विराहिया होन्ति ॥ २५५ ॥

मिच्छदसणरत्ता'सनियाणा उ हिसगा ।

इय जे मरन्ति जीवा'तेमिं पुण दुल्लहा वोही ॥२५६॥

सम्मदसणरत्ता'अनियाणा सुकलेसमोगाढ ।

इय जे मरन्ति जीवा'तेसिं सुलहा भवे वोही ॥२५७॥

मिच्छदंसणरत्ता'सनियाणा कण्हलेसमोगाढ ।

इय जे मरन्ति जीवा'तेमिं पुण दुल्लहा वोही ॥२५८॥

जिणवयणे अणुरत्ता'जिणवयणं करेन्ति भावेण ।

अमला असंकिलिद्धा ते होन्ति परित्तससारी ॥२५९॥

वालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि चेव य बह्वणि ।

मरिहन्ति ते वराया जिणवयणं जे न-याणन्ति ॥२६०॥

बहुआगमविन्नाणा'समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।

एणं कारणेण अरिहा'आलोयण सोउ ॥ २६१ ॥

कन्दप्पकुक्कुयाइ तह सील्लसहावहसणविगहाइं ।

एहावेन्तो वि पर कन्दप्प'भावणं कुणइ ॥ २६२ ॥

पन्ताजार्ग'काउ भूईकम्म च जे पउञ्जन्ति ।

जाय-रस-इद्धि-हेउ अमिओग भावण कुणइ ॥ २६३ ॥

गणस्सं केवलीण घम्मायरियस्स सद्धमाहूण ।

माई अवण्णवाई किविसियं भावणं कुणइ ॥ २६४ ॥
 अणुवद्धरोसपसरो तह य निभिसंमि ह्ये पडिसेव
 एएहि कारणेहि आसुरिय भावणं कुणइ ॥ २६५ ॥
 सत्यगहणं विसमक्खणं चं जलणं च जल्लंवेसो व
 अणायारमण्हसेवी, जम्मणमरणाणि, कन्धन्ति ॥ २६६ ॥
 हय, पाउकरे, बुद्धे नायए परिनिव्वुए ।
 छतीस, उत्तरज्ज्ञाए भवसिद्धीयसम्मए ॥ २६७ ॥
 - ॥ सि-वेसि
 - ॥ जीवाजीवविभत्ती ॥

